



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 4
PART I—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2]

No. 2]

नई दिल्ली, रविवार, अगस्त 15, 1982/श्रावण 24, 1904
NEW DELHI, SUNDAY, AUGUST 15, 1982/SRAVANA 24, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रक्षा मंत्रालय

थल सेना विभाग

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 1982

सं० 8-ई दिनांक 11 अगस्त 1982 -- राष्ट्रपति सतर्पण स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त 1982) के अवसर पर निम्नलिखित
जे० सी० आ० को मेना विनियमावली 1962 क पैरा 178 के अधीन अवैतनिक पद प्रदान करने हे --

अवैतनिक कॅप्टन के रैंक में

14 हास

1 जे सी 69871 एल

रिम्तालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट

गुग्ताम सिंह

61 केवलरी

2 जे सी 37656 एम

रिम्तालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट

फैतह मोहम्मद खान, बी एस एम

45 केवलरी

3 जे सी 38367 क

रिम्तालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट

विक्रमा राय

64 केवलरी

1 जे सी 48730 एन

रिम्तालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट

बलबीर सिंह

71 ग्रार्मंड रेजीमेंट

5 जे सी 60400 डब्ल्यू

रिम्तालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट

मोहिनंदर सिंह

रेजीमेंट ग्राफ ग्राटिलरी

6. जे सी 25894 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बलदेव दत्त
7. जे सी 32810 डबल्यू	"	डी पलानी चामी
8. जे सी 45490 एल	"	दत्तू पाटिल
9. जे सी 62114 एन	"	दुर्गा सिंह
10. जे सी 41015 एक्स	"	जी बेलापन नायर
11. जे सी 40278 के	"	हरी सिंह
12. जे सी 31023 एच	"	हरनारायण सिंह
13. जे सी 27052 ए	"	ईश्वर सिंह
14. जे सी 32261 एफ	"	जयपाल सिंह
15. जे सी 33277 वाई	"	के बी परमेश्वरा कुरुप
16. जे सी 47938 वाई	"	लखा सिंह
17. जे सी 45386 एक्स	"	मनिकराव पीवार
18. जे सी 45467 एक्स	"	मित्या नन्व यावव
19. जे सी 25833 पी	"	राम चिन्त यादव
20. जे सी 25881 पी	"	राम करन
21. जे सी 45468 ए	"	सूरज भान
22. जे सी 41003 एच	"	वी एन भास्करन

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

23. जे सी 49057 वाई	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बी आई पोथान
24. जे सी 66218 एम	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कालीमुथू
25. जे सी 66140 एम	"	आर जी विश्वाकभू
26. जे सी 53624 एन	"	राधा कृष्णन सी
27. जे सी 55505 डबल्यू	"	राधवन टी के
28. जे सी 60780 ए	"	एस कृष्णन

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

29. जे सी 42127 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मेहेन्द्रा सिंह
30. जे सी 44533 एच	"	मुठक सिंह
31. जे सी 35681 एम	"	परकाश सिंह
32. जे सी 76763 के	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	खीम बहादुर
33. जे सी 55927 एन	"	महाबीर सिंह
34. जे सी 77702 वाई	"	तिरथ सिंह
35. जे सी 50416 एन	"	अमा शंकर सिंह
36. जे सी 69567 एफ	"	विद्या दत्त

बाम्बे इंजीनियर ग्रुप

37. जे सी 33703 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	घोंडु सकपाल
38. जे सी 27762 एक्स	"	हुकम चन्द
39. जे सी 33689 ए	"	पांडुरंग मोरे
40. जे सी 60433 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्रसाप सावंत
41. जे सी 70935 एक्स	"	प्रीतम सिंह
42. जे सी 70934 पी	"	शान्ताराम सुर्वे

कोर आफ सिगनल्स

43. जे सी 59833 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सी उन्नीकुणन
44. जे सी 60651 ए	"	गोपी चन्द
45. जे सी 37262 एन	"	गुरमीत सिंह
46. जे सी 59857 एल	"	हरगोबिन्द पाठक
47. जे सी 32125 एल	"	हरबन्स दुबे
48. जे सी 59856 एच	"	कुलानन्द शर्मा
49. जे सी 59835 एम	"	प्रीतम सिंह हाथरे
50. जे सी 60218 डब्ल्यू	"	सोहन सिंह
51. जे सी 52847 वाई	"	वर्याम सिंह
52. जे सी 75994 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	चरनजीत लाल

बि मेकनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजीमेंट

53. जे सी 36949 एल	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पद्म बहादुर मल्ल
54. जे सी 39378 एच	"	सुखदेव सिंह
55. जे सी 67706 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बीर सिंह सामवाल

बि पंजाब रेजीमेंट

56. जे सी 48545 पी	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गुरदेव सिंह
57. जे सी 72974 पी	"	काबल सिंह

बि मद्रास रेजीमेंट

58. जे सी 44873 एल	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	एम इस्मैल
--------------------	-----------------------------------	-----------

बि प्रिन्सिपल्स

59. जे सी 72123 एच	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम धन
--------------------	------------------------------	--------

बि मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

60. जे सी 37625 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	ध्यानेश्वर गोरे
61. जे सी 36538 एम	"	गोपाल डंगले
62. जे सी 28054 एक्स	"	नानाजीराव कदम
63. जे सी 35636 ए	"	वसन्त चावण
64. जे सी 65048 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	आनन्दराव माने
65. जे सी 50056 एच	"	रामचन्द्रा सोनारे
66. जे सी 74850 वाई	"	संभाजी दत्तु शिन्दे

बि राजपुताना राइफल्स

67. जे सी 41357 एल	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भंवर सिंह
68. जे सी 80019 के	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम कुमार

बि राजपूत रेजीमेंट

69. जे सी 37978 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सरब देव तिवारी
70. जे सी 35594 वाई	"	सायर सिंह
71. जे सी 63726 एक्स	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गिर राज सिंह
72. जे सी 59018 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम सिंह, एस एम

बि जाट रेजीमेंट

73. जे सी 43908 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गोपीचन्द
74. जे सी 36248 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्रताप सिंह
75. जे सी 79453 के	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	घरसी राम

बि सिख रेजीमेंट

76. जे सी 45635 एल	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जोगिन्दर सिंह
77. जे सी 37038 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्यारा सिंह
78. जे सी 76503 वाई	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हरनन्दन सिंह

बि डोगरा रेजीमेंट

79. जे सी 39136 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मान सिंह
80. जे सी 36666 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	शिव राम
81. जे सी 68450 डब्ल्यू	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जोगेश्वर सिंह

बि गढ़वाल राइफलस

82. जे सी 42950 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बलवन्त सिंह रावत
83. जे सी 76889 के	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दलबीर सिंह बिष्ट

बि कुमायूं रेजीमेंट

84. जे सी 67716 एल	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अमर सिंह
85. जे सी 76888 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	लक्ष्मी दत्त जांशी

बि जम्मू एण्ड कश्मीर राइफलस

86. जे सी 31337 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जगदीश सिंह
87. जे सी 37562 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	काश्मीर सिंह
88. जे सी 63850 वाई	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	परमेश्वरी सिंह

बि जम्मू एण्ड कश्मीर लाइट इन्फैंट्री

89. जे सी 248 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मंगल मेन शर्मा
------------------	-----------------------------------	----------------

1 गोरखा राइफलस

90. जे सी 71895 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रुद्र सिंह गुरुंग
--------------------	------------------------------	-------------------

3 गोरखा राइफलस

91. जे सी 36706 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बीर बहादुर थापा
-------------------	-----------------------------------	-----------------

5 गोरखा राइफलस

92. जे सी 44884 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हेम लाल गुरुंग
----------------------	-----------------------------------	----------------

8 गोरखा राइफलस

93. जे सी 43696 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	चन्द्रा बीर गुरुंग
94. जे सी 65086 एक्स	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गुला राम थापा

11 गोरखा राइफलस

95. जे सी 46093 वाई	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जगत सिंह लामा
96. जे सी 58435 एन०	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अमृत बहादुर लिम्बू
97. जे० सी 58592 ए	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गोपाल प्रधान
98. जे सी० 73080 एल	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	इन्द्र कुमार देवान

ग्रामी सविस कीर (सप्लार्ड)

99. जे सी 26884 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बलदेव राज
100. जे सी 51274 एन	"	गुरमेज सिंह
101. जे सी 21955 एफ	"	नन्द किशोर
102. जे सी 60202 एल	"	नारायण सिंह सहलोटा
103. जे सी 21959 एक्स	"	प्रकाश चन्दर परमार
104. जे सी 57458 एच	"	राम बिहारी दास
105. जे सी 29709 एल	"	शैलेंद्र प्रसाद
106. जे सी 21980 ए	"	शक्ति प्रसाद कार
107. जे सी 57425 एक्स	"	सुख पाल सिंह
108. जे सी० 29708 एच	"	वृद्धि सिंह चौहान
109. जे सी 69809 वाई	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	आर धर्मा राजन

ग्रामी सचिस कोर (मकेनिकल ट्रांसपोर्ट)

110. जे सी 42675 एफ सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट नच्छीतर सिंह

ग्रामी मेडिकल कोर

111. जे सी 68741 डबल्यू सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट चसर सिंह
 112. जे सी 67482 एम सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट सहतार सिंह
 113. जे सी 77834 एम सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट प्रभाकर जाशी
 114. जे सी 79380 एच सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट शिव पूजन सिंह
 115. जे सी 63286 पी सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट विट्ठल

ग्रामी ग्राउन्ड कोर

116. जे सी 38298 वाई सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट मंगल सिंह
 117. जे सी 50451 डबल्यू सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट मस्तान सिंह
 118. जे सी 49317 वाई सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट एन सेथु माधवन नायर
 119. जे सी 68363 एच सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट हरी शंकर पन्त
 120. जे सी 80645 एन सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट जोगिन्दर सिंह
 121. जे सी 68362 ए सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट कुलधन्त सिंह
 122. जे सी 68361 एक्स सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट मैथ्यू पी टी

कोर ग्राफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल इंजिनियर्स

123. जे सी 54293 के सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट अमर सिंह
 124. जे सी 38959 एन सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट सी रामाचन्द्रन मेनन
 125. जे सी 28878 एच सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट छक्कन लाल
 126. जे सी 39663 एफ सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट धर्म पाल मामन्त
 127. जे सी 38722 डबल्यू सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट के आर चाक्रेकर
 128. जे सी 36313 के सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट किरपाल सिंह
 129. जे सी 38699 एन सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट लक्ष्मी चन्द्र
 130. जे सी 56582 एक्स सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट प्रेम सिंह
 131. जे सी 45977 वाई सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट राम नाथ
 132. जे सी 38753 डबल्यू सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट सम्पूर्ण सिंह
 133. जे सी 32640 एक्स सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट सुधीर चन्द्र सुबधर
 134. जे सी 56534 एक्स सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट आबासाहेब जाधव
 135. जे सी 67831 एल सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट जगजीत सिंह

ग्रामी एजुकेशन कोर

136. जे सी 26673 एम सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट भगवान सिंह यादव
 137. जे सी 22145 एन सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट भरत सिंह बदन
 138. जे सी 22155 पी सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट माम चन्द
 139. जे सी 77530 पी सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट बुद्धि चन्द राना

बी इंटेलिजेंस कोर

140. जे सी 32465 एन सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट किशन सिंह
 141. जे सी 33548 एन सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट राम करन सिंह
 142. जे सी 32464 एन सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट रति राम
 143. जे सी 32466 डबल्यू सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट शंकर सिंह बिष्ट

बी पाइनियर कोर

144. जे सी 50534 एफ सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट प्रह्लाद राम

डिफेंस सिविलियरिटी कोर

145. जे सी 71019
146. जे सी 63892
147. जे सी 64862

सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट
सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट
सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट

विश्वनाथ सिंह
श्याम लाल यादव
श्री राम सिंह

अवैतनिक लैफ्टिनेंट के रैंक में

बी प्रेजीडेंट्स बाजीगाइस

1. जे सी 76738 एल
2. जे सी 71818 बाई

रिसालदार
रिसालदार

गज सिंह
जागीर सिंह

8 केवलरी

3. जे सी 63571 एन

रिसालदार मेजर

अम्बर सिंह

1 हार्स

4. जे सी 69907 बाई

रिसालदार मेजर

चन्दर भान

2 लान्सर्स

5. जे सी 41483 एम्स

रिसालदार मेजर

माहबीर सिंह

17 हार्स

6. जे सी 40920 ए

रिसालदार मेजर

गनपत सिंह

9 हार्स

7. जे सी 62021 बाई

रिसालदार मेजर

मेहर सिंह

3 केवलरी

8. जे सी 41482 पी
9. जे सी 75285 बाई
10. जे सी 63875 एल

रिसालदार मेजर
रिसालदार
रिसालदार

अनजनी कुमार सिंह
मान सिंह
प्रकाश सिंह

4 हार्स

11. जे सी 79196 एम्स
12. जे सी 79651 पी

रिसालदार
रिसालदार

बलबीर सिंह
गुलज़ार सिंह

सेंट्रल इंडिया हार्स

13. जे सी 33729 पी

रिसालदार मेजर

प्रथ्वी सिंह

20 लान्सर्स

14. जे सी 33804 पी

रिसालदार मेजर

मम्पूर्ण सिंह

64 केवलरी

15. जे सी 71636 एल
16. जे सी 63554 एन

रिसालदार
रिसालदार

ओम प्रकाश खन्ना
विजय बहादुर सिंह

67 आर्मर्ड रेजीमेंट

17. जे सी 72602 के

रिसालदार

गुलाब सिंह वर्मा

68 आर्मर्ड रेजीमेंट

18. जे सी 38179 एच
19. जे सी 57561 एन

रिसालदार मेजर
रिसालदार

शिव वत्त
इन्द्रा सिंह

70 आर्मर्ड रेजीमेंट

20. जे सी 50979 एन

रिसालदार मेजर

मुकन्द सिंह

72 आर्मर्ड रेजीमेंट

21. जे सी 79198 एच
22. जे सी 82449 एम

रिसालदार
रिसालदार

हरनाम सिंह
लाल चन्द वर्मा

74 आर्मंड रेजीमेंट

23. जे सी 44349 एम रिमालदार मेजर अमर सिंह

81 आर्मंड रेजीमेंट

24. जे सी 69915 एम रिमालदार हरदेव सिंह

25. जे सी 66180 एन रिमालदार लाल चन्द

82 आर्मंड रेजीमेंट

26. जे सी 64847 एल रिमालदार भंवर सिंह

84 आर्मंड रेजीमेंट

27. जे सी 51844 वाई रिमालदार मेजर निठी राम

88 आर्मंड रेजीमेंट

28. जे सी 69874 वाई रिमालदार भंवर सिंह

89 आर्मंड रेजीमेंट

29. जे सी 77882 एम रिमालदार हरचन्द सिंह

41 आर्मंड रेजीमेंट

30. जे सी 71828 एच रिमालदार किशोर सिंह

आर्मंड कोर

31. जे सी 14189 एन रिमालदार मेजर (आर टी) पीताम्बर दत्त खंदू

32. जे सी 76759 एफ रिमालदार बदन सिंह

33. जे सी 81437 एल " त्रिज नारायण सिंह

34. जे सी 72021 एम " राजपाल सिंह

35. जे सी 79203 एच " सरदार सिंह

रेजीमेंट आफ आर्टिलरी

36. जे सी 40232 एफ सूबेदार मेजर ए पी गनाना सिमहन

37. जे सी 25844 एफ " अमर सिंह यादव

38. जे सी 40182 एफ " अमीर सिंह

39. जे सी 37880 वाई " आत्माराम पाटिल

40. जे सी 32838 डबल्यू " बचन सिंह

41. जे सी 45586 डबल्यू " बदन सिंह

42. जे सी 24320 एन " त्रिज राज सिंह

43. जे सी 48512 के " चन्द्र विक्रम साही

44. जे सी 10417 एन सूबेदार मेजर (आर टी) धर्म दत्त शर्मा

45. जे सी 45456 एल सूबेदार मेजर दुली चन्द

46. जे सी 45375 एल " दुनी चन्द

47. जे सी 45323 पी " ई ए अलकजेंडर

48. जे सी 40312 वाई " हरबस सिंह

49. जे सी 32251 एक्स " हरभजन सिंह

50. जे सी 40321 ए " हरी राम

51. जे सी 34318 के " इडीकुला टी एम

52. जे सी 37884 पी " जगन्नाथ बाने

53. जे सी 41000 पी " जोध सिंह

54. जे सी 45417 एम " के एम कृष्णन नायर

55. जे सी 25731 वाई " के पी गोविन्दन

56. जे सी 77924 एन " कवर लाल

57. जे सी 40300 के " करम सिंह

58.	जे सी 34029 पी	सुबेदार मेजर	लोकेश्वर सिंह
59.	जे सी 40302 पी	"	एम सुकुमारन
60.	जे सी 9655 एन	सुबेदार मेजर (आर टी)	मिलिबी राम शर्मा
61.	जे सी 34652 एल	सुबेदार मेजर	मोहन सिंह
62.	जे सी 33275 एन	"	निधान सिंह
63.	जे सी 41035 एल	"	श्रीकांत चन्द
64.	जे सी 33397 एक्स	"	पी एम गोपीनाथन
65.	जे सी 40183 के	"	राय सिंह
66.	जे सी 45473 एल	"	रोहितास सिंह
67.	जे सी 47946 एक्स	"	रूप सिंह
68.	जे सी 47156 एच	"	शान्ता राम बाने
69.	जे सी 33416 एक्स	"	सूर्य नाथ मिश्रा
70.	जे सी 40243 एन	"	टी नागवणा सामी
71.	जे सी 74364 एफ	"	अमर सिंह
72.	जे सी 77893 बाई	"	बाबा सिंह
73.	जे सी 58512 एक्स	"	भगत राम पाठक
74.	जे सी 77913 एफ	"	गुरनाम सिंह
75.	जे सी 74350 एफ	"	हरबन्स सिंह
76.	जे सी 75106 एन	"	हरि चन्द यादव
77.	जे सी 68629 के	"	जयवंत बलवंत भावत
78.	जे सी 76844 के	"	जोगिन्दर लाल
79.	जे सी 45581 पी	"	जोगिन्दर लाल
80.	जे सी 73571 एफ	"	करप्पन
81.	जे सी 49518 एक्स	"	मंगल सिंह
82.	जे सी 62885 एच	"	पी नारायणन
83.	जे सी 70076 एक्स	"	पी वेंकटा राव
84.	जे सी 45499 ए	"	पर्वत कपाडिनिभ
85.	जे सी 70815 बाई	"	आर कृष्णा स्वामी
86.	जे सी 77919 एच	"	रतन सिंह
87.	जे सी 70826 एल	"	रतन सिंह
88.	जे सी 74310 ए	"	शिव पूजन राम
89.	जे सी 66426 एफ	"	श्री कृष्ण निधारी
90.	जे सी 59786 पी	"	मुल्तान सिंह
91.	जे सी 74358 एन	"	मुल्तान सिंह यादव
92.	जे सी 74295 डबल्यू	"	उमा शंकर
93.	जे सी 47219 ए	"	वी पी करप्पन

सब्रस इन्जीनियर्स पुप

94.	जे सी 34352 के	सुबेदार मेजर	के टी धरगिस
95.	जे सी 34079 ए	"	एम एस बेलमुगन वेंकटेशन
96.	जे सी 34353 एन	"	मनोहरन पिल्ले
97.	जे सी 36829 एम	"	नरसिम्हन
98.	जे सी 34362 एन	"	पी क्रिश्चियन
99.	जे सी 50990 एम	सुबेदार	सी थंगावेलू
100.	जे सी 52036 एन	"	के एम बासुदेवन
101.	जे सी 57371 एफ	"	कृष्णन
102.	जे सी 51978 एक्स	"	एम पी कुटप्पन नायर
103.	जे सी 62735 एम	"	पी गोपालन नायर
104.	जे सी 57351 एन	"	पी मारकंडेय रेड्डी

105	जे सी 63938 एन	सूबेदार	पी सम्पगी
106	जे सी 66149 एफ		सुश्रामना
107	जे सी 50589 एम		यू ए रोपाल

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

108	जे सी 43732 के	सूबेदार मेजर	दरबान सिंह
109	जे सी 33356 पी	"	गबर सिंह
110	जे सी 42150 एक्स	"	हरबन्स सिंह
111	जे सी 42144 के	"	हरबन्स सिंह
112	जे सी 43731 पी	"	जगदीश्वर सिंह
113	जे सी 40154 पी	"	लाल सिंह
114	जे सी 42164 एक्स	"	प्रकाश सिंह
115	जे सी 69968 डबल्यू	सूबेदार	बलबीर सिंह
116	जे सी 62135 के	"	गाविन्दर सिंह
117	जे सी 75361 ए	"	दरदगाल सिंह
118	जे सी 74008 एफ	"	जमन सिंह
119	जे सी 61684 एक्स	"	केदार दत्त
120	जे सी 71540 एच	"	मिलखा सिंह
121	जे सी 75375 ए	"	नफी सिंह
122	जे सी 74440 एन	"	ताहर सिंह
123	जे सी 71621 एन	"	नारायण सिंह
124	जे सी 69970 एन	"	सरबत सिंह

बाम्बे इंजीनियर्स ग्रुप

125	जे सी 34456 एल	सूबेदार मेजर	केहर सिंह
126	जे सी 31330 पी	"	पी के भास्करन
127	जे सी 31838 के	"	पादुरंग मार
128	जे सी 36240 एच	"	प्यारा सिंह
129	जे सी 33664 एन	"	सुर्वे महादेव वाजीराव
130	जे सी 33704 के	"	तरजीत सिंह
131	जे सी 34478 के	"	वीर सिंह
132	जे सी 67555 एन	सूबेदार	हनुमन्त मोरे
133	जे सी 76140 एफ	"	काशीनाथ सावन
134	जे सी 47679 एफ	"	पलानी नाथन
135	जे सी 72864 ए	"	रघवीर सिंह
136	जे सी 72634 एम	"	रगानाथन
137	जे सी 44649 वाई	"	तिलकगज

कोर ग्रफ सिगनलस

138	जे सी 32122 एक्स	सूबेदार मेजर	ए ग्रार बालाकृष्णन
139	जे सी 55164 डबल्यू	"	चनन सिंह परमार
140	जे सी 60608 वाई	"	देवी सिंह
141	जे सी 55163 एन	"	धरम सिंह
142	जे सी 67655 वाई	"	फकीर चन्द कटोच, एम एम
143	जे सी 55104 एफ	"	गुरचरन सिंह
144	जे सी 66115 एन	"	गुरदयाल सिंह
145	जे सी 60672 डबल्यू	"	गुरमेल सिंह
146	जे सी 60669 डबल्यू	"	झडा सिंह
147	जे सी 59854 एक्स	"	करम सिंह
148	जे सी 56179 एल	"	मगल सिंह

149. जे सी 56177 ए	सूबेदार मेजर	मोती राम
150. जे सी 52804 के	"	प्रेम प्रकाश
151. जे सी 67661 एम	"	रण सिंह
152. जे सी 31792 एम	"	शामराव बापू निकम
153. जे सी 60666 एच	"	मूरत सिंह
154. जे सी 52146 एच	सूबेदार	ए. गोपाल कृष्ण पिल्ले
155. जे सी 60238 के	"	अमरीक सिंह
156. जे सी 60710 एफ	"	धमेन्द्र सिंह रावत
157. जे सी 75958 एच	"	ढारका नाथ
158. जे सी 82661 के	"	गुरभीन सिंह
159. जे सी 71770 डबल्यू	"	जलालउद्दीन खान
160. जे सी 75961 एच	"	कृष्ण लाल शर्मा
161. जे सी 82719 डबल्यू	"	कृष्ण बहादुर सिंह
162. जे सी 60239 एम	"	नन्द लाल यादव
163. जे सी 74109 पी	"	पी मोमनाथन
164. जे सी 71204 डबल्यू	"	परमा नन्द वर्मा
165. जे सी 82720 एल	"	शिव राम निषारी

वी ब्रिगेड ग्राफ दि गार्ड्स

166. जे सी 48933 एम	सूबेदार मेजर	हबा सिंह
167. जे सी 44198 के	"	जरनैल सिंह
168. जे सी 36010 पी	"	बसंत माटे
169. जे सी 59349 पी	सूबेदार	गापाल सिंह
170. जे सी 70892 एन	"	जी मारिया सोमार्छ
171. जे सी 62772 ए	"	इन्दर सिंह

दि पैराक्वट रेजिमेंट

172. जे सी 50135 एक्स	सूबेदार मेजर	जान चन्द
173. जे सी 37558 एम	"	हरबस लाल
174. जे सी 45038 डबल्यू	"	रामफल सिंह
175. जे सी 51077 एक्स	"	श्री धर
176. जे सी 59759 एल	सूबेदार	बालू देशमुख
177. जे सी 68497 एफ	"	भगवान सिंह नेगी
178. जे सी 43897 एच	"	गजवीर सिंह
179. जे सी 71067 एच	"	किशन चन्द
180. जे सी 44908 डबल्यू	"	मेहर चन्द
181. जे सी 58991 के	"	मिरी नारायण विश्वकरम

दि मेकनाइज्ड इन्फैंट्री रेजीमेंट

182. जे सी 38346 एन	सूबेदार मेजर	खतरा राम
183. जे सी 35322 वाई	"	कर्स सिंह
184. जे सी 18424 वाई	"	पिरभू सिंह
185. जे सी 78278 एन	सूबेदार	बलबीर सिंह कठैत
186. जे सी 88091 ए	"	चन्दन सिंह
187. जे सी 59308 एल	"	चुनी लाल
188. जे सी 62043 एक्स	"	दान बहादुर बुझाथोफी
189. जे सी 79994 एल	"	इरी प्रसाद गुरंग
190. जे सी 75419 एम	"	हमास सिंह करके
191. जे सी 50256 ए	"	रतन सिंह
192. जे सी 48547 ए	"	यशपाल

वि पंजाब रेजिमेंट

193. जे सी 32618 एम	सूबेदार मेजर	भूप सिंह
194. जे सी 37737 एम	"	दुली राम
195. जे सी 42298 डबल्यू	"	जागा सिंह
196. जे सी 43689 एन	"	मोहन सिंह
197. जे सी 65808 बार्ड	"	प्रोनम सिंह
198. जे सी 34406 ए	"	सुख राम
199. जे सी 66038 के	सूबेदार	हरकिशन सिंह
200. जे सी 56327 एल	"	जगन नाथ
201. जे सी 68994 एल	"	नथर सिंह
202. जे सी 599223 पी	"	महान सिंह
203. जे सी 74857 एच	"	परस राम
204. जे सी 59474 बार्ड	"	रमंग सिंह

वि मद्रास रेजीमेंट

205. जे सी 44948 एक्स	सूबेदार मेजर	ई गोपालकृष्णन नायर
206. जे सी 40331 के	"	के भीधरन
207. जे सी 44693 एच	"	आरु दामोदरन
208. जे सी 51087 पी	"	पी मुरगेशन
209. जे सी 38590 एन	"	बी कनाय्यन
210. जे सी 37307 एच	"	बी विश्वनाथन पिल्ले
211. जे सी 45655 बार्ड	"	जे जगपालन
212. जे सी 58530 ए	सूबेदार	बगादेवन
213. जे सी 44867 एक्स	"	पू पदमानाभन
214. जे सी 46302 एल	"	परमेश्वरन
215. जे सी 58392 के	"	मुन्दर रामाय्या अययाला सोमयाजुला
216. जे सी 59113 ए	"	यू पी प्रभाकरन नायर

वि प्रिन्सिपल्स

217. जे सी 13159 के	सूबेदार मेजर (आर टी)	भगवान दास
218. जे सी 30357 एल	सूबेदार मेजर	जेवराज सिंह
219. जे सी 66665 डबल्यू	"	किशन लाल
220. जे सी 48615 एच	"	नियाज मोहम्मद खान
221. जे सी 16111 एफ	"	प्रताप सिंह
222. जे सी 35360 पी	"	रण सिंह
223. जे सी 16113 एम	"	रिसाल सिंह
224. जे सी 13790 बार्ड	"	मुजान सिंह
225. जे सी 45985 एक्स	सूबेदार	बच्चित्त सिंह
226. जे सी 41922 एक्स	"	जय नारायन शर्मा
227. जे सी 76772 एल	"	रोशन लाल
228. जे सी 42417 एफ	"	सूरज सिंह

वि मराठा लाईट इन्फेन्ट्री

229. जे सी 47429 ए	सूबेदार मेजर	गोपाल गायकवाड
230. जे सी 33972 एन	"	केशव मोरे
231. जे सी 34221 बार्ड	"	मनोहर साबन
232. जे सी 36464 एच	"	विष्णु जाधव एस एम

233. જે સી 61589 એલ	સૂબેદાર	હરી પિસાલ
234. જે સી 47409 એમ	"	દિનજીત જાધવ
235. જે સી 46178 પી	"	પ્રભાકર મોરે
236. જે સી 62055 એમ	"	શિવાજી ગિન્દે
237. જે સી 63583 એચ	"	વામન મોરે
238. જે સી 67520 એક્સ	"	યેદુ કામ્બલે

દિ રાજપુતાના રાઈફલ્સ

239. જે સી 37666 ડબલ્યૂ	સૂબેદાર મેજર	ગનપત સિંહ, ડી એમ એમ
240. જે સી 43072 એક્સ	"	હેમન સિંહ
241. જે સી 47091 એ	"	લોક રામ
242. જે સી 36750 કે	"	મિર્જા નસીર ગ્રહમદ બેગ
243. જે સી 42600 કે	"	પેપ સિંહ
244. જે સી 46656 એન	"	રામ સહાય સિંહ
245. જે સી 63024 વાઈ	સૂબેદાર	ભાગીરથ રામ
246. જે સી 78186 એફ	"	હરલાલ સિંહ રામ
247. જે સી 62731 ડબલ્યૂ	"	મોહર સિંહ
248. જે સી 76506 એમ	"	તપે સિંહ
249. જે સી 65338 વાઈ	"	ઓમ પ્રકાશ
250. જે સી 59059 કે	"	ફૂલ સિંહ
251. જે સી 62970 એલ	સૂબેદાર	રામેશ્વર રામ
252. જે સી 70010 એમ	"	રેબરત સિંહ
253. જે સી 61920 એન	"	સૂરજ ભાન મિન્ધુ

દિ રાજપુત રજીમેન્ટ

254. જે સી 57513 એન	સૂબેદાર મેજર	અચ્યુતાનન્દ શ્રીવાસ્તવ
255. જે સી 39544 એલ	"	આદર્શ પામ સિંહ
256. જે સી 38235 ડબલ્યૂ	"	દલજીત સિંહ
257. જે સી 48472 એન	"	દિગપાલ સિંહ
258. જે સી 37677 એચ	"	જય સિંહ
259. જે સી 34527 એફ	"	રામ સિંહ
260. જે સી 63682 એલ	"	શિવ ધાંકર સિંહ
261. જે સી 47576 એચ	સૂબેદાર	ચન્દન સિંહ
262. જે સી 50537 ડબલ્યૂ	"	ધર્મ સિંહ
263. જે સી 42344 એ	"	ઇન્દ્ર ચન્દ ઠાકુર
264. જે સી 49649 એચ	"	રાજા રામ
265. જે સી 44957 વાઈ	"	રમેશ ચન્દ્ર સિંહ
266. જે સી 46360	"	ઉમરાવ સિંહ
267. જે સી 54058 એલ	"	વિશ્વ નાથ સિંહ

દિ આર રજીમેન્ટ

268. જે સી 43906 વાઈ	સૂબેદાર મેજર	બીરબલ સિંહ
269. જે સી 38175 એમ	"	ચન્દર સિંહ
270. જે સી 35232 એક્સ	"	માયા ચન્દ
271. જે સી 32913 પી	"	નિહાલ સિંહ વર્મા
272. જે સી 41959 વાઈ	"	રાજેન્દ્ર પાલ સિંહ
273. જે સી 45091 એફ	"	રામ સુખ

274. जे सी 72513 एल	सूबेदार	अतराज सिंह
275. जे सी 65437 एफ	"	अतर सिंह
276. जे सी 67666 एल	"	बलवान सिंह
277. जे सी 80876 के	"	चन्दर सिंह
278. जे सी 76896 ए	"	गनेश राम
279. जे सी 42407 एक्स	"	कला राम
280. जे सी 35204 एल	"	कवल सिंह
281. जे सी 48988 डब्ल्यू	"	कहर सिंह
282. जे सी 65438 के	"	निरजन सिंह
283. जे सी 59309 एन	"	राज सिंह
284. जे सी 79799 एन	"	सरजीत सिंह

बी सिख रेजिमेंट

285. जे सी 44357 पी	सूबेदार मेजर	अमरिग सिंह
286. जे सी 33958 पी	"	दर्शन सिंह
287. जे सी 51232 एफ	"	जोगिन्दर सिंह
288. जे सी 34279 डब्ल्यू	"	मन्नाख सिंह
289. जे सी 33473 वाई	"	मेवा सिंह
290. जे सी 77037 एफ	सूबेदार	बख्शीश सिंह
291. जे सी 77983 ए	"	बलवन्त सिंह
292. जे सी 75061 वाई	"	चतन सिंह
293. जे सी 57937 के	"	गुराह सिंह
294. जे सी 78187 के	"	गुरबचन सिंह
295. जे सी 75062 एफ	"	गुरमेल सिंह
296. जे सी 79029 एफ	"	हरी सिंह
297. जे सी 48605 वाई	"	मोहम्मद सिंह
298. जे सी 76481 एल	"	सरवन सिंह

बी सिख लाइट इन्फैंट्री

299. जे सी 45640 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर	अकबाल सिंह
300. जे सी 39296 ए	"	बख्शीश सिंह
301. जे सी 35488 ए	"	भाग सिंह
302. जे सी 43521 एफ	"	मेहर सिंह
303. जे सी 60309 ए	सूबेदार	अमर सिंह
304. जे सी 55552 एन	"	गुलचरन सिंह
305. जे सी 50136 ए	"	गुरदेव सिंह
306. जे सी 56115 ए	"	गुरमुख सिंह
307. जे सी 66693 एच	"	लखबीर सिंह
308. जे सी 49859 एच	"	मलकियत सिंह
309. जे सी 45098 एल	"	प्यारा सिंह

बी डोगरा रेजिमेंट

310. जे सी 44360 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर	अमी चन्द
311. जे सी 80790 एल	सूबेदार	भीमसिंह
312. जे सी 82583 एक्स	"	देश राज शर्मा
313. जे सी 73330 एफ	"	दीनानाथ
314. जे सी 77679 पी	"	हरी सिंह
315. जे सी 78570 एच	"	किशन चन्द शर्मा, एस एम
316. जे सी 79434 वाई	"	जाल सिंह
317. जे सी 76739 एन	"	नन्द लाल
318. जे सी 78201 एल	"	शिव राम
319. जे सी 77462 एम	"	तिलक राज

बी गढ़वाल राइफलस

320. जे सी 37756 एक्स	सूबेदार मेजर	विलोक सिंह रावत
321. जे सी 32174 डब्ल्यू	सूबेदार	अनन्द सिंह रावत
322. जे सी 67722 वाई	"	विजय सिंह गुमाई
323. जे सी 79441 पी	"	केसर सिंह
324. जे सी 79435 एफ	"	कुला नन्द डबरियाल
325. जे सी 73720 के	"	मोहनउलाल जदली
326. जे सी 63927 डब्ल्यू	"	मुखदेव सिंह खत्री

बी कुमाऊं रेजिमेंट

327. जे सी 41585 ए	सूबेदार मेजर	बीरभान चन्द
328. जे सी 49301 एन	"	दानी चन्द
329. जे सी 36756 एल	"	धाम सिंह
330. जे सी 36147 एफ	"	महेन्दर सिंह, एम एम
331. जे सी 42761 एम	"	नारायण सिंह
332. जे सी 49069 एन	"	प्रेम सिंह
333. जे सी 55999 एल	"	मुन्दर सिंह
334. जे सी 51217 एम	"	उर्बा दत्त
335. जे सी 63684 पी	सूबेदार	भगोत सिंह
336. जे सी 66581 एच	"	भज राम जोशी
337. जे सी 53315 एल	"	चन्दर भान यादव
338. जे सी 76104 पी	"	चन्दगी राम
339. जे सी 56519 एच	"	नारायण सिंह
340. जे सी 68262 पी	"	पान सिंह
341. जे सी 77633 एन	"	प्रभुनाथ यादव
342. जे सी 76103 एम	"	रतन सिंह बिष्ट
343. जे सी 73293 वाई	"	शादी राम

बि आसाम रेजिमेंट

344. जे सी 30503 ए	सूबेदार मेजर	फुकन चन्द्र देवरी
345. जे सी 67340 पी	सूबेदार	किरण चन्द्र दास
346. जे सी 57233 ए	"	बेनियनछूगा

बि बिहार रेजिमेंट

347. जे सी 34213 ए	सूबेदार मेजर	अब्राहम तिकी
348. जे सी 29011 पी	"	राम आशीष पांडे
349. जे सी 39502 वाई	"	शिव कुमार तिवारी
350. जे सी 55418 एच	सूबेदार	मार्शल गुरिया

बि महार रेजिमेंट

351. जे सी 53981 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर	अमर सिंह
352. जे सी 35643 डब्ल्यू	"	मल्लपा कोटालकर
353. जे सी 62975 के	सूबेदार	दाम् जाधव
354. जे सी 62728 डब्ल्यू	"	कर्ण सिंह थापा
355. जे सी 58122 एच	"	प्रेम बहादुर राय

दि जम्मू एण्ड कश्मीर राईफल

356 जे सी 34253 एफ	सूबेदार मेजर	दुर्गा प्रसाद
357 जे सी 59926 डब्ल्यू	"	गणेश दास
358 जे सी 46262 पी	"	घनशाम सिंह
359 जे सी 36209 डब्ल्यू	"	गुलजीत सिंह जामवाल
360 जे सी 43035 के	"	कश्मीर सिंह
361 जे सी 33955 एन	"	रतन चन्द
362 जे सी 33173 एक्स	"	मागर सिंह

दि नागा रेजीमेन्ट

363. जे सी 49304 एफ	सूबेदार मेजर	भवान सिंह
---------------------	--------------	-----------

दि जम्मू एण्ड कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री

364 जे सी 69 के	सूबेदार मेजर	जगजीत सिंह
365 जे सी 289 एन	सूबेदार	मोहम्मद इस्माइल रोथर

1 गोरखा राईफल

366 जे सी 37799 एम	सूबेदार मेजर	दान बहादुर क्षत्री
367 जे सी 58022 के	सूबेदार	भीम बहादुर थापा
368 जे सी 60589 बार्ड	"	विश्वनाथ बहादुर गुरग
369 जे सी 40957 एफ	"	गम बहादुर थापा
370 जे सी 60582 पी	"	जोग बहादुर गुरग
371 जे सी 64589 डब्ल्यू	"	मान सिंह पुन
372. जे सी 60591 डब्ल्यू	"	नागयण सिंह थापा
373 जे सी 77999 एल	"	मान्ना बहादुर गुरग

3 गोरखा राईफल

374 जे सी 47838 एन	सूबेदार मेजर	बुद्धि बहादुर गुरग
375. जे सी 50017 के	"	हरका बहादुर गुरग
376 जे सी 51258 डब्ल्यू	"	मदन मोहन गैरोला
377 जे सी 47361 के	"	पद्म बहादुर थापा
378 जे सी 48678 एल	"	राम सिंह खरका
379 जे सी 61895 ए	सूबेदार	अमर बहादुर साही
380 जे सी 76490 एम	"	भगवान सिंह थापा
381 जे सी 80142 पी	"	केशर बहादुर साही
382 जे सी 70423 एल	"	एम टी जोन
383. जे सी 71897 बार्ड	"	तेक बहादुर गुरग

4 गोरखा राईफल

384. जे सी 66337 एच	सूबेदार	भगत राम थापा
385 जे सी 54377 एक्स	"	भूपेन्द्र सिंह गुरग
386 जे सी 56269 एम	सूबेदार	मंगल बहादुर थापा
387 जे सी 66226 एल	"	गोर जग थापा
388. जे सी 64811 एम	"	युद्ध वीर खर

5 गोरखा राईफल

389 जे सी 44361 बाई	सूबेदार मेजर	अर्जुन सिंग श्यामि
390 जे सी 46600 एफ	"	मान बहादुर कुमल
391 जे सी 43303 एच	"	नर बहादुर पु।
392 जे सी 67026 एफ	सूबेदार	उमर बहादुर गुरग
393 जे सी 67024 डब्ल्यू	"	मेम बहादुर गुरग
394 जे सी 69519 बाई	"	भीम बहादुर पुन
395 जे सी 75410 एक्स	"	मोती कुमार गुरग
396 जे सी 70956 एन	"	राम बहादुर राना
397 जे सी 72392 पी	"	रघुनंद सिंग बुडाठोकी

8 गोरखा राईफल

398 जे सी 72420 डब्ल्यू	सूबेदार	चम्पा सिंह थापा
399 जे सी 67019 एन	"	जुधवीर गुरग
400 जे सी 61760 बाई	"	पिन्धी बहादुर पुन

9 गोरखा राईफल

401 जे सी 43901 ए	सूबेदार मेजर	भक्त बहादुर मल्ल
402 जे सी 62482 एच	"	भीम बहादुर मल्ल
403 जे सी 44076 ए	"	धन बहादुर खत्री
404 जे सी 30677 ए	"	नरसिंह बहादुर मल्ल
405 जे सी 41672 के	"	रमेश मल्ल
406 जे सी 76538 पी	सूबेदार	श्रीम बहादुर मल्ल

11 गोरखा राईफल

407 जे सी 46342 एम	सूबेदार मेजर	अर्जुन राई
408 जे सी 46643 डब्ल्यू	"	किशन सिंग राई
409 जे सी 42382 डब्ल्यू	"	नरसिंह कुमार प्रधान

आर्मी सर्जिस कोर (सप्लाय)

410 जे सी 32373 बाई	सूबेदार मेजर	ए इंड्रविन
411 जे सी 52563 पी	"	गणेश राय
412 जे सी 29755 बाई	"	गोविन्दन कुट्टी के
413 जे सी 29724 एच	"	होशियार सिंह राना
414 जे सी 55248 के	"	जगन नाथ प्रसाद
415 जे सी 52273 एक्स	"	माने रान
416 जे सी 29716 एफ	"	मोहन खाल
417 जे सी 29754 एक्स	"	एम कृष्णन थम्पी
418 जे सी 53518 पी	"	पी थंगाबैलू
419 जे सी 59692 एक्स	सूबेदार	ए अरुणामासा
420 जे सी 69823 एन	"	अमरजीत सिंह
421 जे सी 69803 बाई	"	आनन्द बल्लभ कपिल
422 जे सी 69828 के	"	अर्जुन सिंह पादथ
423 जे सी 69806 एन	"	बालाकृष्ण पिल्ले के
424 जे सी 59689 एक्स	"	विक्रम सिंह डिम्प्लो
425 जे सी 69819 एच	"	सी के सेमुथल
426 जे सी 60073 डब्ल्यू	"	देव दत्त
427 जे सी 70168 के	"	देव शरण सिंह
428 जे सी 69817 एक्स	"	वीन दयाल प्रसाद

429. जे सी 58054 एम	सूबेदार	इ बालाकृष्णन नायर
430. जे सी 69808 डब्ल्यू	"	गुरनाम सिंह
431. जे सी 60067 एच	"	ईश्वर सिंह
432. जे सी 59688 पी	"	जागीर सिंह
433. जे सी 69824 एन	"	जोगिन्दर सिंह डुग
434. जे सी 59691 पी	"	के रामाचन्द्रन पिल्ले
435. जे सी 59690 एम	"	के जे नारायणन पिल्ले
436. जे सी 59694 एच	"	के आर गोपालाकृष्णन नायर
437. जे सी 61295 एक्स	"	केवल किशन
438. जे सी 69826 वाई	"	एम मुकन्दन मेनन
439. जे सी 58053 के	सूबेदार	एम के बालागोपालन नायर
440. जे सी 69829 ए	"	एम आर सत्यसर्षा कुरूप
441. जे सी 59703 वाई	"	मनोहर लाल
442. जे सी 69821 ए	"	मरू राम
443. जे सी 59697 डब्ल्यू	"	मरूपुडी राधाकृष्णा
444. जे सी 61352 एन	"	ओम प्रकाश
445. जे सी 59695 एल	"	पी पदमानभा कुरूप
446. जे सी 70169 एम	"	प्यारे लाल कौर
447. जे सी 59700 एल	"	प्रभाकर हिरफोडे
448. जे सी 60065 एन	"	प्रकाश चन्द्र मिश्रा
449. जे सी 70170 एफ	"	पृष्टि बलनभ जोशी
450. जे सी 69831 के	"	राधवन एम आर
451. जे सी 59449 ए	"	राम किशन यादव
452. जे सी 59687 एम	"	राम मरूप यादव
453. जे सी 58050 डब्ल्यू	"	रामा कृष्णन के
454. जे सी 59698 वाई	"	राम चन्द्र मनेरिकर
455. जे सी 69810 एन	"	रमेश दास
456. जे सी 59699 एफ	"	रोशन लाल
457. जे सी 69813 एफ	"	शरम पाल
458. जे सी 73301 एम	"	शरवन कुमार पांडे
459. जे सी 59644 एक्स	"	सूर्यकान्त पुरकायस्था
460. जे सी 59682 एन	"	टी राधाकृष्णन
461. जे सी 58052 एफ	"	टी पी दामोदरन
462. जे सी 69816 पी	"	त्रिलोचन सिंह
463. जे सी 63423 एच	"	वासुदेवन पिल्ले
464. जे सी 61309 एम	"	विश्वामित्र सिंह

आर्मी सर्विस कोर (एनीमल ट्रांसपोर्ट)

465. जे सी 35752 एच	गिम्सलदार मेजर	हंशियार सिंह
466. जे सी 34928 डब्ल्यू	"	इरुम्बन आयपे पाल
467. जे सी 35745 एम	"	नर बहादुर चन्द

आर्मी सर्विस कोर (मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट)

468. जे सी 44048 एन	सूबेदार मेजर	अमीर चन्द राम
469. जे सी 11299 एक्स	सूबेदार मेजर (आर.टी)	काली दाम
470. जे सी 43463 एम	सूबेदार मेजर	सेवा सिंह
471. जे सी 43465 ए	"	शिव राज सिंह

472. जे सी 78767 वार्ड	सूबेदार	बहादुर सिंह
473. जे सी 78597 ए	"	हरचन्द सिंह
474. जे सी 79728 डब्ल्यू	"	कृन्तुपारमविल बेल् गंगाधरन
475. जे सी 78596 एक्स	"	राम सिंह

ग्रामी मेडिकल कोर

476. जे सी 9236 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर (आर टी)	द्वारिका नाथ शर्मा
477. जे सी 55594 एक्स	सूबेदार मेजर	माखन सिंह बल, बी एम एम
478. जे सी 70520 एच	"	पीताम्बर भट्ट
479. जे सी 65931 एक्स	"	राम अधर निवारी
480. जे सी 54949 एन	"	सरवन सिंह
481. जे सी 57303 एम	"	सावरी मुथू
482. जे सी 42842 एम	"	सून्वा सिंह
483. जे सी 32875 के	"	टी अण्णाजी
484. जे सी 68743 एफ	"	तरसेम सिंह
485. जे सी 79381 एल	सूबेदार	अब्दुल हमीद
486. जे सी 76973 के	"	अनिरुद्ध पन्ड

ग्रामी आर्डिनेन्स कोर

487. जे सी 61641 एच	सूबेदार मेजर	सी गोपाला कृष्ण नायर
488. जे सी 49336 के	"	जसविन्दर सिंह रन्धावा
489. जे सी 62646 एन	"	करनार सिंह
490. जे सी 61631 वार्ड	"	स्वर्ण सिंह
491. जे सी 60833 एन	"	टी डेविड
492. जे सी 70578 ए	सूबेदार	अब्राहम ओ
493. जे सी 68368 एफ	"	ब्रजनन्दन सिंह
494. जे सी 77303 पी	"	के टी फिलीपोज
495. जे सी 68364 एल	"	करनार सिंह
496. जे सी 80729 एफ	"	कृष्ण लाल
497. जे सी 68365 एल	"	लटूर सिंह
498. जे सी 80658 एल	"	मोहर सिंह
499. जे सी 69241 एल	"	राज नारायण सिंह
500. जे सी 68366 डब्ल्यू	"	शंकर नाथ मुखर्जी
501. जे सी 66842 एल	"	टी कृष्ण कुट्टी मेनन
502. जे सी 78259 एच	"	तेक राम
503. जे सी 78249 वार्ड	"	तुलसी दास चौहान
504. जे सी 71712 एम	"	विनायक राव भानिक राव परकाले

कोर आफ इलेक्ट्रिकल एन्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स

505. जे सी 38691 पी	सूबेदार मेजर	विष्णु देव शा
506. जे सी 36448 एन	"	चत्तर सिंह गिडे
507. जे सी 38686 डब्ल्यू	"	मदन लाम
508. जे सी 37117 डब्ल्यू	"	मदन मोहन सिंह
509. जे सी 38726 एम	"	माधव डाक्रे
510. जे सी 10508 एक्स	सूबेदार मेजर (आर टी)	महानन्द पोखरियाल
511. जे सी 39638 वार्ड	सूबेदार मेजर	महीपत पवार
512. जे सी 57867 डब्ल्यू	"	माला सिंह
513. जे सी 39609 एन	"	मोहिन्दर सिंह

514. जे सी 34444 डबल्यू	सूबेदार	पी के भास्करन
515. जे सी 38685 एन	"	पूरन सिंह
516. जे सी 67130 पी	"	सरदार सिंह
517. जे सी 67120 एन	"	सरदुल सिंह
518. जे सी 36314 एम	"	मुचा सिंह
519. जे सी 38723 बाई	"	मुचा सिंह
520. जे सी 32645 एन	"	मुखदेव सिंह पटयाल
521. जे सी 56387 ए	"	अदिवेप्पा गिरि तम्मन्नावर
522. जे सी 76652 एम	"	अरून कुमार चटर्जी
523. जे सी 80481 एच	"	बचन सिंह रावत
524. जे सी 80323 के	"	बकशी सिंह
525. जे सी 58819 एच	"	बलवन्त सिंह
526. जे सी 80346 पी	"	बाके लाल शर्मा
527. जे सी 77248 के	"	बीरेन्द्र सिंह
528. जे सी 57249 एफ	"	बीरेन्द्र कुमार
529. जे सी 56389 एन	"	दरबारा सिंह
530. जे सी 56545 के	"	धर्म सिंह
531. जे सी 65878 एक्स	"	गोविन्दा मेनन एम
532. जे सी 59262 एन	"	गुर चरन सिंह
533. जे सी 61180 के	"	गुरदास राम
534. जे सी 68433 डबल्यू	"	हेम लाल
535. जे सी 56355 एक्स	"	ईश्वर दास
536. जे सी 56559 के	"	जोगिन्दर सिंह
537. जे सी 71317 बाई	"	काशी प्रशाद ओझा
538. जे सी 57190 एच	"	कुलवन्त सिंह
539. जे सी 69850 पी	"	ललित मोहन पाल
540. जे सी 56745 ए	"	मधुकर दोमकुलवर
541. जे सी 70720 बाई	"	मनहर सिंह
542. जे सी 63114 ए	"	मोहम्मद सुल्तान
543. जे सी 63125 एम	"	एम कुन्ज कुट्टा मेनन
544. जे सी 85014 पी	"	पी मरियप्पन
545. जे सी 67847 डबल्यू	"	पी श्रीधरन मेनन
546. जे सी 76650 एफ	"	पी वी ए नैम्बियर
547. जे सी 55780 डबल्यू	"	प्रताप चन्द
548. जे सी 73160 एच	"	आर के कृष्णन नायर
549. जे सी 69360 एफ	"	रनजीत सिंह रावत
550. जे सी 71376 एन	"	रविन्द्रा नाथ बोग
551. जे सी 63127 एक्स	"	मदा मिशन नायर पी आर
552. जे सी 56388 एच	"	सेवा सिंह
553. जे सी 56730 एक्स	"	शिव शंकरन नायर
554. जे सी 65136 एक्स	"	सोबान सिंह
555. जे सी 58784 एक्स	"	सुखबीर सिंह सुलंखी
556. जे सी 59565 एच	"	विजयन पिल्ले जी
557. जे सी 60727 पी	"	बाई रामन कुट्टी मेनन

ग्रामों एंजुकेशन कोर

558. जे सी 46500 डबल्यू	सूबेदार मेजर
559. जे सी 30631 एक्स	"
560. जे सी 31181 एक्स	"

चुनी लाल टीकू
गुरदेव सिंह सन्धू
कल्याण सिंह

561. जे सी 30645 एक्स	सूबेदार	कनहर मुखदेब सिंह
562. जे सी 46512 एल	"	एम सेखरा वैरियर
563. जे सी 34254 वाई	"	सतीश कुमार
564. जे सी 31188 एफ	"	शिव नारायण गौर
565. जे सी 46518 एम	"	मूरज मल चिकारा
566. जे सी 66594 ए	"	बदन सिंह राठी
567. जे सी 78122 डबल्यू	"	दुध नाथ सिंह
568. जे सी 77529 ए	"	गोविन्द अस्वाल
569. जे सी 66525 के	"	हरबन्स सिंह ठाकुर
570. जे सी 76062 एन	"	मिर्जा अली औलिया पेग
571. जे सी 66590 के	"	नेम पाल सिंह
572. जे सी 66613 ए	"	सुरेश चन्द्र खत्री

रिमास्ट वेटरिनरी कोर

573. आर बी 7174 एच	रिसालदार	जिलेन्द्र नाथ दास
574. आर बी 7281 के	"	राजवीर सिंह

बि इन्टेलीजेंस कोर

575. जे सी 35251 एच	सूबेदार मेजर	भगवान सिंह
576. जे सी 77537 वाई	सूबेदार	सी रामर
577. जे सी 46114 के	"	गनपत सिंह यादव
578. जे सी 46112 वाई	"	गिरीश चन्द्र जोशी
579. जे सी 45896 वाई	सूबेदार	हरी सिंह
580. जे सी 67953 पी	"	जोगिन्दर सिंह
581. जे सी 68759 एम	"	मन्खन सिंह
582. जे सी 46116 पी	"	पत राम
583. जे सी 68771 एन	"	सन्त लाल
584. जे सी 45892 एच	"	श्याम सुन्दर

कोर ऑफ मिलिटरी पुलिस

585. जे सी 52228 एल	सूबेदार मेजर	प्रेम सिंह
586. जे सी 65162 वाई	"	रघुवीर सिंह
587. जे सी 81627 एक्स	सूबेदार	दयानन्द बढोनी
588. जे सी 60536 ए	"	दीनानाथ गुराव
589. जे सी 74743 एक्स	"	मदन सिंह
590. जे सी 78118 एन	"	प्रभू दयाल
591. जे सी 62965 ए	"	आर मासिलामनी
592. जे सी 58831 के	"	राम शन्व

बि पायनियर कोर

593. जे सी 52639 के	सूबेदार मेजर	गुलजारी लाल बोयल
594. जे सी 32547 डबल्यू	"	मुख्तार सिंह

डिफेंस सिविलियरी कोर

595. जे सी 75244	सूबेदार मेजर	जीत सिंह
596. जे सी 47645	"	मदन लाल
597. जे सी 62316	"	राम प्रबोश सिंह
598. जे सी 62254	"	रामेश्वर
599. जे सी 64855	सूबेदार मेजर	शिओ प्रसाद यादव
600. जे सी 73076	सूबेदार मेजर	सोहन सिंह

New Delhi, The 15th August, 1982

No. 8—E dated 11th August, 1982. The president is pleased to grant honorary commissions to the undermentioned JCOs on active list under Para 178 of Regulations for the Army, 1962, with effect from 15th August, 1982:—

TO BE HONORARY CAPTAINS**14 HORSE**

1. JC 69871L	RIS MAJ & HONY LT	GURNAM SINGH
--------------	-------------------	--------------

61 CAVALRY

2. JC 37656M	RIS MAJ & HONY LT	FATEH MOHD KHAN, VSM
--------------	-------------------	----------------------

45 CAVALRY

3. JC 38367K	RIS MAJ & HONY LT	BIKRAMA RAI
--------------	-------------------	-------------

64 CAVALRY

4. JC 48730H	RIS MAJ & HONY LT	BALBIR SINGH
--------------	-------------------	--------------

71 ARMoured REGIMENT

5. JC 60400W	RIS MAJ & HONY LT	MONHINDER SINGH
--------------	-------------------	-----------------

REGIMENT OF ARTILLERY

6. JC 25894M	SUB MAJ & HONY LT	BALDEV DATT
7. JC 32810W	"	D PALANI CHAMI
8. JC 45490L	"	DATTU PATIL
9. JC 62114N	"	DURGA SINGH
10. JC 41015X	"	G VELAPPAN NIAR
11. JC 40278K	"	HARI SINGH
12. JC 31023H	"	HARNARAIN SINGH
13. JC 27052A	"	ISHWAR SINGH
14. JC 32261F	"	JAIPAL SINGH
15. JC 33277Y	"	KV PARAMESWARA KURUP
16. JC 47938Y	"	LAKHA SINGH
17. JC 45386X	"	MANIKRAO POWAR
18. JC 45467X	"	NITYA NAND YADAV
19. JC 25833P	"	RAM CHINT YADAWA
20. JC 25881P	"	RAM KARAN
21. JC 45468A	"	SURAJ BHAN
22. JC 41003H	"	VN BHASKARAN

MADRAS ENGINEER GROUP

23. JC 49057Y	SUB MAJ & HONY LT	VI POTHAN
24. JC 66218M	SUB & HONY LT	KALIMUTHU
25. JC 66140M	"	RG CHINNAKANNU
26. JC 53624N	"	RADHAKRISHNAN C
27. JC 55505W	"	RAGHAVAN TK
28. JC 60780A	"	S KRISHNAN

BENGAL ENGINEER GROUP

29. JC 42127K	SUB MAJ & HONY LT	MAHENDRA SINGH
30. JC 44533H	"	MUTAK SINGH
31. JC 35681M	"	PARKASH SINGH
32. JC 76763K	SUB & HONY LT	KHEEM BAHADUR
33. JC 53927H	"	MAHABIR SINGH
34. JC 77702Y	"	TIRATH SINGH
35. JC 50416N	"	UMA SHANKAR SINGH
36. JC 69567F	"	VIDYA DATT

BOMBAY ENGINEER GROUP

37. JC 33703F	SUB MAJ & HONY LT	DHONDU SAKPAL
38. JC 27762X	"	HUKAM CHNAD
39. JC 33679A	"	PANDURANG MORE

40. JC 60433F	SUB & HONY LT	PRATAP SAWANT
41. JC 70935X	„	PRITAM SINGH
42. JC 70934P	„	SHANARAM SURVE

CORPS OF SIGNALS

43. JC 59833F	SUB MAJ & HONY LT	C UNNIKRIISHNAN
44. JC 60651A	„	GOPI CHAND
45. JC 37262N	„	GURMIT SINGH
46. JC 59857L	„	HARGOVIND PATHAK
47. JC 32125L	„	HARIBANSH DUBEY
48. JC 59856H	„	KULANAD SHARMA
49. JC 59835M	„	PRITAM SINGH HAYRE
50. JC 60218W	„	SOHAN SINGH
51. JC 52847Y	„	WARAYAM SINGH
52. JC 75994N	SUB & HONY LT	CHARANJIT LAL

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

53. JC 36949L	SUB MAJ & HONY LT	PADAM BHADUR MALL
54. JC 39378H	„	SUKHDEV SINGH
55. JC 67706F	SUB & HONY LT	BIR SINGH

THE PUNJAB REGIMENT

56. JC 48545P	SUB & HONY LT	GURDEV SINGH
57. JC 72974P	„	KABAL SINGH

THE MADARS REGIMENT

58. JC 44873L	SUB MAJ & HONY LT	S ISRAEL
---------------	-------------------	----------

THE GRENADIERS

59. JC 72123H	SUB & HONY LT	RAM DHAN
---------------	---------------	----------

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

60. JC 36725M	SUB MAJ & HONY LT	DNYANESHWAR GORE
61. JC 36538M	„	GOPAL INGLE
62. JL 28054X	„	NANAJIRAO KADAM
63. JC 35636A	„	VASANT CHAVAN
64. JC 65048F	SUB & HONY LT	ANANDRAO MANE
65. JC 50056H	„	RAMCHANDRA SONARE
66. JC 74850Y	„	SAMBHAJI DATTU SHINDE

THE RAJPUTANA RIFLES

67. JC 41357L	SUB MAJ & HONY LT	BHANWAR SINGH
68. JC 80019K	SUB & HONY LT	RAM KUMAR

THE RAJPUT REGIMENT

69. JC 37978M	SUB MAJ & HONY LT	SARAB DEO TIWARI
70. JC 35594Y	„	SAYAR SINGH
71. JC 63726X	SUB & HONY LT	GIRRAJ SINGH
72. JC 59018N	„	RAM SINGH, SM

THE JAT REGIMENT

73. JC 43908K	SUB MAJ & HONY LT	GOPI CHAND
74. JC 36248P	„	PARTAP SINGH
75. JC 79453K	SUB & HONY LT	GHARSI RAM

THE SIKH REGIMENT

76. JC 45635L	SUB MAJ & HONY LT	JOGINDER SINGH
77. JC 37038F	„	PIARA SINGH
78. JC 76503Y	SUB & HONY LT	HARNANDAN SINGH

THE DOGRA REGIMENT

79. JC 39136A	SUB MAJ & HONY LT	MAN SINGH
80. JC 36666K	„	SHIV RAM
81. JC 68450W	SUB & HONY LT	JOGISHWAR SINGH

THE GARHWAL RIFLES

82. JC 42950W	SUB MAJ & HONY LT	BALWANT SINGH RAWAT
83. JC 76889K	SUB & HONY LT	DALBIR SINGH BISHT

THE KUMAON REGIMENT

84. JC 67716L	SUB & HONY LT	AMAR SINGH
85. JC 76888F	"	LAXMI DATT JOSHI

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

86. JC 31337K	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH SINGH
87. JC 37562P	"	KASHMIR SINGH
88. JC 63850Y	"	PARMESHWARI SINGH

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

89. JC 248K	SUB MAJ & HONY LT	MANGAL SEN SHARMA
-------------	-------------------	-------------------

1 GORKHA RIFLES

90. JC 74895N	SUB & HONY LT	RUDDAR SINGH GURUNG
---------------	---------------	---------------------

3 GORKHA RIFLES

91. JC 36701A	SUB MAJ & HONY LT	BIR BAHADUR THAPA
---------------	-------------------	-------------------

5 GORKHA RIFLES

92. JC 44884X	SUB MAJ & HONY LT	HEM LAL GURUNG
---------------	-------------------	----------------

8 GORKHA RIFLES

93. JC 43696K	SUB MAJ & HONY LT	CHANDRA BIR GURUNG
94. JC 65086X	SUB & HONY LT	TULARAM THAPA

11 GORKHA RIFLES

95. JC 46093Y	SUB MAJ & HONY LT	JAGAT SINGH LAMA
96. JC 58435N	SUB & HONY LT	AMRIT BAHADUR LIMBU
97. JC 58592A	"	GOPAL PRADHAN
98. JC 73080L	"	INDRA KUMAR DEWAN

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

99. JC 26884P	SUB MAJ & HONY LT	BALDEV RAI
100. JC 51274N	"	GURMEJ SINGH
101. JC 21955F	"	ANAND KISHORE
102. JC 60202L	"	NARAIN SINGH SOHLOT
103. JC 21959X	"	PARKASH CHAND PARMAR
104. JC 57458H	"	RAS BEHARI DASH
105. JC 29709L	"	SAILENDRA PRASAD
106. JC 21980A	"	SAKTI PRASAD KAR
107. JC 57425X	"	SUKH PAL SINGH
108. JC 29708H	"	VRIDHI SINGH CHAUHAN
109. JC 69809Y	SUB & HONY LT	R DHARMA RAJAN

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

110. JC 42675F	SUB MAJ & HONY LT	NACHHITTAR SINGH
----------------	-------------------	------------------

ARMY MEDICAL CORPS

111. JC 68741W	SUB MAJ & HONY LT	CHATTAR SINGH
112. JC 67482M	"	SAHTAR SINGH
113. JC 77834M	SUB & HONY LT	PRABHKAR JOSHI
114. JC 79380H	"	SHIO PUJAN SINGH
115. JC 63286P	"	VITHAL

ARMY ORDNANCE CORPS

116. JC 38298Y	SUB MAJ & HONY LT	MANGAL SINGH
117. JC 50451W	"	MASTAN SINGH
118. JC 49317Y	"	N SETHU MADHAVAN NAIR

119. JC 68363H	SUB & HONY LT	HARI SHANKAR PANT
120. JC 80645N	"	JOGINDER SINGH
121. JC 68362A	"	KULWANT SINGH
122. JC 68361X	"	MATHEW PT
CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS		
123. JC 54293K	SUB MAJ & HONY LT	AMAR SINGH
124. JC 38959N	"	C RAMACHANDRAN MENON
125. JC 28878H	"	CHHAKAN LAL
126. JC 39663F	"	DHARAM PAUL SAMANT
127. JC 38722W	"	KR CHAPHEKAR
128. JC 36313K	"	KIRPAL SINGH
129. JC 38699N	"	LAKHMI CHAND
130. JC 56582X	SUB MAJ & HONY LT	PREM SINGH
131. JC 45977Y	"	RAM NATH
132. JC 38753W	"	SAMPURAN SINGH
133. JC 32640X	"	SUDHIR CHANDRA SUTRADHAR
134. JC 56534X	SUB & HONY LT	ABASAHEB JADHAV
135. JC 67831L	"	JAGJIT SINGH
ARMY EDUCATION CORPS		
136. JC 26673M	SUB MAJ & HONY LT	BHAGWAN SINGH YADAVA
137. JC 22145L	"	BHARAT SINGH BATAN
138. JC 22155P	"	MAM CHAND
139. JC 77530P	SUB & HONY LT	BUDHI CHAND RANA
THE INTELLIGENCE CORPS		
140. JC 32465N	SUB MAJ & HONY LT	KISHAN SINGH
141. JC 33548L	"	RAMA KARAN SINGH
142. JC 32464L	"	RATI RAM
143. JC 32466W	"	SHANKER SINGH BISHT
THE PIONEER CORPS		
144. JC 50534F	SUB MAJ & HONY LT	PRAHLAD RAM
DEFENCE SECURITY CORPS		
145. JC 71019	SUB MAJ & HONY LT	BISHWA NATH SINGH
146. JC 63892	"	SHYAM LAL YADAV
147. JC 64862	"	SHREE RAM SINGH
TO BE HONORARY LIEUTENANTS		
THE PRESIDENT'S BODY GUARD		
1. JC 76738L	RIS	GAJ SINGH
2. JC 71818Y	RIS	JAGIR SINGH
8 CAVALRY		
3. JC 63571N	RIS MAJ	AMB SINGH
1 HORSE		
4. JC 69907Y	RIS MAJ	CHANDER BHAN
2 LANCERS		
5. JC 41483X	RIS MAJ	MAHBIR SINGH
17 HORSE		
6. JC 40920A	RIS MAJ	GANPAT SINGH
9 HORSE		
7. JC 62021Y	RIS MAJ	MEHAR SINGH
3 CAVALRY		
8. JC 41482P	RIS MAJ	ANJANI KUMAR SINGH
9. JC 75285Y	RIS	MAN SINGH
10. JC 63875L	RIS	PRAKASH SINGH

4. HORSE

11. JC 79196X	RIS	BALBIR SINGH
12. JC 79651P	RIS	GULZAR SINGH

CENTRAL INDIA HORSE

13. JC 33729W	RIS MAJ	PRITHWI SINGH
---------------	---------	---------------

20 LANCERS

14. JC 33804P	RIS MAJ	SAMPURAN SINGH
---------------	---------	----------------

64 CAVALRY

15. JC 71636L	RIS	OMPARKASH CHAND
16. JC 635544N	RIS	VIJAY BAHADUR SINGH

67 ARMoured REGIMENT

17. JC 72602K	RIS	GULAB SINGH VERMA
---------------	-----	-------------------

68 ARMoured REGIMENT

18. JC 38179H	RIS MAJ	SHIV DATT
19. JC 57561N	RIS	INDRA SINGH

70 ARMoured REGIMENT

20. JC 50979N	RIS MAJ	MOKAND SINGH
---------------	---------	--------------

72 ARMoured REGIMENT

21. JC 79198H	RIS	HARNAM SINGH
22. JC 82449M	RIS	LAL CHAND VERMA

74 ARMoured REGIMENT

23. JC 44349X	RIS AMJ	AMAR SINGH
---------------	---------	------------

81 ARMoured REGIMENT

24. JC 69915X	RIS	HARDEO SINGH
25. JC 66180N	RIS	LAL CHAND

82 ARMoured REGIMENT

26. JC 64847L	RIS	BHANWAR SINGH
---------------	-----	---------------

84 ARMoured REGIMENT

27. JC 51844Y	RIS MAJ	LACHHI RAM
---------------	---------	------------

88 ARMoured REGIMENT

28. JC 69874Y	RIS	BHANWAR SINGH
---------------	-----	---------------

89 ARMoured REGIMENT

29. JC 77882M	RIS	HARCHAND SINGH
---------------	-----	----------------

41 ARMoured REGIMENT

30. JC 71828H	RIS	KISHORE SINGH
---------------	-----	---------------

ARMoured CORPS

31. JC 14189N	RIS MAJ (RT)	PITAMBER DUTT KHANDURI
32. JC 76759F	RIS	BADAN SINGH
33. JC 81437L	RIS	BRIJ NARAYAN SINGH
34. JC 72021M	RIS	RAJPAL SINGH
35. JC 79203H	RIS	SARDARA SINGH

REGIMENT OF ARTILLERY

36. JC 40232F	SUB MAJ	APP GNANA SIMHAN
37. JC 25844F	"	AMAR SINGH YADAV
38. JC 40182F	"	AMIR SINGH
39. JC 37880Y	"	ATMARAM PATIL
40. JC 32838W	"	BACHAN SINGH
41. JC 45586N	"	BADAN SINGH

42. JC 24320N	SUB MAJ	BRIJRAJ SINGH
43. JC 48512K	"	CHANDER BIKRAM SAHI
44. JC 10417N	SUB MAJ (RT)	DHARAM DATT SHARMA
45. JC 45456L	SUB MAJ	DULI CHAND
46. JC 45375L	"	DUNI CHAND
47. JC 45323P	"	EA ALEXANDER
48. JC 40312Y	"	HARBANS SINGH
49. JC 32251X	"	HARBHAJAN SINGH
50. JC 40321A	"	HARI RAM
51. JC 34318K	"	IDICULA TM
52. JC 37884P	"	JAGANNATH BANE
53. JC 41000P	"	JODH SINGH
54. JC 45417M	"	KM KRISHNAN NAIR
55. JC 25731Y	"	KP GOVINDAN
56. JC 77924N	"	KANWAR LAL
57. JC 40300K	"	KADAM SINGH
58. JC 34029P	"	LOKINDER SINGH
59. JC 40302P	"	M SUKUMARAN
60. JC 9655N	SUB MAJ (RT)	MULKHI RAM SHARMA
61. JC 34652L	SUB MAJ	MOHAN SINGH
62. JC 33275N	"	NIDHAN SINGH
63. JC 41035L	"	ONKAR CHAND
64. JC 33397X	"	PM GOPINATHAN
65. JC 40183K	"	RAI SINGH
66. JC 45473L	"	ROHITASH SINGH
67. JC 47946X	"	RUP SINGH
68. JC 47156H	"	SHANTARAM BANE
69. JC 33416X	"	SURYA NATH MISRA
70. JC 40243N	"	T NARAYANA SAMY
71. JC 74364F	SUB	AMAR SINGH
72. JC 77893Y	"	BAWA SINGH
73. JC 58512X	"	BHAGAT RAM PATHAK
74. JC 77913F	"	GURNAM SINGH
75. JC 74350F	"	HARBANS SINGH
76. JC 75106N	"	HARI CHAND YADAV
77. JC 68629K	"	JAYAWANT BALWANT SAWANT
78. JC 76844K	"	JOGINDER LAL
79. JC 45581P	"	JOGINDER LAL
80. JC 73571F	"	KARUPPANAN
81. JC 49518Y	"	MANGAL SINGH
82. JC 62885H	"	P NARAYANAN
83. JC 70076X	"	P VENKATA RAO
84. JC 45499A	"	PARVATKAPADNIS
85. JC 70815Y	"	R KRISHNA SWAMY
86. JC 77919H	"	RATTAN SINGH
87. JC 70826L	"	RATTAN SINGH
88. JC 74310A	"	SHEO PUJAN RAM
89. JC 66426F	"	SRI KRISHAN TIWARI
90. JC 59786P	"	SULTAN SINGH
91. JC 74358N	"	SULTAN SINGH YADAVA
92. JC 74295W	"	UMASHANKER
93. JC 47119A	"	VP KARAPPAN

MADRAS ENGINEER GROUP

94. JC 34352K	SUB MAJ	KT VARGHESE
95. JC 34079A	"	MS VELMURUGAN VENKATESAN
96. JC 34353M	"	MANOHARAN PILLAI
97. JC 36829M	"	NARSIMHAN
98. JC 34362N	"	P CHRISTIAN
99. JC 50990M	SUB	C THANGAVELU
100. JC 52036N	"	KM VASUDEVAN
101. JC 57371F	"	KRISHNAN
102. JC 51978X	"	MP KUTTAPPAN NAIR
103. JC 62735M	"	P GOPALAN NAIR
104. JC 57351N	"	P MARKANDEYA REDDY
105. JC 63858L	"	P SAMPANGI
106. JC 66149F	"	SUBRAMANI
107. JC 59589M	"	UA GOPAI

BENGAL ENGINEER GROUP

108. JC 43732K	SUB MAJ	DARWAN SINGH
109. JC 33356P	"	GABAR SINGH
110. JC 42150X	"	HARBANS SINGH
111. JC 42144K	"	HARBANS SINGH
112. JC 43734P	"	JAGDISHAR SINGH
113. JC 40154P	"	LAL SINGH
114. JC 42164X	"	PARKASH SINGH
115. JC 69968W	SUB	BALBIR SINGH
116. JC 62135K	"	GOVINDAR SINGH
117. JC 75361A	"	HARDIAL SINGH
118. JC 74008F	"	JAMAN SINGH
119. JC 61684X	"	KEDAR DATT
120. JC 71540H	"	MILKHA SINGH
121. JC 75375A	"	NAFE SINGH
122. JC 74440H	"	NAHAR SINGH
123. JC 74621N	"	NARAIN SINGH
124. JC 69970N	"	SARWAN SINGH

BOMBAY ENGINEER GROUP

125. JC 34456L	SUB MAJ	KEHAR SINGH
126. JC 31230P	"	PK BHASKARAN
127. JC 31838K	"	PANDURANG MORE
128. JC 36240H	"	PIARA SINGH
129. JC 33664N	"	SURWE MAHADEO BAJRAO
130. JC 33704K	"	TARJIT SINGH
131. JC 34478K	"	VIR SINGH
132. JC 67555N	SUB	HANUMANT MORE
133. JC 76440F	"	KASHINATH SAVANT
134. JC 47679F	"	PALANI NATHAN
135. JC 72864A	"	RAGHBIR SINGH
136. JC 72634M	"	RANGANATHAN
137. JC 44649Y	"	TILAK RAJ

CORPS OF SIGNALS

138. JC 32122X	SUB MAJ	AR BALAKRISHNAN
139. JC 55164W	"	CHANAN SINGH PARMAR
140. JC 60608Y	"	DEVI SINGH
141. JC 55163N	"	DHARAM SINGH
142. JC 67655Y	"	FAQIR CHAND KATOCH, SM
143. JC 55104F	"	GUR CHARAN SINGH
144. JC 66115N	"	GURDIAL SINGH
145. JC 60672W	"	GURMEL SINGH
146. JC 60669W	"	JHANDA SINGH
147. JC 59854X	"	KARAM SINGH
148. JC 56179L	"	MANGAL SINGH
149. JC 56177A	"	MOTI RAM
150. JC 52804K	"	PREM PRAKASH
151. JC 67661M	"	RAN SINGH
152. JC 31792M	"	SHAMRAO BAPU NIKAM
153. JC 60666H	"	SURAT SINGH
154. JC 52146H	SUB	A GOPALAKRISHNA PILLAJ
155. JC 60238K	"	AMRIK SINGH
156. JC 60710F	"	DHARMENDAR SINGH RAWAT
157. JC 75958H	"	DWARKA NATH
158. JC 82661K	"	GURMIT SINGH
159. JC 71770W	"	JALALUDDIN KHAN
160. JC 75961H	"	KRISHAN LAL SHARMA
161. JC 82719W	"	KRISHNA BAHADUR SINGH
162. JC 60239M	"	NAND LAL YADAVA
163. JC 74109P	"	P SOMANATHAN
164. JC 71204W	"	PARMA NAND VERMA
165. JC 82720L	"	SHIV RAM TIWARI

BRIGADE OF THE GUARDS

166. JC 48933M	SUB MAJ	HAWA SINGH
167. JC 44198K	"	JARNAIL SINGH
168. JC 36010P	"	VASANT MATE

169. JC 59349P	SUB	GOPAL SINGH
170. JC 70892N	"	G MARIASUSAI
171. JC 62772A	"	INDER SINGH

THE PARACHUTE REGIMENT

172. JC 50135X	SUB MAJ	GIAN CHAND
173. JC 37558M	"	HARBANS LAL
174. JC 45038W	"	RAMPHAL SINGH
175. JC 41077X	"	SIRI DHAR
176. JC 59759L	SUB	BALU DESHMUKH
177. JC 68497F	"	BHAGWAN SINGH NEGI
178. JC 43897H	"	GANJABIR RAI
179. JC JC 71067H	"	KISHAN CHAND
180. JC 44908W	"	MEHAR CHAND
181. JC 58991K	"	SIRINARAYAN SINGH VISHWA-KARAM

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

182. JC 38346N	SUB MAJ	CHATRU RAM
183. JC 35322Y	"	KARAM SINGH
184. JC 18424Y	"	PIRBHU SINGH
185. JC 78278N	SUB	BALBIR SINGH KATHAIT
186. JC 88091A	"	CHANDAN SINGH
187. JC 59308L	"	CHUNNI LAL
188. JC 62043X	"	DANBAHADUR BURATHOKE
189. JC 79994L	"	HARI PARSAD GURUNG
190. JC 75419M	"	HAYAT SINGH KARKI
191. JC 50265A	"	RATTAN SINGH
192. JC 48547A	"	YASHPAL

THE PUNJAB REGIMENT

193. JC 32618M	SUB MAJ	BHUP SINGH
194. JC 37737M	"	DULI RAM
195. JC 42298W	"	JOGA SINGH
196. JC 43689N	"	MOHAN SINGH
197. JC 65808Y	"	PRITAM SINGH
198. JC 34406A	"	SUKH RAM
199. JC 66038K	SUB	HARKISHAN SINGH
200. JC 56327L	"	JAGAN NATH
201. JC 68994L	"	LUDHAR SINGH
202. JC 59223P	"	MAHAN SINGH
203. JC 74857H	"	PARAS RAM
204. JC 59474Y	"	SOWARN SINGH

THE MADRAS REGIMENT

205. JC 44948K	SUB MAJ	E GOPALAKRISHNAN NAIR
206. JC 40331K	"	K SREEDHARAN
207. JC 44693H	"	OU DAMODARAN
208. JC 51097P	"	P MURUGESAM
209. JC 38590N	"	V KANNAPPAN
210. JC 37307H	"	V VISWANATHAN PILLAI
211. JC 45655Y	SUB	G JAYAPALAN
212. JC 58530A	"	MAGADEVAN
213. JC 44867X	"	P PADMANABHAN
214. JC 46302L	"	PARAMESWARAN
215. JC 58393K	"	SUNDAR RAMAYYA AYYALA SOMA-YAJULA
216. JC 59113A	"	UP PRABHAKARAN NAIR

THE GRENADIERS

217. JC 13159K	SUB MAJ	BHAGWAN DASS
218. JC 30357L	SUB MAJ (RT)	JEORAJ SINGH
219. JC 66665W	SUB MAJ	KISHAN LAL
220. JC 48615H	"	NIAZ MOHD KHAN
221. JC 16111F	"	PRATAP SINGH
222. JC 35360P	"	RAM SINGH
223. JC 16113M	"	RISAL SINGH
224. JC 13790Y	"	SUJAN SINGH

225. JC 45985X	SUB	BACHITTAR SINGH
226. JC 41922X	"	JAI NARAIN SHARMA
227. JC 76772L	"	ROSHAN LAL
228. JC 42417F	"	SURAJ SINGH
THE MARATHA LIGHT INFANTRY		
229. JC 47429A	SUB MAJ	GOPAL GAIKWAD
230. JC 33972N	"	KESHAV MORE
231. JC 34221Y	"	MANOHAR SAWANT
232. JC 36464H	"	VISHNU JADHAV, SM
233. JC 61589L	SUB	HARI PISAL
234. JC 47409M	"	INDRAJIT JADHAV
235. JC 46178P	"	PRABHAKAR MORE
236. JC 62055M	"	SHIVAJI SHINDE
237. JC 63583H	"	WAMAN MORE
238. JC 67520X	"	YEDU KAMBLE
THE RAJPUTANA RIFLES		
239. JC 37666W	SUB MAJ	GANPATSINGH, VSM
240. JC 43072X	"	HEMAT SINGH
241. JC 47091A	"	LOK RAM
242. JC 36750K	"	MIRZA NASIR AHMAD BEG
243. JC 42600K	"	PEP SINGH
244. JC 46656N	"	RAM SAHAY SINGH
245. JC 63024Y	SUB	BHAGIRATH RAM
246. JC 78186F	"	HARLAL SINGH RAM
247. JC 62731W	"	MOHAR SINGH
248. JC 76506M	"	NAFE SINGH
249. JC 65338Y	"	OM PRAKASH
250. JC 59059K	"	PHOOL SINGH
251. JC 62970L	"	RAMESHWAR RAM
252. JC 70010M	"	REWAT SINGH
253. JC 61920N	"	SURAJ BHAN SINDHU
THE RAJPUT REGIMENT		
254. JC 57513N	SUB MAJ	ACHYUTANAND SRIVASTAVA
255. JC 39544L	"	ADARSHPAL SINGH
256. JC 38235W	"	DALJIT SINGH
257. JC 48472N	"	DRIGPAL SINGH
258. JC 37677H	"	JAI SINGH
259. JC 34527F	"	RAM SINGH
260. JC 63682L	"	SHIVA SHANKER SINGH
261. JC 47576H	SUB	CHANDAN SINGH
262. JC 50537P	"	DHARM SINGH
263. JC 42344A	"	INDAR CHAND THAKUR
264. JC 49649H	"	RAJA RAM
265. JC 44957Y	"	RAMESH CHANDRA SINGH
266. JC 66360W	"	UMRAO SINGH
267. JC 54058L	"	VISHWANATH SINGH
THE JAT REGIMENT		
268. JC 43906Y	SUB MAJ	BIRBAL SINGH
269. JC 38175M	"	CHANDER SINGH
270. JC 35232X	"	MAYA CHAND
271. JC 32913P	"	NIHAL SINGH VERMA
272. JC 41959Y	"	RAJENDRAPAL SINGH
273. JC 45091F	"	RAM SUKH
274. JC 72513L	SUB	ATRAJ SINGH
275. JC 65437F	"	ATTAR SINGH
276. JC 67666L	"	BALWAN SINGH
277. JC 80876K	"	CHANDER SINGH
278. JC 76896A	"	GANESHA RAM
279. JC 42407X	"	KALI RAM
280. JC 35204L	"	KANWAL SINGH
281. JC 48988W	"	KEHAR SINGH
282. JC 65438K	"	NIRANJAN SINGH
283. JC 59309N	"	RAJ SINGH
284. JC 79799N	"	SARJIT SINGH

THE SIKH REGIMENT

285. JC 44357P	SUB MAJ	AMRIK SINGH
286. JC 39358P	"	DARSHAN SINGH
287. JC 51232F	"	JOGINDER SINGH
288. JC 34279W	"	SANTOKH SINGH
289. JC 33473Y	SUB MAJ	SEWA SINGH
290. JC 77037F	SUB	BAKSHISH SINGH
291. JC 77983A	"	BALWANT SINGH
292. JC 75061Y	"	CHANAN SINGH
293. JC 57937K	"	GURAH SINGH
294. JC 78187K	"	GURBACHAN SINGH
295. JC 75062F	"	GURMAIL SINGH
296. JC 79029F	"	HARI SINGH
297. JC 48605Y	"	MOHABAT SINGH
298. JC 76481L	"	SARWAN SINGH

THE SIKH LIGHT INFANTRY

299. JC 45640W	SUB MAJ	AKBAL SINGH
300. JC 39296A	"	BAKSHISH SINGH
301. JC 35488A	"	BHAG SINGH
302. JC 43521F	"	MEHAR SINGH
303. JC 60309A	SUB	AMAR SINGH
304. JC 55552N	"	GULCHARAN SINGH
305. JC 50136A	"	GURDEV SINGH
306. JC 56115A	"	GURMAKH SINGH
307. JC 66693H	"	LAKHBIR SINGH
308. JC 49859H	"	MALKIAT SINGH
309. JC 45098L	"	PIARA SINGH

THE DOGRA REGIMENT

310. JC 44360W	SUB MAJ	AMIN CHAND
311. JC 80790L	SUB	BHIM SINGH
312. JC 82583X	"	DESH RAJ SHARMA
313. JC 73330F	"	DINA NATH
314. JC 77679P	"	HARI SINGH
315. JC 78570H	"	KISHAN CHAND SHARMA, SM
316. JC 79434Y	"	LAL SINGH
317. JC 76739N	"	NAND LAL
318. JC 78101L	"	SHIV RAM
319. JC 77462M	"	TILAK RAJ

THE GARHWAL RIFLES

320. JC 37756X	SUB MAJ	TRILOK SINGH RAWAT
321. JC 72174W	SUB	ANAND SINGH RAWAT
322. JC 67722Y	"	BUJAI SINGH GUSAIN
323. JC 79441P	"	KESAR SINGH
324. JC 79435F	"	KULA NAND DABRIYAL
325. JC 73720K	"	MOHAN LAL JADLI
326. JC 63927W	"	SUKHDEV SINGH KHATRI

THE KUMAON REGIMENT

327. JC 41985A	SUB MAJ	BIRBHAN CHAND
328. JC 49301N	"	DANI CHAND
329. JC 36756L	"	DHAM SINGH
330. JC 36147F	"	MAHINDER SINGH, SM
331. JC 42761M	"	NARAIN SINGH
332. JC 49069N	"	PREM SINGH
333. JC 55999L	"	SUNDER SINGH
334. JC 51217M	"	URBA DATT
335. JC 63684P	SUB	BHAGOT SINGH
336. JC 66581H	"	BHAJ RAM JOSHI
337. JC 53315L	"	CHANDER BHAN YADAV
338. JC 76104P	"	CHANDGI RAM
339. JC 56519H	"	NARAIN SINGH

340. JC 68262P	SUB	PAN SINGH
341. JC 77633N	"	PRABHUNATH YADAVA
342. JC 76103M	"	RATTAN SINGH BISHT
343. JC 73293Y	"	SHADI RAM
THE ASSAM REGIMENT		
344. JC 30503A	SUB MAJ	PHUKAN CHANDRA DEORI
345. JC 67340P	SUB	KIRAN CHANDRA DAS
346. JC 57233A	"	VAILIAN CHHUNGA
THE BIHAR REGIMENT		
347. JC 34213A	SUB MAJ	ABRAHAM TIRKEY
348. JC 29011P	"	RAM ASIS PANDEY
349. JC 39502Y	"	SHEO KUMAR TIWARY
350. JC 55418H	SUB	MICHAEL GURIA
THE MAHAR REGIMENT		
351. JC 53981W	SUB MAJ	AMAR SINGH
352. JC 35643W	"	MALLAPPA KOTALKAR
353. JC 62975K	SUB	DAMU JADHAV
354. JC 62728W	"	KARNA SINGH THAPA
355. JC 68122H	"	PREM BAHADUR RAI
THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES		
356. JC 34253F	SUB MAJ	DURGA PARSHAD
357. JC 59926W	"	GANESH DASS
358. JC 46262P	"	GHANSHAM SINGH
359. JC 36209W	"	GULCHIN SINGH JAMWAL
360. JC 43035K	"	KASHMIR SINGH
361. JC 33955N	"	RATTAN CHAND
362. JC 33173X	"	SAGAR SINGH
THE NAGA REGIMENT		
363. JC 49304F	SUB MAJ	BHAWAN SINGH
THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY		
364. JC 69K	SUB MAJ	JAGJIT SINGH
365. JC 289N	SUB	MOHD ISMAIL RATHER
1 GORKHA RIFLES		
366. JC 37799M	SUB MAJ	DAN BAHADUR CHHETRI
367. JC 58022K	SUB	BHIM BAHADUR THAPA
368. JC 60589Y	"	BISAN BAHADUR GURUNG
369. JC 40957F	"	GAM BAHADUR THAPA
370. JC 60582P	"	JOG BAHADUR GURUNG
371. JC 64589W	"	MAN SINGH PUN
372. JC 60591W	"	NARAIN SINGH THAPA
373. JC 77999L	"	SANTA BAHADUR GURUNG
3 GORKHA RIFLES		
374. JC 47838N	SUB MAJ	BUDHI BAHADUR GURUNG
375. JC 50017K	"	HARKA BAHADUR GURUNG
376. JC 51258W	"	MADAN MOHAN GAIROLA
377. JC 47361K	"	PADAM BAHADUR THAPA
378. JC 48678L	"	RAM SING KHARKA
379. JC 61895A	SUB	AMAR BAHADUR SAHI
380. JC 76490M	"	BHAGWAN SINGH THAPA
381. JC 80142P	"	KESHER BAHADUR SAHI
382. JC 70422L	"	MT JOHN
383. JC 71897Y	"	TEK BAHADUR GURUNG
4 GORKHA RIFLES		
384. JC 66337H	SUB	BHAGAT RAM THAPA
385. JC 54377X	"	BHUPINDAR SINGH GURUNG
386. JC 56269M	"	MANGAL BAHADUR THAPA

387. JC 66226L	SUB	SHER JANG THAPA
388. JC 64811M	"	YUDH BIR KANWAR
5 GORKHA RIFLES		
389. JC 44361Y	SUB MAJ	ARJUN SING ALE
390. JC 46600F	"	GYAN BAHADUR KULUNG
391. JC 43303H	"	NAR BAHADUR PUN
392. JC 47026F	SUB	DAMA R BAHADUR GURUNG
393. JC 67024W	"	MEM BAHADUR GURUNG
394. JC 69549Y	"	MIM BAHADUR PUN
395. JC 75410X	"	MOTI KUMAR GURUNG
396. JC 70956N	"	RAM BAHADUR RANA
397. JC 72392P	"	RUPENDRA SING BURATHOKI
8 GORKHA RIFLES		
398. JC 72420W	SUB	CHAMPA SINGH THAPA
399. JC 67019L	"	JUDHBIR GURUNG
400. JC 61760Y	"	PIRTHI BAHADUR PUN
9 GORKHA RIFLES		
401. JC 43901A	SUB MAJ	BHAKTA BAHADUR MALLA
402. JC 62482H	"	BHIM BAHADUR MALL
403. JC 44076A	"	DHAN BAHADUR KHATTRI
404. JC 30677A	"	LALIT BAHADUR MALL
405. JC 41673K	"	SAMBHU MALL
406. JC 76538P	SUB	OM BAHADUR MALL
11 GORKHA RIFLES		
407. JC 46342M	SUB MAJ	ARJUN RAI
408. JC 46643W	"	KISHAN SING RAI
409. JC 42382W	"	LALIT KUMAR PRODHAN
ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)		
410. JC 52573Y	SUB MAJ	A EDWIN
411. JC 52563P	"	GANESH ROY
412. JC 29755Y	"	GOVINDAN KUTTY K
413. JC 29724H	"	HOSHIAR SINGH RANA
414. JC 55248K	"	JAGAN NATH PRASAD
415. JC 52273X	"	MANE RAM
416. JC 29716F	"	MOHAN LAL
417. JC 29754X	"	N KRISHNAN THAMPY
418. JC 53518P	"	P THANGAVELU
419. JC 59692X	SUB	A ARPUTHASAMY
420. JC 69823L	"	AMARJIT SINGH
421. JC 69803Y	"	ANAND BALLABH KAPIL
422. JC 69828K	"	ARJUN SINGH YADAVA
423. JC 69806L	"	BALAKRISHNA PILLAI K
424. JC 59689X	"	BIKARMA SINGH DHILLON
425. JC 69819H	"	CK SAMUEL
426. JC 60073W	"	DEV DUTT
427. JC 70168K	"	DEVA SHARAN SINGH
428. JC 69817X	"	DIN DAYAL PRACHETA
429. JC 58054M	"	E BALAKRISHNAN NAIR
430. JC 69808W	"	GURNAM SINGH
431. JC 60067H	"	ISHWAR SINGH
432. JC 59688P	"	JAGIR SINGH
433. JC 69824N	"	JOGINDER SINGH DUNG
434. JC 59691P	"	K RAMACHANDRAN PILLAI
435. JC 59690M	"	KJ NARAYANA PILLAI
436. JC 59694H	"	KR GOPALAKRISHNAN NAIR
437. JC 61295X	"	KEWAL KRISHAN
438. JC 69826Y	"	M MUKHNDAN MENON
439. JC 58053K	"	MK BALAGOPALAN NAIR
440. JC 69829A	"	MR SATHYAVRATHA KURUP
441. JC 59703Y	"	MANOHAR LAL
442. JC 69821A	"	MARU RAM

443.	JC 59697W	SUB	MARUPUDI RADHAKRISHNA
444.	JC 61352N	"	OM PARKASH
445.	JC 59695L	"	P PADMANABHA KURUP
446.	JC 70169M	"	PIARE LAL KAURA
447.	JC 59700L	"	PRABHAKAR HIRPHODE
448.	JC 60065N	"	PRAVA, CHANDRA MISRA
449.	JC 70170F	"	PUSHTI BALLABH JOSHI
450.	JC 69831K	"	RAGHAVAN MR
451.	JC 59449A	"	RAM KISHAN YADAV
452.	JC 59687M	"	RAM SARUP YADAVA
453.	JC 58050W	"	RAMA KRISHNAN K
454.	JC 59698Y	"	RAMCHANDRA MANERIKAR
455.	JC 69810N	"	RAMESH DASS
456.	JC 59699F	"	ROSHAN LAL
457.	JC 69813F	"	SHARAM PAL
458.	JC 73301M	"	SHRAWAN KUMAR PANDEY
459.	JC 59644X	"	SURJYAKANTA PURKAYASTHA
460.	JC 59682N	"	T RADHA KRISHNAN
461.	JC 58052F	"	TP DAMODARAN
462.	JC 69816P	"	TRILOCHAN SINGH
463.	JC 63423H	"	VASUDEVAN PILLAI
464.	JC 61309M	"	VISHWAMITRA SINGH

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

465.	JC 35752H	RIS MAJ	HOSHIYAR SINGH
466.	JC 34928W	"	IRUMBAN AYPE PAUL
467.	JC 35745M	"	NAR BHADUR CHAND

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

468.	JC 44048N	SUB MAJ	AMIR CHAND RAM
469.	JC 11299X	SUB MAJ (RT)	KALI DASS
470.	JC 43463H	SUB MAJ	SEWA SINGH
471.	JC 43465A	"	SHEO RAJ SINGH
472.	JC 78767Y	SUB	BAHADUR SINGH
473.	JC 78597A	"	HARCHAND SINGH
474.	JC 79728W	"	KUNNUPARAMBIL VELU GANGA-DHARAN
475.	JC 78596X	"	RAM SINGH

ARMY MEDICAL CORPS

476.	JC 9236W	SUB MAJ (RT)	DWARKA NATH SHARMA
477.	JC 55594X	SUB MAJ	MAKHAN SINGH BAL, VSM
478.	JC 70520H	"	PITAMBAR BHAT
479.	JC 65931X	"	RAM ADHAR TIWARI
480.	JC 54949N	"	SARWAN SINGH
481.	JC 57303M	"	SOWARI MUTHU
482.	JC 42842M	"	SUCHA SINGH
483.	JC 32875K	"	T APPAJI
484.	JC 68743F	"	TARSAIM SINGH
485.	JC 79381L	SUB	ABDUL HAMID
486.	JC 76973K	"	ANIRUDDHA PANDA

ARMY ORDNANCE CORPS

487.	JC 61641H	SUB MAJ	C GOPALA KRISHNAN NAIR
488.	JC 49336K	"	JASWINDAR SINGH RANDHAWA
489.	JC 62646N	"	KARTAR SINGH
490.	JC 61631Y	"	SWARN SINGH
491.	JC 60833N	"	T DAVID
492.	JC 70578A	SUB	ABRAHAM O
493.	JC 68368F	"	BRAJNANDAN SINGH
494.	JC 77303P	"	KT PHILLIPOSE
495.	JC 68364L	"	KARTAR SINGH
496.	JC 80729F	"	KRISHAN LAL
497.	JC 68365N	"	LATUR SINGH

498.	JC 80658L	SUB	MOHAR SINGH
499.	JC 69241L	"	RAJ NARAIN SINGH
500.	JC 68366W	"	SANKER NATH MUKHERJEE
501.	JC 66842L	"	T KRISHNAN KUTTY MENON
502.	JC 78259H	"	TEK RAM
503.	JC 78249Y	"	TULSI DASS CHOCHAN
504.	JC 71712M	"	VINAYAK RAO MANIK RAO PARKALE

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

505.	JC 38691P	SUB MAJ	BISHUNDEO JHA
506.	JC 36448N	"	CHATTAR SINGH GIDDEY
507.	JC 38686W	"	MADAN LAL
508.	JC 37117W	"	MADAN MOHAN SINGH
509.	JC 38726M	"	MADHAV DAKRE
510.	JC 10508X	SUB MAJ (RT)	MAHANAND POKHRIYAL
511.	JC 39638Y	SUB MAJ	MAHIPAT POWAR
512.	JC 57867W	"	MALAH SINGH
513.	JC 39609N	"	MOHINDER SINGH
514.	JC 34444W	"	PK BHASKARAN
515.	JC 38685N	"	PURAN SINGH
516.	JC 67130P	"	SARDAR SINGH
517.	JC 67120L	"	SARDUL SINGH
518.	JC 36314M	"	SUCHA SINGH
519.	JC 38723Y	"	SUCHA SINGH
520.	JC 32645N	"	SUKHDEV SINGH PATYAL
521.	JC 56387A	SUB	ADIVEPPA GIRI TAMMANAVAR
522.	JC 76652M	"	ARUN KUMAR CHATTERJEE
523.	JC 80481H	"	BACHAN SINGH RAWAT
524.	JC 80323K	"	BAKSHI CHAND
525.	JC 58819H	"	BALWANT SINGH
526.	JC 80346P	"	BANKEY LAL SHARMA
527.	JC 77248K	"	BIRENDRA SINGH
528.	JC 57249F	"	BIRINDER KUMAR
529.	JC 56389L	"	DARBARA SINGH
530.	JC 56545K	"	DHARAM SINGH
531.	JC 65878X	"	GOVINDA MENON M
532.	JC 59262N	"	GURCHARAN SINGH
533.	JC 61180K	"	GURDAS RAM
534.	JC 68433W	"	HEM LAL
535.	JC 56355X	"	ISHWAR DASS
536.	JC 56559K	"	JOGINDER SINGH
537.	JC 71317Y	"	KASHI PRASAD OJHA
538.	JC 57198H	"	KULWANT SINGH
539.	JC 69850P	"	LALIT MOHAN PAUL
540.	JC 56745A	"	MADHUKAR DOMKULWAR
541.	JC 70720Y	"	MANWAR SINGH
542.	JC 63114A	"	MOHD SULTAN
543.	JC 63125M	"	N KUNJU KUTTA MENON
544.	JC 85014P	"	P MARIAPPAN
545.	JC 67847W	"	P SREEDHARAN MENON
546.	JC 76650F	"	P EVA NAMBIAR
547.	JC 55720W	"	PARTAP CHAND
548.	JC 73160H	"	RK KRISHNAN NAIR
549.	JC 69360F	"	RANJEET SINGH RAWAT
550.	JC 71376L	"	RATHINDRA NATH BOSE
551.	JC 63127X	"	SADASIVAN NAIR PR
552.	JC 56388H	"	SEWA SINGH
553.	JC 56730X	"	SIVASANKARAN NAIR
554.	JC 65136X	"	SOBAN SINGH
555.	JC 58784X	"	SUKHBIR SINGH SULANKHI
556.	JC 59565H	"	VIJAYAN PILLAY G
557.	JC 60727P	"	Y RAMANKUTTY MENON

ARMY EDUCATION CORPS

558.	JC 46500W	SUB MAJ	CHUNI LAL TIKU
559.	JC 30631X	"	GURDEV SINGH SANDHU

560. JC 31181X	SUB MAJ	KALYAN DEV
561. JC 30645X	"	KANWAR SUKHDEV SINGH
562. JC 46512L	"	M SEKHARA VARIE
563. JC 34154Y	"	SATISH KUMAR
564. JC 31188F	"	SHIV NARAYAN GOUR
565. JC 46518M	"	SURAJMAL CHHIKARA
566. JC 66594A	SUB	BADAN SINGH RATHI
567. JC 78122W	"	DUDH NATH SINGH
568. JC 77529A	"	GOVIND SINGH ASWAL
569. JC 66525K	"	HARBANS SINGH THAKUR
570. JC 76062N	"	MIRZA ALI AULIA BEG
571. JC 66590K	"	NETRAPAL SINGH
572. JC 66613A	"	SURESH CHANDRA KHATTRI

REMOUNT VETERINARY CORPS

573. RV 7174H	RIS	JATINDRA NATH DAS
574. RV 7281K	"	RAJVIR SINGH

THE INTELLIGENCE CORPS

575. JC 35251H	SUB MAJ	BHAGWAN SINGH
576. JC 77537Y	SUB	C RAMAR
577. JC 46114K	"	GANPAT SINGH YADAV
578. JC 46112Y	"	GIRISH CHANDRA JOSHI
579. JC 45896Y	"	HARI SINGH
580. JC 67953P	"	JOGINDER SINGH
581. JC 68759M	"	MAKHAN SINGH
582. JC 46116P	"	PAT RAM
583. JC 68771N	"	SANT LALL
584. JC 56892H	"	SHAM SUNDER

CORPS OF MILITARY POLICE

585. JC 52228L	SUB MAJ	PREM SINGH
586. JC 65162Y	"	RAGHUBIR SINGH
587. JC 81627X	SUB	DAYANAND BADON
588. JC 60536A	"	DINANATH GURAV
589. JC 74743X	"	MADAN SINGH
590. JC 78118N	"	PARBHOO DAYAL
591. JC 62965A	"	R MASILAMANI
592. JC 58831K	"	RAM CHAND

THE PIONEER CORPS

593. JC 52639K	SUB MAJ	GULJHARI LAL BOYAL
594. JC 32547W	"	MUKHITAR SINGH

DEFENCE SECURITY CORPS

595. JC 75244	SUB MAJ	JIT SINGH
596. JC 47645	"	MADAN LAL
597. JC 62316	"	RAM PROBESH SINGH
598. JC 62254	SUB MAJ	RAMESHWAR
599. JC 64855	"	SHEO PRASAD YADAV
600. JC 73076	"	SOHAN SINGH

सं० 9-ई दिमांक 11 जनवरी 1982--राष्ट्रपति सहर्षे स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त 1982) के अवसर पर निम्नलिखित जे सी आर को उनके अवकाश प्राप्त करने पर सेना विनियमावली, 1962 के पैरा 180 के अधीन उनके नाम के सामने दी गई तारीख से, अवैतनिक पद प्रदान करने हैं --

अवैतनिक कोस्ट गार्ड के रैंक में**8 केवलरी**

1. जे सी 70284 एम

रिसालदार मेजर व अवैतनिक
लेफ्टिनेंट

सरमुख सिंह

01-08-82

1 હાસ

2. જે સી 43698 પી	રિસાલદાર વ અવૈતનિક લૈફ્ટનેટ	જગબીર સિંહ	01-04-82
3. જે સી 73528 એ	"	ફૂલ સિંહ ભાકર	01-07-82

4 હાસ

4 જે સી 62000 એ	રિસાલદાર મેજર વ અવૈતનિક લૈફ્ટનેટ	મરવન સિંહ	01-02-82
-----------------	----------------------------------	-----------	----------

20 લાસર્સ

5. જે સી 67428 એ	રિસાલદાર વ અવૈતનિક લૈફ્ટનેટ	માતા દીન	01-07-82
------------------	-----------------------------	----------	----------

64 કેવલરી

6. જે સી 65213 એફ	રિસાલદાર વ અવૈતનિક લૈફ્ટનેટ	ચૈન સિંહ	01-05-82
7. જે સી 77937 એલ	રિસાલદાર વ અવૈતનિક લૈફ્ટનેટ	ગુરુચન સિંહ	01-05-82

65 ગ્રામ્ડ રેજિમેન્ટ

8. જે સી 44720 એફ	રિસાલદાર મેજર વ અવૈતનિક લૈફ્ટનેટ	બજરગ સિંહ	01-08-82
-------------------	----------------------------------	-----------	----------

68 ગ્રામ્ડ રેજિમેન્ટ

9. જે સી 54771 એચ	રિસાલદાર વ અવૈતનિક લૈફ્ટનેટ	રામ ચન્દ્ર સિંહ	01-08-82
-------------------	-----------------------------	-----------------	----------

84 ગ્રામ્ડ રેજિમેન્ટ

10. જે સી 70204 કે	રિસાલદાર વ અવૈતનિક લૈફ્ટનેટ	સુરજનાથ સિંહ	01-08-82
--------------------	-----------------------------	--------------	----------

89 ગ્રામ્ડ રેજિમેન્ટ

11. જે સી 63877 કે	રિસાલદાર વ અવૈતનિક લૈફ્ટનેટ	ગુરુચરન સિંહ	01-05-82
--------------------	-----------------------------	--------------	----------

90 ગ્રામ્ડ રેજિમેન્ટ

12. જે સી 72852 એલ	રિસાલદાર વ અવૈતનિક લૈફ્ટનેટ	શેર સિંહ	01-03-82
--------------------	-----------------------------	----------	----------

ગ્રામ્ડ કોર

13. જે સી 87016 વાઈ	રિસાલદાર વ અવૈતનિક લૈફ્ટનેટ	આત્મા સિંહ	01-04-82
14. જે સી 87817 એ	"	હરી ચન્દ	01-02-82
15. જે સી 79786 ડબ્લ્યૂ	"	પ્રીતમ સિંહ	01-03-82

રેજિમેન્ટ ગ્રાંફ આર્ટીસરી

16. જે સી 24265 એચ	સૂબેદાર મેજર વ અવૈતનિક લૈફ્ટનેટ	એ કેસવન	01-06-82
17. જે સી 42985 એમ	"	જગદીશ સિંહ	01-07-82
18. જે સી 45424 એચ	"	કે અપ્પુકુટ્ટન નાયર	01-06-82
19. જે સી 45483 પી	"	લક્ષ્મી રામ	01-02-82
20. જે સી 25868 એમ	"	એમ બી પુન્નપા	01-08-82
21. જે સી 33293 એક્સ	"	પેરિયાસ્વામી	01-08-82
22. જે સી 32797 એક્સ	"	ગીશપાલ સિંહ	01-05-82
23. જે સી 25794 એફ	"	મીસ રામ	01-08-82
24. જે સી 66735 કે	સૂબેદાર વ અવૈતનિક લૈફ્ટનેટ	એ કુળ્લા મૂતિ	01-08-82
25. જે સી 73421 એલ	સૂબેદાર વ અવૈતનિક લૈફ્ટનેટ	અવતાર સિંહ	01-02-82
26. જે સી 73552 ડબ્લ્યૂ	સૂબેદાર વ અવૈતનિક લૈફ્ટનેટ	અવતાર સિંહ	01-04-82
27. જે સી 76283 એ	"	બિક્રમ સિંહ	01-08-82

28.	जे सी 74764 डब्ल्यू	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	ब्रह्मदेव सिंह	01-04-82
29.	जे सी 74324 ए	"	धरम पाल	01-08-82
30.	जे सी 76860 एफ	"	ई के रामाकृष्ण पिल्लै	01-05-82
31.	जे सी 60358 एच	"	हाकम सिंह	01-02-82
32.	जे सी 73550 एल	"	जल सिंह	01-05-82
33.	जे सी 72595 वाई	"	कवर सिंह	01-04-82
34.	जे सी 78420 एम	"	कमल सिंह	01-05-82
35.	जे सी 72155 एल	"	केवल सिंह	01-06-82
36.	जे सी 62580 एच	"	किशन सिंह	01-07-82
37.	जे सी 74797 वाई	"	एम अरोकिया स्वामी	01-07-82
38.	जे सी 66808 एल	"	एम बी जॉसेफ	01-03-82
39.	जे सी 62827 वाई	"	मोहन सिंह	01-03-82
40.	जे सी 64135 एच	"	नांदडा के उथप्प	01-06-82
41.	जे सी 62122 एम	"	श्रीकार सिंह कटोच	01-04-82
42.	जे सी 73648 वाई	"	पी बी गंगाधरन	01-04-82
43.	जे सी 69721 पी	"	राम चन्दर	01-08-82
44.	जे सी 51298 एक्स	"	राम कवर	01-06-82
45.	जे सी 72086 ए	"	टी ए अच्युतन	01-04-82
46.	जे सी 78217 डब्ल्यू	"	उदय बीर सिंह	01-08-82
47.	जे सी 70809 एल	"	वासुदेवन के सी	01-02-82

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

48.	जे सी 34258 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कुप्पुस्वामी, बी एम एम	01-02-82
49.	जे सी 34369 एक्स	"	एस आदिमूलम	01-08-82
50.	जे सी 19639 के	"	टी मारकण्डन	01-03-82
51.	जे सी 66208 एच	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दामोदरम	01-04-82
52.	जे सी 57349 डब्ल्यू	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	के के उन्नी नायर	01-03-82

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

53.	जे सी 36123 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गज्जन सिंह	01-04-82
54.	जे सी 51798 पी	"	इन्द्रदेव पाण्डेय	01-07-82
55.	जे सी 44540 वाई	"	मालदेव सिंह	01-03-82
56.	जे सी 45260 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	नरेन्द्रा सिंह श्रमवाल	01-08-82
57.	जे सी 26500 पी	"	आर बालाकृष्णन नायर	01-06-82
58.	जे सी 46068 ए	"	राम प्रकाश सिंह	01-07-82
59.	जे सी 38076 के	"	मुखदेव सिंह	01-04-82
60.	जे सी 74841 एक्स	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	आनन्द सिंह रावत	01-05-82
61.	जे सी 69568 के	"	चानन सिंह	01-03-82
62.	जे सी 70775 एच	"	दीवान सिंह	01-03-82
63.	जे सी 48177 एल	"	दीना नाथ	01-07-82
64.	जे सी 59774 ए	"	गजिन्द्रा सिंह भडारी	01-05-82
65.	जे सी 74830 एल	"	गोपाल दाम	01-08-82
66.	जे सी 61668 ए	"	गुरुदेव सिंह	01-04-82
67.	जे सी 66745 एन	"	गुन्ताम सिंह	01-06-82
68.	जे सी 51838 एल	"	हरी सिंह	01-05-82

69.	जे सी 75369 एम	"	प्रेम सिंह	01-04-82
70.	जे सी 74444 बाई	"	राम कंवर	01-02-82
71.	जे सी 74633 एच	"	णमशेर सिंह	01-06-82
72.	जे सी 74636 डब्ल्यू	"	शिव चरन	01-04-82
73.	जे सी 69967 ए	"	शिव रतन	01-03-88
74.	जे सी 55493 एम	"	सुरजीत सिंह	01-06-82

बाम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप

75.	जे सी 33696 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	शेख युसफ उद्दीन	01-03-82
76.	जे सी 70867 पी	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बाबू महाबंदी	01-06-82
77.	जे सी 47689 एल	"	बलदेव सिंह	01-06-82
78.	जे सी 70942 एम	"	दीवान सिंह	01-04-82
79.	जे सी 72880 एक्स	"	गणपती तिविल	01-02-82
80.	जे सी 47670 एम	"	गुरदयाल सिंह	01-04-82
81.	जे सी 48537 डब्ल्यू	"	मलकीयत सिंह	01-02-82
82.	जे सी 66305 ए	"	मोहिन्दर सिंह	01-02-82
83.	जे सी 70933 एम	"	प्रीतम सिंह	01-04-82

कोर ग्राफ सिगलस

84.	जे सी 42056 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बख्तिर सिंह	01-08-82
85.	जे सी 60214 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	गुमान सिंह	01-08-82
86.	जे सी 48216 बाई	"	गुरबचन सिंह	01-03-82
87.	जे सी 56174 एम	"	हन्स राज सिंह	01-03-82
88.	जे सी 37293 एन	"	जगजीत सिंह	01-05-82
89.	जे सी 30289 एच	"	जगतार सिंह	01-05-82
90.	जे सी 64737 डब्ल्यू	"	कंहर सिंह	01-02-82
91.	जे सी 42054 एम	"	मान सिंह	01-02-82
92.	जे सी 52796 डब्ल्यू	"	मरसा सिंह	01-08-82
93.	जे सी 36786 एच	"	मुख्त्यार सिंह	01-02-82
94.	जे सी 48212 एच	"	प्रताप सिंह	01-02-82
95.	जे सी 52141 के	"	आर गोपाला पिल्ले	01-04-82
96.	जे सी 52770 एफ	"	आर आर राजपूत	01-02-82
97.	जे सी 53204 एन	"	राम प्रकाश	01-02-82
98.	जे सी 60212 पी	"	सत्य स्वरूप सिंह	01-08-82
99.	जे सी 48218 के	"	उपेन्द्रो अपाटो	01-05-82
100.	जे सी 71155 बाई	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	विधी चन्द	01-04-82
101.	जे सी 72937 एफ	"	धनी राम शर्मा	01-08-82
102.	जे सी 71157 के	"	हवा सिंह	01-06-82
103.	जे सी 55146 एन	"	जनक राज	01-02-82
104.	जे सी 74052 एल	"	श्री विश्वम्भरन	01-06-82
105.	जे सी 71190 एफ	"	शुशील रंजन घोष	01-06-82

ब्रिगेड ग्राफ बी गार्ड्स

106.	जे सी 67538 एन	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	चिरन्जी लाल	01-06-82
107.	जे सी 58605 एन	"	खजान सिंह	01-08-82
108.	जे सी 68522 पी	"	मंगल सिंह	01-04-82

109.	जे सी 66204 एम	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	मुन्शी राम	01-04-82
110.	जे सी 81185 के	"	राम प्रसाद शर्मा	01-06-82
बी पंजाब रेजिमेंट				
111.	जे सी 30750 एन	"	बिशन सिंह	01-05-82
112.	जे सी 24782 ए	"	चन्वन सिंह रावत	01-02-82
113.	जे सी 47096 वाई	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	राम श्रीधर पांडे	01-07-82
114.	जे सी 45866 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	मनी राम	01-06-82
बी मकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट				
115.	जे सी 42168 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	अमर नाथ	01-04-82
116.	जे सी 59941 एल	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	मती राम	01-06-82
117.	जे सी 37305 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	सुलख राज	01-04-82
118.	जे सी 37301 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	नगीन्द्र सिंह	01-04-82
119.	जे सी 36138 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	श्री राम पाठक	01-03-82
120.	जे सी 18422 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	शुशपाल सिंह	01-06-82
121.	जे सी 62959 एम	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	गोवर्धन गुग्ग	01-03-82
122.	जे सी 63796 डबल्यू	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	प्रेम सिंह	01-03-82
123.	जे सी 75381 एन	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	मदन सिंह रावत	01-04-82
124.	जे सी 74875 एल	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	प्रेम चन्द	01-08-82
125.	जे सी 47056 एक्स	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	रमेश चन्द्र पांडे	01-04-82
126.	जे सी 66984 एच	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	रिखी राम अन्नरी	01-02-82
बी पंजाब रेजिमेंट				
127.	जे सी 40425 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	शंगार सिंह	01-06-82
128.	जे सी 54003 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बलदेव सिंह	01-03-82
129.	जे सी 66040 एफ	"	दर्शन सिंह	01-05-82
130.	जे सी 58536 एफ	"	गोवर्धन चन्द कटोच	01-08-82
131.	जे सी 47587 पी	"	प्रताप सिंह	01-06-82
132.	जे सी 46611 एन	"	शेर सिंह	01-03-82
133.	जे सी 53873 एम	"	शेर सिंह	01-05-82
134.	जे सी 50166 एक्स	"	मुदर्शन कुमार	01-07-82
बी मद्रास रेजिमेंट				
135.	जे सी 17167 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	पी बलरामन नंदिशार	01-02-82
136.	जे सी 38592 वाई	"	टी गोपाल कृष्ण	01-07-82
137.	जे सी 51149 के	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	कुमारन एसुत्तन्वन	01-06-82
138.	जे सी 49287 एम	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	एम संकरन नायर	01-04-82
139.	जे सी 65860 एफ	"	टी एम डेनियल	01-07-82
140.	जे सी 46490 एक्स	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	बिक्टर डेविड	01-07-82
बी प्रिन्सिपल				
141.	जे सी 47339 वाई	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	इन्दर सिंह	01-08-82
142.	जे सी 16109 के	"	मोहन राम	01-06-82
143.	जे सी 46588 एल	"	रंधीर सिंह	01-06-82
144.	जे सी 48170 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट	अजी राम	01-03-82
145.	जे सी 68129 एन	"	बुध राम	01-08-82

146. जे सी 50006 एम	सुबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	बुन्नी लाल	01-07-82
147. जे सी 36186 ए	"	राम लाल	01-02-82

बी मराठा लाइट इन्फेन्ट्री

148. जे सी 26582 एच	सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	पाण्डुरंग माने	01-02-82
149. जे सी 32999 वाई	"	रामचन्द्रजगदाले	01-07-82
150. जे सी 39054 एचम	"	योगराज ठाकरे	01-06-82
151. जे सी 44023 एफ	सुबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	गनपती पाण्डुरंग नकिल	01-03-82
152. जे सी 54721 एचम	सुबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	श्रीरंग निकम	01-04-82

बी राजपूताना राइफल्स

153. जे सी 49580 के	सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	कुन्दन सिंह राठौड़	01-04-82
154. जे सी 45725 एम	"	मान सिंह	01-08-82
155. जे सी 24438 पी	सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	रघबीर सिंह	01-07-82
156. जे सी 60302 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	रतबीर सिंह	01-08-82
157. जे सी 48030 पी	सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट (ग्लिजस टीघर)	मैयद अकरम वारिस अब्दी	01-07-82
158. जे सी 78575 एफ	सुबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	गजे सिंह	01-07-82
159. जे सी 73003 डब्ल्यू	सुबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	गया सिंह	01-02-82
160. जे सी 68142 डब्ल्यू	"	होशियार सिंह	01-08-82
161. जे सी 56391 एच	"	मिठ्ठन सिंह	01-04-82
162. जे सी 50573 एम	"	फूल सिंह	01-02-82
163. जे सी 78384 एम	"	फूल सिंह राम	01-08-82
164. जे सी 61928 ए	"	राम श्रीतार गुप्ता	01-04-82
165. जे सी 70900 एफ	"	रामचन्द्र राम	01-05-82
166. जे सी 65328 पी	"	रूप सिंह	01-04-82
167. जे सी 49299 एफ	"	तीर्थराज सिंह	01-02-82

बी राजपूत रेजिमेंट

168. जे सी 36026 ए	सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	रती राम	01-08-82
169. जे सी 20903 वाई	"	उमराव सिंह	01-07-82
170. जे सी 54384 एन	सुबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	अमर सिंह	01-02-82
171. जे सी 50124 एल	"	भगवान सहाय	01-02-82
172. जे सी 55836 एचम	"	दल्लू राम	01-08-82
173. जे सी 71525 एन	"	दीवान सिंह गरिया	01-04-82
174. जे सी 59239 ए	"	हरी सिंह	01-02-82
175. जे सी 46345 ए	"	करन सिंह	01-03-82
176. जे सी 68937 के	"	कौणल प्रताप सिंह	01-08-82
177. जे सी 45634 एच	"	पद्मा नन्द सिंह	01-06-82
178. जे सी 56408 एल	"	राम दास सिंह	01-08-82
179. जे सी 35529 वाई	"	रूप लाल	01-07-82
180. जे सी 77484 एल	"	शीतल सिंह	01-08-82
181. जे सी 58685 पी	"	वीरेन्द्र सिंह	01-06-82

बी जाट रेजिमेंट

182. जे सी 37771 एम	सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	दलीप सिंह	01-05-82
183. जे सी 55481 एचम	सुबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	बिरधी चन्द	01-08-82
184. जे सी 73680 एन	"	दया राम	01-08-82
185. जे सी 63804 के	"	हेत राम	01-02-82

186. जे सी 68502 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जवाहर सिंह	01-03-82
187. जे सी 58168 एच	"	करण सिंह	01-02-82
188. जे सी 77486 डब्ल्यू	"	नाहर सिंह	01-04-82
189. जे सी 68503 के	"	नरायण सिंह	01-08-82
190. जे सी 55945 के	"	रूप चन्द	01-06-82
191. जे सी 68447 डब्ल्यू	"	समय सिंह	01-06-82
192. जे सी 66990 डब्ल्यू	"	सूरज मल	01-08-82
193. जे सी 61878 ए	"	तेज राम	01-06-82

बी सिख रेजिमेंट

194. जे सी 20152 एच	सूबाबेर मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दर्शन सिंह	01-06-82
195. जे सी 35895 एच	"	हरबन्स सिंह	01-08-82
196. जे सी 51230 डब्ल्यू	"	करनैल सिंह	01-06-82
197. जे सी 35882 एल	"	मोहिन्द्र सिंह	01-06-82
198. जे सी 34746 एच	"	मोहिन्द्र सिंह	01-07-82
199. जे सी 44373 एन	"	सरवन सिंह	01-06-82
200. जे सी 72517 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दर्शन सिंह	01-06-82
201. जे सी 54852 एम	"	देवेन्द्र सिंह	01-07-82
202. जे सी 50322 डब्ल्यू	"	जगत सिंह	01-03-82
203. जे सी 76479 एन	"	मुखवेश सिंह	01-08-82
204. जे सी 6903 एच	"	तेजा सिंह	01-06-82

बी सिख लाइट रेजिमेंट

205. जे सी 29464 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बख्शीश सिंह	01-08-82
206. जे सी 42489 एल	"	नसीब सिंह	01-06-82
207. जे सी 44937 एल	"	परसा सिंह	01-03-82
208. जे सी 3654 डब्ल्यू	"	प्रीतम सिंह	01-05-82
209. जे सी 5013 एल	सूबाबेर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	चनन सिंह	01-08-82
210. जे सी 7466 वार्ड	"	चन्द सिंह	01-04-82
211. जे सी 5172 ए	"	गुरबचन सिंह	01-02-82
212. जे सी 38611 वार्ड	"	हरदयाल सिंह	01-08-82

बी डोगरा रेजिमेंट

213. जे सी 2902 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	लायक चन्द कटोच	01-07-82
214. जे सी 7299 वार्ड	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हरी सिंह	01-04-82
215. जे सी 74407 एल	"	इन्द्र सिंह	01-04-82
216. जे सी 64662 के	"	काहन सिंह	01-08-82
217. जे सी 77611 पी	"	खियाली राम	01-08-82
218. जे सी 7148 एल	"	प्यार सिंह	01-02-82

बी गढ़वाल राईफल्स

219. जे सी 35592 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बची राम पुरोहित	01-05-82
220. जे सी 4139 एच	"	चन्दर सिंह राणा	01-08-82
221. जे सी 7856 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गबर सिंह रावत	01-08-82
222. जे सी 55043 पी	"	गंगाराम बिजोला	01-03-82
223. जे सी 65195 के	"	हरी दत्त ढोंडियाल	01-05-82
224. जे सी 64036 ए	"	भवन लाल सिगवाल	01-03-82
225. जे सी 74005 एन	"	किशोरी लाल	01-08-82
226. जे सी 6241 वार्ड	"	कुंवर सिंह भंडारी	01-06-82

227. जे सी 84221 पी	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राजेश्वर प्रसाद धसमाना	01-3-82
228. जे सी 63692 पी	"	मचिदा नन्द बडोला	01-3-82
बी कुमाऊं रेजिमेंट			
229. जे सी 35504 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम कुमार	01-4-82
230. जे सी 39283 एच	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	आशा राम	01-3-82
231. जे सी 51236 एक्स	"	बलबीर सिंह	01-2-82
232. जे सी 45028 एम	"	बलदीर सिंह यादव	01-7-82
233. जे सी 57677 के	"	दामोदर जोशी	01-3-82
234. जे सी 70239 ए	"	देवान सिंह	01-8-82
235. जे सी 74404 एक्स	"	हरीश चन्द्र पन्त	01-6-82
236. जे सी 77493 एम	"	हयात सिंह	01-2-82
237. जे सी 78465 एम	"	जय नारायण	01-4-82
238. जे सी 51215 एफ	"	प्रताप चन्द	01-6-82
239. जे सी 75046 के	"	प्रेम सिंह	01-6-82
240. जे सी 74400 पी	"	पूर्ण नन्द	01-6-82
241. जे सी 74401 के	"	पुस्कर सिंह	01-6-82
242. जे सी 68263 एक्स	"	सोहन लाल	01-8-82
बी आसाम रेजिमेंट			
243. जे सी 55899 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जुगाधर बरुआ	01-5-82
244. जे सी 45144 पी	"	मागखोहेन वैफे	01-8-82
245. जे सी 42362 एच	"	थंगखोसट हमर	01-2-82
246. जे सी 32958 पी	"	लुण्गा	01-2-82
बी बिहार रेजिमेंट			
247. जे सी 29646 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राजकुमार सिंह यादवा	01-2-82
248. जे सी 54916 एच	"	मनाई गगराई	01-6-82
249. जे सी 31342 पी	"	मार्शल भेंगरा	01-8-82
250. जे सी 31630 एफ	"	राम पुकार सिंह	01-2-82
251. जे सी 48416 पी	"	श्रीनाथ भोला	01-8-82
252. जे सी 63771 के	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पतूक कुजुर	01-6-82
253. जे सी 56158 पी	"	राम रमिका सिंह	01-3-82
बी साहार रेजिमेंट			
254. जे सी 60315 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बाबू बन्मोडे	01-7-82
255. जे सी 71587 एन	"	मोहन सिंह	01-8-82
256. जे सी 61886 वाई	"	तरलोक नाथ	01-3-82
बी जम्मू एण्ड कश्मीर राइफल्स			
257. जे सी 33074 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हंस राज	01-5-82
258. जे सी 27819 एफ	"	हरनाम सिंह	01-4-82
259. जे सी 44218 एन	"	जनमेज सिंह	01-4-82
260. जे सी 16688 एफ	"	रस्तन सिंह	01-02-82
261. जे सी 59925 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	खजूर सिंह	01-7-82
बी जम्मू एण्ड कश्मीर लाइट ईन्फैन्ट्री			
262. जे सी 62 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जनक सिंह	01-6-82
263. जे सी 208 एच	"	त्रिलोकी नाथ	01-5-82
264. जे सी 209 एल	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गिरधारी लाल	01-4-82

1 गोरखा राईफल्स

265. जे सी 53450 बाई	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	केवल कृष्णा कपूर	01-6-82
266. जे सी 41944 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	टीका राम राना	01-8-82
267. जे सी 64177 पी	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दया राम थापा	01-2-82
268. जे सी 51091 एक्स	"	ध्रुव सिंह थापा	01-5-82

3 गोरखा राईफल्स

269. जे सी 44123 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जगत बहादुर थापा	01-5-82
270. जे सी 28810 बाई	"	मान सिंह गुरुंग	01-6-82

5 गोरखा राईफल्स

271. जे सी 44275 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	टेक बहादुर गुरुंग	01-2-82
272. जे सी 68487 एक्स	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मोहन सिंह थापा	01-7-82

8 गोरखा राईफल्स

273. जे सी 53941 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गुमान सिंह गुरुंग	01-8-82
274. जे सी 44875 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	महाबीर थापा	01-5-82
275. जे सी 37358 डब्ल्यू	"	टेक बहादुर गुरुंग	01-7-82
276. जे सी 67329 डब्ल्यू	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	धनवीर गुरुंग	01-02-82
277. जे सी 77511 के	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	टेक बहादुर गुरुंग	01-2-82
278. जे सी 56950 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	टेक बहादुर गुरुंग	01-7-82

9 गोरखा राईफल्स

279. जे सी 58028 एल	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गुंसाई सिंह धनिक	01-2-82
280. जे सी 49067 एच	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	खरका बहादुर साही	01-7-82
281. जे सी 39978 एल	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	खरका बहादुर साही	01-6-82

11 गोरखा राईफल्स

282. जे सी 44964 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बख्त बहादुर लिम्बू	01-5-82
283. जे सी 40750 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रत्ना प्रसाद देवान	01-5-82

ग्रामी सविस् कोर (सप्लाई)

284. जे सी 21981 एच	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भगत राम	01-5-82
285. जे सी 50285 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	चन्द्र प्रकाश	01-2-82
286. जे सी 21954 बाई	"	जमना दास	01-6-82
287. जे सी 26846 बाई	"	नवीन चन्द्र	01-2-82
288. जे सी 51273 एल	"	पृथ्वीश्वर चक्रवर्ती	01-7-82
289. जे सी 51270 एक्स	"	राजेंद्र पाल मोहन	01-2-82
290. जे सी 26837 एक्स	"	राम नारायण सिंह	01-8-82
291. जे सी 26848 के	"	त्रिलोक सिंह	01-2-82
292. जे सी 51382 एक्स	"	बी जी जार्ज	01-5-82
293. जे सी 69796 एम	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	आत्मा राम नावले	01-8-82
294. जे सी 68853 डब्ल्यू	"	बलवन्त सिंह	01-5-82
295. जे सी 65467 बाई	"	चन्द्र बाली सिंह	01-5-82
296. जे सी 57015 एफ	"	ध्यान सिंह	01-6-82
297. जे सी 73303 डब्ल्यू	"	गौरी सिंह	01-8-82
298. जे सी 50637 ए	"	गीकुला नन्द भट्ट	01-08-82
299. जे सी 69799 ए	"	गुरनाम सिंह लोढाय	01-8-82
300. जे सी 57008 एल	"	हरमेश लाल	01-5-82
301. जे सी 65456 एम	"	इशार सिंह	01-3-82

302. जे सी 29823 एच	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	के कुन्ही कृष्णा कुरुप	01-2-82
303. जे सी 65457 पी	"	कमला प्रसाद पानिग्रही	01-3-82
304. जे सी 47485 बाई	"	केसर सिंह साही	01-5-82
305. जे सी 40562 ए	"	मेहंगा राम	01-3-82
306. जे सी 68797 एच	"	मुक्तियार सिंह	01-6-82
307. जे सी 63534 ए	"	ओम प्रकाश	01-3-82
308. जे सी 59629 एच	"	पी पट्टाभी रमहया	01-3-82
309. जे सी 61348 एल	"	पी एस गोपालन	01-2-82
310. जे सी 69797 पी	"	पी बी कुन्ही रमन नम्बियर	01-8-82
311. जे सी 57608 एन	"	रविन्द्रा चन्द्रा दत्ता राय	01-7-82
312. जे सी 65459 ए	"	राम जनम सिंह	01-3-82
313. जे सी 75513 डब्ल्यू	"	राम किशन सिंह	01-3-82
314. जे सी 59667 बाई	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम सिंह	01-8-82
315. जे सी 57626 डब्ल्यू	"	शाम राय सालुंखे	01-8-82
316. जे सी 69017 एफ	"	श्याम सुन्दर	01-6-82
317. जे सी 69798 एक्स	"	सुजीत कुमार घोस	01-8-82
318. जे सी 69791 एच	"	उत्तम सिंह	01-7-82

ग्रामी सविस् कोर (एभीमल ट्रांसपोर्ट)

319. जे सी 34938 ए	रिसाल दार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	धर्म सिंह	01-5-82
320. जे सी 17873 एफ	रिसाल दार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पदमा दत्ता	01-3-82
321. जे सी 17741 एन	"	उरबा दत्त	01-4-82

ग्रामी सविस् कोर (निकल ट्रांसपोर्ट)

322. जे सी 42022 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	चरन सिंह	01-2-82
323. जे सी 42023 एच	"	जुनी लाल	01-3-82
324. जे सी 43364 ए	"	जगनाथन	01-8-82
325. जे सी 41854 पी	"	लाभ सिंह	01-5-82
326. जे सी 42671 एल	"	महा सिंह	01-6-82
327. जे सी 43468 एफ	"	मोहन सिंह नेगी	01-2-82
328. जे सी 41847 बाई	"	मोहिन्द्रा सिंह सरोद्दी	01-5-82
329. जे सी 42028 एफ	"	प्रताप सिंह	01-7-82
330. जे सी 43355 बाई	"	सरूप सिंह	01-7-82
331. जे सी 43354 डब्ल्यू	"	तरसीम सिंह	01-7-82
332. जे सी 43510 पी	"	वलानपारामबिल पदमानाभन पिल्लै बालाकृष्णन नायर	01-7-82
333. जे सी 41877 ए	"	वासुदेवन	01-8-82
334. जे सी 43359 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बलायती लाल	01-08-82
335. जे सी 75519 एक्स	"	अरुलंद	01-02-82
336. जे सी 75853 एफ	"	बानी सिंह	01-02-82
337. जे सी 78027 के	"	बेल राम	01-05-82
338. जे सी 75529 एफ	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हरी सिंह	01-03-82
339. जे सी 75528 बाई	"	ईश्वर सिंह	01-03-82
340. जे सी 75518 पी	"	जबबन्त सिंह	01-02-82
341. जे सी 75535 पी	"	जोगिन्दर सिंह	01-03-82
342. जे सी 75530 डब्ल्यू	"	किशोरी लाल	01-03-82
343. जे सी 75521 पी	"	मुन्नी पान्हे	01-02-82

344.	जे सी 76570 एफ	अवैतनिक लेफ्टिनेट	श्रीम प्रकाश	01-03-82
345.	जे सी 75520 एम	"	रघवीर सिंह	01-02-82
346.	जे सी 78016 एक्स	"	राम नाथ	01-06-82
347.	जे सी 75524 एच	"	रत्ती राम	01-02-82
348.	जे सी 76573 एक्स	"	रोशन लाल शर्मा	01-04-82

ग्रामी मेडिकल कोर

349.	जे सी 45692 एम	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेट	दिनेश्वर सिंह	01-05-82
350.	जे सी 77124 पी	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेट	प्रताप सिंह रावन	01-02-82

ग्रामी आर्म्मेन्स कोर

351.	जे सी 65733 एम	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेट	अजमोदीन भलदर	01-07-82
352.	जे सी 76619 एफ	"	अमर सिंह	01-02-82
353.	जे सी 68404 ए	"	चन्द्रा शेखर तिवारी	01-02-82
354.	जे सी 67764 एल	"	दुर्गादत्त जोशी	01-04-82
355.	जे सी 65710 एल	"	हरीहर प्रसाद	01-06-82
356.	जे सी 65696 के	"	जानेन्द्रा चन्द्रा धर	01-03-82
357.	जे सी 64416 बाई	"	काली सहाय तिवारी	01-05-62
358.	जे सी 66831 बाई	"	मनीष भूषण दास	01-07-82
359.	जे सी 66827 डब्ल्यू	"	मोहम्मद शबीर अली खान	01-06-82
360.	जे सी 70593 पी	"	पल्लुराम	01-04-82
361.	जे सी 67743 पी	"	सदाशिव विनायक मुगले	01-08-82
362.	जे सी 66837 ए	"	शीश पाल सिंह	01-08-82
363.	जे सी 76609 एल	"	शाम नाराय चौबे	01-07-82
364.	जे सी 78262 एच	"	सिन्तन सिंह दास	01-05-82
365.	जे सी 69332 पी	"	सुबराता चौधरी	01-02-82

कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स

366.	जे सी 54546 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेट	ए.एन. मोहन	01-06-82
367.	जे सी 33889 डब्ल्यू	"	द्वारका प्रसाद गुप्ता	01-07-82
368.	जे सी 33891 एन	"	गुरदयाल सिंह	01-07-82
369.	जे सी 33920 एक्स	"	जसबन्त सिंह	01-08-82
370.	जे सी 36305 एल	"	कपल देव	01-08-82
371.	जे सी 52930 डब्ल्यू	"	एम तियागाराजू	01-07-82
372.	जे सी 54580 एन	"	मोहन लाल	01-08-82
373.	जे सी 33918 ए	"	सुरज मल	01-08-82
374.	जे सी 46439 एक्स	"	वरसाम सिंह	01-06-82
375.	जे सी 46685 एच	"	जिले सिंह जून	01-05-82
376.	जे सी 56601 एक्स	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेट	अभरजीत सिंह	01-03-82
377.	जे सी 76727 बाई	"	अनंत तैती	01-04-82
378.	जे सी 56544 एफ	"	बख्सीस सिंह	01-04-82
379.	जे सी 69375 के	"	सी.टी. कुन्हरामन तम्बियार	01-08-82
380.	जे सी 52917 एम	"	धर्म चन्द	01-04-82
381.	जे सी 565558 एफ	"	ध्रुव चरण श्रीवा	01-03-82
382.	जे सी 56368 पी	"	हनुमान सिंह जोड़ा	01-04-82
383.	जे सी 65133 के	"	हुकम चन्द	01-07-82
384.	जे सी 54277 एम	"	प्रताप सिंह	01-07-82
385.	जे सी 56359 एन	"	राम धर दुवे	01-08-82

386.	जे सी 70719 के	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रामधारी	01-06-82
387.	जे सी 74578 एक्स	"	राम किशन सिंह	01-08-82
388.	जे सी 56533 पी	"	राम प्रसाद दुबे	01-06-82
389.	जे सी 63115 एच	"	एम कृष्णाकरनावर	01-06-82
390.	जे सी 72293 एम	"	सतवत सिंह	01-06-82
391.	जे सी 63137 एफ	"	श्रीराम खेडकर	01-06-82
392.	जे सी 63130 एक्स	"	बी सी फिलिप्स	01-08-83
393.	जे सी 52425 एन	"	बास देव	01-03-82
394.	जे सी 58818 ए	"	विद्या सागर डोगरा	01-08-82

ग्रामों एजुकेशनल कोर

395.	जे सी 47134 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गणेश प्रसाद पटेल	01-03-82
396.	जे सी 21325 एफ	"	लाल चन्द सेठी	01-05-82
397.	जे सी 21314 पी	"	रतन सिंह शानी	01-04-82
398.	जे सी 31171 एन	"	सोमा राम कपूर	03-06-82
399.	जे सी 21318 एल	"	उमराव सिंह ठाकुर	01-05-82
400.	जे सी 76920 एल	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अजीत सिंह	01-05-82
401.	जे सी 66580 पी	"	अन्तर सिंह	01-03-82
402.	जे सी 77204 एम	"	अवनार सिंह निजार	01-08-82
403.	जे सी 74385 एक्स	"	चन्द्र दत्त शर्मा	01-04-82
404.	जे सी 73084 एफ	"	गुरमीत सिंह	01-08-82
405.	जे सी 66098 बार्ड	"	जाग राम	01-02-82
406.	जे सी 66592 पी	"	किशन सिंह	01-08-82
407.	जे सी 66593 एक्स	"	फूल सिंह	01-05-82
408.	जे सी 66100 एल	"	राम बाबू पाडे	01-02-82
409.	जे सी 76563 एन	"	राम बीर सिंह गोर	01-03-82
410.	जे सी 73656 एम	"	राम प्रकाश सन्धीर	01-05-82
411.	जे सी 66605 एफ	"	शंकर सिंह	01-08-82
412.	जे सी 77208 एच	"	मुखचैन सिंह	01-08-82

रिमाऊंट एण्ड बेअरनरी कोर

413.	आर बी 7190	रिमालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	आशा नन्दन सिंह	01-06-82
------	------------	------------------------------------	----------------	----------

बी इंटेलिजेंस कोर

414.	जे सी 68770 एल	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बलजीत सिंह	01-03-82
415.	जे सी 62443 के	"	के कनकाराजू	01-04-82
416.	जे सी 44453 एल	"	कुलदीप सिंह	01-08-82
417.	जे सी 41696 एल	"	शेर सिंह कार्की	01-08-82
418.	जे सी 43921 एन	"	वेदानाथगम	01-03-82

कोर ग्राफ मिलिट्री पुलिस

419.	जे सी 78115 ए	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	चित्रामनी भट्ट	01-08-82
------	---------------	------------------------------	----------------	----------

डिफेंस सिक्यूरिटी कोर

420.	जे सी 8335	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अवनार सिंह	01-05-82
421.	जे सी 76380	"	माही राम	01-05-82
422.	जे सी 58891	"	टी जी योहानन	01-06-82
423.	जे सी 77550	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	एम किरुपाचारन	01-02-82

अवैतनिक लेफ्टिनेंट के रैंक में**वी प्रेगिडेंट्स बोर्ड गार्ड्स**

1. जे सी 50585 एक्स	रिसालदार मेजर	गुरप्रसाद शर्मा	01-06-82
---------------------	---------------	-----------------	----------

रेजीमेंट आफ आर्टिलरी

2. जे सी 14479 एल	सूबेदार मेजर (रिजिजम टीचर)	बोध राज	01-02-82
-------------------	-------------------------------	---------	----------

बंगाल इंजिनियर ग्रुप

3. जे सी 26794 एन	सूबेदार मेजर	ए आर रामास्वामी	01-04-82
4. जे सी 60770 बाई	सूबेदार मेजर	त्रैकुण्ठ नाथ	01-07-82

कोर आफ सिगनलस

5. जे सी 40761 एन	सूबेदार मेजर	अजायब सिंह	01-03-82
6. जे सी 48228 एन	सूबेदार मेजर	बलदेव सिंह	01-05-82
7. जे सी 48220 बाई	सूबेदार मेजर	कामता सिंह	01-05-82

वी डोगरा रेजीमेंट

8. जे सी 37819 पी	सूबेदार मेजर	दुनी चन्द	01-07-82
-------------------	--------------	-----------	----------

वी महार रेजीमेंट

9. जे सी 30656 के	सूबेदार मेजर	वसन्त बागडे	01-08-82
-------------------	--------------	-------------	----------

आर्मी मेडिकल कोर

10. जे सी 54474 एम	सूबेदार मेजर	भुजंग राव व्यंकट राव जाटव	01-08-82
11. जे सी 45219 एफ	सूबेदार मेजर	सिरी राम शर्मा	01-04-82

आर्मी एजुकेशन कोर

12. जे सी 34150 एच	सूबेदार मेजर	मन मोहन नाथ धर	01-06-82
--------------------	--------------	----------------	----------

अवैतनिक रिसालदार सूबेदार मेजर के रैंक में**14 हार्स**

1. जे सी 78986 ए	रिसालदार	हरजीत सिंह	01-07-82
2. जे सी 75931 एल	रिसालदार	मरखन सिंह	01-03-82

3 केवलरी

3. जे सी 78211 पी	रिसालदार	हरनेक सिंह	01-07-82
-------------------	----------	------------	----------

4 हार्स

4. जे सी 67412 एच	रिसालदार	प्रीतम सिंह	01-07-82
-------------------	----------	-------------	----------

सेन्ट्रल इंडिया हार्स

5. जे सी 72611 एल	रिसालदार	रामचन्द्र सिंह	01-05-82
-------------------	----------	----------------	----------

70 ग्रामर्ड रेजीमेंट

6. जे सी 72971 ए	रिसालदार	गुरनाम सिंह	01-07-82
------------------	----------	-------------	----------

73 ગ્રામર્ડ રેઝિમેન્ટ

7. જે સી 57765 ઇ	રિમાલદાર	નેત્રપાલ સિંહ ચૌકર	01-04-82
------------------	----------	--------------------	----------

82 ગ્રામર્ડ રેઝિમેન્ટ

8. જે સી 69911 ઇફ	રિમાલદાર	હનુમાન સિંહ	01-03-82
9. જે સી 78471 ઇ	રિમાલદાર	ફૂલ દામ	01-02-82

84 ગ્રામર્ડ રેઝિમેન્ટ

10. જે સી 71822 ઇફ	રિમાલદાર	કમલ સિંહ	01-07-82
--------------------	----------	----------	----------

ગ્રામર્ડ કોર

11. જે સી 85488 કે	રિમાલદાર	મોહિન્દર સિંહ જાહમન	01-08-82
--------------------	----------	---------------------	----------

રેઝિમેન્ટ ગ્રાફ ગ્રાટિલરી

12. જે સી 64929 ઇન	સૂબેદાર	ઇ નારાયણન	01-08-82
13. જે સી 73610 પી	સૂબેદાર	અમરજીત સિંહ	01-07-82
14. જે સી 73624 પી	સૂબેદાર	ચિરંજી લાલ	01-08-82
15. જે સી 66791 ઇચ	સૂબેદાર	દામોદર ગુંધી	01-07-82
16. જે સી 55863 ઇફ	સૂબેદાર	દેવરાજન	01-08-82
17. જે સી 68218 ઇલ	સૂબેદાર	ગુરદીપ સિંહ	01-08-82
18. જે સી 73629 ઇન	સૂબેદાર	જેશી રામ	01-04-82
19. જે સી 61674 ઇન	સૂબેદાર	કે એસ મળ્ડપ્પા	01-02-82
20. જે સી 45601 ઇક્મ	સૂબેદાર	કરન સિંહ	01-08-82
21. જે સી 90172 ઇન	સૂબેદાર	કાજી સુજાઝધીન	01-03-82
22. જે સી 78438 ઇચ	સૂબેદાર	ખરક સિંહ	01-07-82
23. જે સી 70758 ઇચ	સૂબેદાર	કૃષ્ણ દત્ત	01-05-82
24. જે સી 71060 વાઈ	સૂબેદાર	માધવ રાજે શર્કો	01-02-82
25. જે સી 56456 ઇલ	સૂબેદાર	પી કામનન	01-08-82
26. જે સી 70069 ઇફ	સૂબેદાર	પી પ્રભાકરન	01-08-82
27. જે સી 64200 ઇક્મ	સૂબેદાર	પી ઇ પચ્યાપ્પન	01-08-82
28. જે સી 48364 ક	સૂબેદાર	રામ નાથ	01-06-82
29. જે સી 66454 ડબ્લ્યૂ	સૂબેદાર	ઇમ અશિર્વાદિમ ફનળ્ડીસ	01-08-82
30. જે સી 78422 ઇક્મ	સૂબેદાર	શિગારા સિંહ	01-08-82
31. જે સી 62875 વાઈ	સૂબેદાર	વિશ્વ બંધુ	01-07-82

મદ્રાસ ઇંજીનિયર ગ્રુપ

32. જે સી 57359 ઇ	સૂબેદાર	કૃષ્ણન નામ્બિયાર	01-08-82
33. જે સી 61576 ઇન	સૂબેદાર	પેરિયનાયગમ	01-08-82
34. જે સી 50911 ઇમ	સૂબેદાર	વી નામ્બી	01-03-82

બંગાલ ઇંજીનિયર ગ્રુપ

35. જે સી 70776 ઇલ	સૂબેદાર	બલદેવ સિંહ	01-04-82
36. જે સી 12055 ડબ્લ્યૂ	સૂબેદાર	ભજન લાલ મિમરા	01-08-82
37. જે સી 74445 ઇમ	સૂબેદાર	ભવાની દત્ત	01-05-82
38. જે સી 48176 ઇચ	સૂબેદાર	ધન સિંહ	01-06-82
39. જે સી 61673 ઇલ	સૂબેદાર	હરભજન સિંહ	01-05-82
40. જે સી 73694 ઇન	સૂબેદાર	હરપાલ સિંહ	01-05-82
41. જે સી 65412 ઇચ	સૂબેદાર	જબર સિંહ મંઢારી	01-06-82
42. જે સી 61672 ઇચ	સૂબેદાર	જગદમ્બા પ્રસાદ	01-05-82

43.	जे सी 75355 डब्ल्यू	सूबेदार	जीवा नन्ध	01-06-82
44.	जे सी 50420 डब्ल्यू	सूबेदार	करनैल सिंह	01-05-82
45.	जे सी 59207 एक्स	सूबेदार	केशर सिंह	01-02-82
46.	जे सी 74837 पी	सूबेदार	लक्ष्मी चन्द	01-04-82
47.	जे सी 37723 एम	सूबेदार	लाल सिंह	01-02-82
48.	जे सी 62144 एल	सूबेदार	महेन्द्र सिंह सैनी	01-04-82
49.	जे सी 63080 एक्स	सूबेदार	मलकियत सिंह	01-04-82
50.	जे सी 61693 वार्ड	सूबेदार	नारायण दत्त	01-02-82
51.	जे सी 59576 पी	सूबेदार	नसीब चन्द	01-08-82
52.	जे सी 69564 एन	सूबेदार	पाखर सिंह	01-03-82
53.	जे सी 74457 डब्ल्यू	सूबेदार	प्रेम सिंह	01-03-82
54.	जे सी 59578 ए	सूबेदार	प्रीतम सिंह	01-06-82
55.	जे सी 62298 एक्स	सूबेदार	राम लभाया शर्मा	01-06-82
56.	जे सी 73690 एक्स	सूबेदार	सरवन सिंह	01-07-82
57.	जे सी 73695 डब्ल्यू	सूबेदार	शमशेर चन्द	01-06-82
58.	जे सी 59600 ए	सूबेदार	श्रीधर प्रसाद	01-05-82
59.	जे सी 55501 ए	सूबेदार	थान सिंह	01-05-82
60.	जे सी 54707 एल	सूबेदार	जिला सिंह	01-08-82

बाम्बे इंजीनियर ग्रुप

61.	जे सी 72870 एन	सूबेदार	अर्जुन सिंह	01-07-82
62.	जे सी 55057 एच	सूबेदार	बोबाडे गणपत कृष्ण	01-02-82
63.	जे सी 67980 वार्ड	सूबेदार	बुध सिंह	01-07-82
64.	जे सी 70988 एल	सूबेदार	जसवन्त सिंह	01-08-82
65.	जे सी 62396 एक्स	सूबेदार	जीत सिंह	01-04-82
66.	जे सी 57592 एन	सूबेदार	लक्ष्मन बाराड	01-08-82
67.	जे सी 76438 के	सूबेदार	निर्मल सिंह	01-04-82
68.	जे सी 51332 एम	सूबेदार	निर्मल सिंह	01-05-82
69.	जे सी 47684 एम	सूबेदार	रामआसरा सिंह	01-02-82
70.	जे सी 45828 एल	सूबेदार	रामचन्द्र भंडे	01-02-82
71.	जे सी 58149 एम	सूबेदार	शिवराम कदम	01-02-82
72.	जे सी 44658 ए	सूबेदार	श्रीधर गावडे	01-06-82
73.	जे सी 76888 एल	सूबेदार	स्वर्ण सिंह	01-08-82
74.	जे सी 51333 एन	सूबेदार	तेजा सिंह	01-02-82

फोर ग्राफ सिगनलस

75.	जे सी 77393 एफ	सूबेदार	अनन्त जाधव	01-05-82
76.	जे सी 73748 के	सूबेदार	बंसी राम	01-07-82
77.	जे सी 49716 एच	सूबेदार	जी आर रंगानाथन	01-03-82
78.	जे सी 76025 ए	सूबेदार	गोकुलावासुदेवन के	01-08-82
79.	जे सी 71746 ए	सूबेदार	गोविन्द सिंह	01-03-82
80.	जे सी 64717 एच	सूबेदार	जसवन्त सिंह चम्बेल	01-08-82
81.	जे सी 77402 एक्स	सूबेदार	के वडीवेलू	01-06-82
82.	जे सी 74055 वार्ड	सूबेदार	एम श्रीधरन	01-08-82
83.	जे सी 71187 एफ	सूबेदार	पदमदेव सिंह	01-04-82
84.	जे सी 60641 के	सूबेदार	परसू रामा राव रानाधीवे	01-07-82
85.	जे सी 68024 एच	सूबेदार	राम सिंह	01-04-82
86.	जे सी 71763 ए	सूबेदार	एस इस्वरा मूर्ति	01-02-82
87.	जे सी 80894 एम	सूबेदार	विनायकम वी	01-04-82

बिग्रेड ग्राफ बी गार्ड्स

88. जे सी 70891 एल	सूबेदार	पी यू थामस	01-06-82
--------------------	---------	------------	----------

मेकनाईकल इंफेन्ट्री रेजीमेंट

89. जे सी 78706 एफ	सूबेदार	भवर सिंह	01-08-82
90. जे सी 77454 एन	सूबेदार	ध्यान सिंह	01-07-82
91. जे सी 72165 पी	सूबेदार	हरी सिंह	01-05-82
92. जे सी 62005 एफ	सूबेदार	जोगिन्दर सिंह	01-03-82
93. जे सी 75418 के	सूबेदार	लक्ष्मी दत्त जोशी	01-05-82

बी पंजाब रेजीमेंट

94. जे सी 45881 डब्ल्यू	सूबेदार	अजीत सिंह	01-05-82
-------------------------	---------	-----------	----------

बी प्रिनेडियरस

95. जे सी 45989 एन	सूबेदार	मदन लाल	01-03-82
96. जे सी 61536 एम	सूबेदार	रसीलाल राम	01-07-82
97. जे सी 60778 एच	सूबेदार	सरदार सिंह	01-12-81

बी मराठा लाइट इन्फेन्ट्री

98. जे सी 60290 एम	सूबेदार	बजरंग कृष्णा पाटिल	01-04-82
99. जे सी 37620 एन	सूबेदार	शिवाजी पवार	01-08-82

बी राजपूताना राइफल्स

100. जे सी 66941 एन	सूबेदार	बिजे पाल सिंह	01-02-82
101. जे सी 56296 डब्ल्यू	सूबेदार	महाराज सिंह	01-08-82
102. जे सी 49491 एल	सूबेदार	माणे राम सिंह	01-08-82
103. जे सी 76507 पी	सूबेदार] (बी ड मास्टर)	राजेन्द्र सिंह	01-03-82
104. जे सी 73004 बाई	सूबेदार	राजेन्द्र सिंह	01-06-82
105. जे सी 71478 एफ	सूबेदार	राम स्वरूप	01-05-82

बी राजपूत रेजीमेंट

106. जे सी 58285 एच	सूबेदार	बाबू लाल	01-03-82
107. जे सी 56049 एच	सूबेदार	भाग मल]	01-07-82
108. जे सी 59749 एफ	सूबेदार	केशव सिंह	01-06-82
109. जे सी 46885 बाई	सूबेदार	महादेव सिंह	01-03-82

बी जाट रेजीमेंट

110. जे सी 43965 एल	सूबेदार	भगवान सिंह	01-04-82
111. जे सी 50304 एन	सूबेदार	हरलाल सिंह	01-03-82
112. जे सी 54053 एम	सूबेदार	राज सिंह	01-06-82
113. जे सी 68154 एल	सूबेदार	राम चन्द्र	01-06-82
114. जे सी 56130 पी	सूबेदार	टीकू राम	01-04-82

बी सिख रेजीमेंट

115. जे सी 76480 एच	सूबेदार	धर्म सिंह	01-02-82
116. जे सी 60271 एफ	सूबेदार	सुरजीत सिंह	01-05-82
117. जे सी 67703 एन	सूबेदार	जोरा सिंह	01-06-82

बी डोगरा रेजिमेन्ट

118. जे सी 74872 एक्स	सूबेदार	गोतम सिंह	01-02-82
119. जे सी 73711 एच	सूबेदार	खियाली राम	01-03-82

बी गढ़वाल राइफल्स

120. जे सी 55423 एन	सूबेदार	केशर सिंह रावत	01-03-82
121. जे सी 61966 डबल्यू	सूबेदार	मुखलिया सिंह रावत	01-11-81
122. जे सी 74006 डबल्यू	सूबेदार	पंचम सिंह नेगी	01-04-82
123. जे सी 63086 वाई	सूबेदार	राजे सिंह	01-04-82

बी कुमाऊ रेजिमेन्ट

124. जे सी 56498 एक्स	सूबेदार	दीवान सिंह	01-05-82
125. जे सी 59935 एक्स	सूबेदार	केदार सिंह	01-02-82
126. जे सी 74710 एम	सूबेदार	कृपाल सिंह	01-07-82

बी बिहार रेजिमेन्ट

127. जे सी 77506 वाई	सूबेदार	श्रादित्य नारायण द्विवेदी	01-08-82
128. जे सी 46082 एम	सूबेदार	इलीसस तीगा	01-07-82
129. जे सी 64640 एन	सूबेदार	सुरेश सिंह	01-03-82

बी महार रेजिमेन्ट

130. जे सी 65749 एक्स	सूबेदार	भास्कर पवार	01-05-82
131. जे सी 62725 एच	सूबेदार	भूरी सिंह	01-04-82
132. जे सी 66228 डबल्यू	सूबेदार	पुन्जाजी काम्बले	01-04-82
133. जे सी 68125 डबल्यू	सूबेदार	राम लाल	01-04-82

बी नागा रेजिमेन्ट

134. जे सी 71498 पी	सूबेदार	सियेत्ता रेंगमा	01-05-82
---------------------	---------	-----------------	----------

बी जम्मू एण्ड काश्मीर लाइट इन्फेन्ट्री

135. जे सी 337 एच	सूबेदार	लेख राज	01-07-82
136. जे सी 320 पी	सूबेदार	कादिर शेख	01-08-82

1 गोरखा राइफल्स

137. जे सी 76090 ए	सूबेदार	श्याम बहादुर थापा	01-07-82
--------------------	---------	-------------------	----------

3 गोरखा राइफल्स

138. जे सी 70004 एन	सूबेदार	दल बहादुर थापा	01-04-82
139. जे सी 72411 पी	सूबेदार	देवी राम गुग्ग	01-03-82
140. जे सी 64167 एल	सूबेदार	राम बहादुर गुग्ग	01-03-82

9 गोरखा राइफल्स

141. जे सी 67889 एच	सूबेदार	हरका बहादुर खत्री	01-07-82
---------------------	---------	-------------------	----------

अर्मी सर्विस कोर (मण्डाई)

142. जे सी 40547 एक्स	सूबेदार	अमीर हमजा मुल्ला	01-03-82
143. जे सी 29794 वाई	सूबेदार	बालन टी के	01-03-82
144. जे सी 60089 एफ	सूबेदार	बेली राम डोगरा	01-06-82
145. जे सी 57612 डबल्यू	सूबेदार	भाऊ साहेब लगमवर	01-07-82
146. जे सी 57525 एच	सूबेदार	भीम सिंह सोलंके	01-05-82

147.	जे सी 57013 डबल्यू	सूबेदार	भूपेन्द्र नाथ मित्रा	01-06-82
148.	जे सी 57617 पी	सूबेदार	बिष्णु पादा भट्टाचार्य	01-07-82
149.	जे सी 65455 के	सूबेदार	बृज मोहन टन्डन	01-03-82
150.	जे सी 60144 पी	सूबेदार	बुधी सिंह	01-07-82
151.	जे सी 59664 एल	सूबेदार	सी एच रामा राव	01-07-82
152.	जे सी 75510 एच	सूबेदार	छेदा सिंह	01-07-82
153.	जे सी 56932 बाई	सूबेदार	चीन्म सुब्बा राव	01-06-82
154.	जे सी 65469 के	सूबेदार	देब कुमार महान्ता	01-05-82
155.	जे सी 57609 डबल्यू	सूबेदार	देवेन्द्रा बिहारी	01-07-82
156.	जे सी 65471 एफ	सूबेदार	धर्मवीर सिंह	01-06-82
157.	जे सी 57635 डबल्यू	सूबेदार	जी बनर्जी	01-07-82
158.	जे सी 65461 एक्स	सूबेदार	जी बी बगिज	01-08-82
159.	जे सी 57634 पी	सूबेदार	गगाधर आई कोटियन	01-07-82
160.	जे सी 65464 एल	सूबेदार	ज्ञान चन्द	01-04-82
161.	जे सी 40554 एफ	सूबेदार	गुरदास राम	01-08-82
162.	जे सी 59643 पी	सूबेदार	हरी सिंह यादव	01-05-82
163.	जे सी 65463 एच	सूबेदार	हंशियार सिंह रावत	01-04-82
164.	जे सी 69802 एच	सूबेदार	जगदीश राम शर्मा	01-08-82
165.	जे सी 61307 एफ	सूबेदार	जयदेव सिंह	01-03-82
166.	जे सी 69793 बाई	सूबेदार	के सुन्दरन	01-08-82
167.	जे सी 69795 के	सूबेदार	के जी जोन	01-08-82
168.	जे सी 57529 बाई	सूबेदार	क्षमा शंकर सिंह	01-06-82
169.	जे सी 69792 डबल्यू	सूबेदार	कुलदीप सिंह पावला	01-08-82
170.	जे सी 59656 एम	सूबेदार	कुमारन नायर पी	01-06-82
171.	जे सी 57632 के	सूबेदार	कुन्ही रामा गुप्तान टी	01-08-82
173.	जे सी 29871 एम	सूबेदार	माधव सिंह	01-03-82
173.	जे सी 613354 बाई	सूबेदार	मनीक्कम कन्नन	01-03-82
174.	जे सी 59657 पी	सूबेदार	एन सिन्हा पानिक्कर	01-08-82
175.	जे सी 59668 एफ	सूबेदार	नडासजन पी एन	01-08-82
176.	जे सी 69794 ए	सूबेदार	नगिन्दर सिंह	01-08-82
177.	जे सी 69019 के	सूबेदार	नारायणा पिल्लै	01-04-82
178.	जे सी 65462 ए	सूबेदार	नेपाल चन्द्रा धर	01-03-82
179.	जे सी 57541 ए	सूबेदार	ओम परकाश जग्गी	01-07-82
180.	जे सी 40552 डबल्यू	सूबेदार	पी एस नायर	01-07-82
181.	जे सी 59665 एन	सूबेदार	पी एस नारायनन नायर	01-07-82
182.	जे सी 57537 के	सूबेदार	परस राम	01-06-82
183.	जे सी 59886 ए	सूबेदार	राम बहादुर	01-06-82
184.	जे सी 57539 बाई	सूबेदार	राम सिंह	01-06-82
185.	जे सी 29820 पी	सूबेदार	राम मुरत सिंह	01-08-82
186.	जे सी 57021 पी	सूबेदार	सतोख राज	01-07-82
187.	जे सी 73312 एक्स	सूबेदार	शान्ति भूषण कार	01-02-82
188.	जे सी 69801 एच	सूबेदार	शरद चन्द्रा मानेकर	01-08-82
189.	जे सी 58055 पी	सूबेदार	सोम नाथ गीगू	01-08-82
190.	जे सी 57622 ए	सूबेदार	सुब्बा राव दाबुलेरी	01-08-82
191.	जे सी 57611 एन	सूबेदार	सुर्य भान	01-07-82
192.	जे सी 57615 के	सूबेदार	टी बी पी सोमायाजुलु	01-07-82
193.	जे सी 57618 के	सूबेदार	विद्या नाथ उपाध्याय	01-07-82
194.	जे सी 40564 एल	सूबेदार	योग राज	01-05-82

ग्रामी सचिस कोर (एनिमल ट्रांसपोर्ट)

195.	जे सी 65354 डब्ल्यू	रिसालदार	भूत सिंह	01-04-82
------	---------------------	----------	----------	----------

ग्रामी सचिस कोर (मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट)

196.	जे सी 76577 एन	सूबेदार	अरुमुगम	01-04-82
197.	जे सी 75531 बाई	सूबेदार	ज्ञान सिंह	01-03-82
198.	जे सी 75854 एफ	सूबेदार	गुरदेव चन्द	01-02-82
199.	जे सी 75850 एल	सूबेदार	हरी सिंह	01-02-82
200.	जे सी 75852 डब्ल्यू	सूबेदार	हीरा सिंह	01-02-82
201.	जे सी 76572 पी	सूबेदार	किरपाल सिंह	01-04-82
202.	जे सी 78765 एन	सूबेदार	मलकियत सिंह	01-07-82
203.	जे सी 75534 एम	सूबेदार	नारायण सिंह नेगी	01-03-82
204.	जे सी 76579 बाई	सूबेदार	पी के कुन्दन्नी नंबियार	01-04-82
205.	जे सी 78019 एल	सूबेदार	राम सिंह	01-05-82
206.	जे सी 18561 एक्स	सूबेदार (ग्लिजियस टीचर)	श्री कृष्ण सेमवाल	01-07-82
207.	जे सी 76569 पी	सूबेदार	सुब्रमोनीया पिल्लै चेल्लापपन	01-03-82

ग्रामी मेडिकल कोर

208.	जे सी 77126 ए	सूबेदार	बनवारी सिंह	01-03-82
209.	जे सी 77123 एम	सूबेदार	चन्दर शेखर	01-02-82
210.	जे सी 73267 के	सूबेदार	छोटे राम	01-06-82
211.	जे सी 77839 एल	सूबेदार	देवी राम	01-07-82
217.	जे सी 54726 डब्ल्यू	सूबेदार	हरबस सिंह	01-05-82
213.	जे सी 47525 पी	सूबेदार	हस्ती राम अहलावत	01-06-82
214.	जे सी 76990 के	सूबेदार	ईश्वर प्रसाद यादव	01-04-82
215.	जे सी 55720 एफ	सूबेदार	जगदीश सिंह	01-06-82
216.	जे सी 49449 एम	सूबेदार	जगजीत सिंह	01-07-82
217.	जे सी 76971 बाई	सूबेदार	जॉन सेमुएल	01-07-82
218.	जे सी 53060 डब्ल्यू	सूबेदार	के एन मोदप्पा	01-06-82
219.	जे सी 48741 पी	सूबेदार	केसव पिल्लै	01-02-82
220.	जे सी 79368 बाई	सूबेदार	मोहम्मद सुभान	01-08-82
221.	जे सी 76997 एन	सूबेदार	नैन सिंह	01-02-82
222.	जे सी 77134 बाई	सूबेदार	नारायण सिंह	01-05-82
223.	जे सी 79370 बाई	सूबेदार	प्यारी लाल बखशी	01-08-82
224.	जे सी 77850 के	सूबेदार	राम सिंह	01-08-82
225.	जे सी 77849 डब्ल्यू	सूबेदार	राम मिहासन सिंह	01-07-82
226.	जे सी 63612 एम	सूबेदार	रत्न लाल	01-06-82
227.	जे सी 51001 एल	सूबेदार	मान्ती मरूप	01-05-82
228.	जे सी 76991 बाई	सूबेदार	सरदार सिंह	01-06-82
229.	जे सी 51613 एच	सूबेदार	सरूप चन्द आचार्य	01-02-82
230.	जे सी 77846 एफ	सूबेदार	शिओ कुमार माह	01-07-82
231.	जे सी 77841 एच	सूबेदार	सोवरन सिंह	01-07-82
232.	जे सी 49443 एल	सूबेदार	टीका राम भट्ट	01-02-82

ग्रामी आर्डिनेस कोर

233.	जे सी 68410 पी	सूबेदार	आदित्य नाथ पट्टाड़ी	01-07-82
234.	जे सी 66839 एल	सूबेदार	अविनाश चन्दर शर्मा	01-08-82
235.	जे सी 78253 एफ	सूबेदार	बलबीर सिंह	01-07-82

236.	जे सी 80568 के	सूबेदार	बलजीत सिंह	01-08-82
237.	जे सी 66830 डब्ल्यू	सूबेदार	भाईदास पाटिल	01-07-82
238.	जे सी 70592 एम	सूबेदार	दरिया सिंह	01-03-82
239.	जे सी 72185 एच	सूबेदार	दोलत सिंह	01-07-82
240.	जे सी 65711 एन	सूबेदार	धर्म सिंह सिधु	01-06-82
241.	जे सी 76620 के	सूबेदार	दुर्गा परशाद	01-02-82
242.	जे सी 65716 एम	सूबेदार	जी जगन्नाथन	01-08-82
243.	जे सी 65732 के	सूबेदार	गन्वर सिंह	01-07-82
244.	जे सी 66832 एफ	सूबेदार	हरबस सिंह मरन	01-07-82
245.	जे सी 66500 एक्स	सूबेदार	जगदीश सिंह	01-08-82
246.	जे सी 66835 पी	सूबेदार	जसवन्त सिंह	01-07-82
247.	जे सी 80563 एल	सूबेदार	जोगिन्दर सिंह	01-08-82
248.	जे सी 66841 एच	सूबेदार	के गोपालाकृष्णन नायर	01-08-82
249.	जे सी 80567 एफ	सूबेदार	कपिल देव पाठक	01-07-82
250.	जे सी 65699 एक्स	सूबेदार	कृष्णन कुमार	01-03-82
251.	जे सी 66838 एच	सूबेदार	कृष्णा देव सिंह	01-08-82
252.	जे सी 67742 एम	सूबेदार	एम एन गोपाला फिल्लै	01-08-82
253.	जे सी 66834 एम	सूबेदार	मधु सूदन मिश्रा	01-07-82
254.	जे सी 65734 पी	सूबेदार	मानिकम कन्नन	01-07-82
255.	जे सी 66833 के	सूबेदार	नारायण प्रसाद	01-07-82
256.	जे सी 64417 एफ	सूबेदार	ओम प्रकाश	01-05-82
257.	जे सी 68399 एफ	सूबेदार	पी अनन्ता पीरूमल	01-07-82
258.	जे सी 72183 एक्स	सूबेदार	पाक्षदुरग काले	01-08-82
259.	जे सी 80564 एन	सूबेदार	फोहली राम	01-08-82
260.	जे सी 68392 एक्स	सूबेदार	प्रभाष चन्द्रा मेन गुप्ता	01-08-82
261.	जे सी 67745 ए	सूबेदार	राजेन्द्र सिंह	01-08-82
262.	जे सी 66828 बाई	सूबेदार	राम दत्त सिंह	01-07-82
263.	जे सी 67746 एच	सूबेदार	राम फकीर सिंह	01-08-82
264.	जे सी 65715 के	सूबेदार	रमा मनी नाथ	01-07-82
265.	जे सी 68425 एक्स	सूबेदार	रतन सिंह	01-06-82
266.	जे सी 65714 एफ	सूबेदार	रुलिया राम कासिब	01-06-82
267.	जे सी 80678 बाई	सूबेदार	सम्राट सिंह	01-05-82
268.	जे सी 66840 ए	सूबेदार	मत पाल हाण्डा	01-08-82
269.	जे सी 80565 डब्ल्यू	सूबेदार	शाराश चन्द्र सावत	01-07-82
270.	जे सी 72794 एम	सूबेदार	मुक्ता सिंह	01-08-82
271.	जे सी 68407 पी	सूबेदार	टी सी जोर्ज	01-06-82
272.	जे सी 64406 पी	सूबेदार	तरलोचन सिंह	01-04-82
273.	जे सी 71704 एन	सूबेदार	बी रामन	01-07-82
274.	जे सी 66836 एक्स	सूबेदार	वसंत लिखर	01-07-82
275.	जे सी 66504 एन	सूबेदार	विष्णु सावत	01-06-82

कोर ग्राफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग

276.	जे सी 52655 एफ	सूबेदार	अजीत सिंह	01-02-82
277.	जे सी 57245 पी	सूबेदार	अमर सिंह हुडा	01-08-82
278.	जे सी 59142 पी	सूबेदार	अनिल कुमार दास	01-04-82
279.	जे सी 57692 बाई	सूबेदार	अोजधा प्रसाद शर्मा	01-05-82
280.	जे सी 59276 एन	सूबेदार	बाबू राम मिश्रा	01-08-82
281.	जे सी 57918 बाई	सूबेदार	वचिन्तर सिंह सैनी	01-04-82
282.	जे सी 55626 एक्स	सूबेदार	बहादुर सिंह	01-07-82

283.	जे सी 80214 एफ	सूबेदार	बख्तावर सिंह	01-08-82
284.	जे सी 57244 पी	सूबेदार	बालाकृष्णन नायर के	01-08-82
285.	जे सी 57861 पी	सूबेदार	बलबन्त सिंह	01-05-82
286.	जे सी 59562 पी	सूबेदार	भूपाल सिंह तरियाल	01-04-82
287.	जे सी 55642 पी	सूबेदार	बिनोय कुमार श्रीवास्तव	01-08-82
288.	जे सी 61093 डब्ल्यू	सूबेदार	चंचल कुमार मिश्रा	01-06-82
289.	जे सी 52688 एम	सूबेदार	चरनजीत सिंह बेदी	01-08-82
290.	जे सी 56369 एक्स	सूबेदार	छतर सिंह	01-06-82
291.	जे सी 57279 एफ	सूबेदार	ज्ञान चन्द शर्मा	01-05-82
292.	जे सी 56729 एच	सूबेदार	गुलबन्त सिंह	01-04-82
293.	जे सी 72299 एन	सूबेदार	गुरबचन सिंह	01-05-82
294.	जे सी 61506 पी	सूबेदार	हदीबन्धु प्रधान	01-07-82
295.	जे सी 70600 ए	सूबेदार	हरबन्त सिंह	01-06-82
296.	जे सी 59246 डब्ल्यू	सूबेदार	इन्द्रामन राय	01-08-82
297.	जे सी 63113 एक्स	सूबेदार	जोसफ एस्का	01-06-82
298.	जे सी 56535 ए	सूबेदार	कालीदास चक्रवर्ती	01-08-82
299.	जे सी 57240 डब्ल्यू	सूबेदार	करपाल सिंह	01-04-82
300.	जे सी 58783 पी	सूबेदार	कृपाल सिंह	01-03-82
301.	जे सी 56557 एफ	सूबेदार	कृष्ण चन्द्र जोशी	01-04-82
302.	जे सी 57788 एफ	सूबेदार	एम अन्थेनी मुथु	01-07-82
303.	जे सी 54522 के	सूबेदार	एम पी रामाचन्द्रन नायर	01-03-82
304.	जे सी 54276 के	सूबेदार	महेन्द्रा नाथ शर्मा	01-07-82
305.	जे सी 61081 एम	सूबेदार	मनिन्द्रा नाथ दास	01-05-82
306.	जे सी 57250 ए	सूबेदार	एन सिवादासन	01-07-82
307.	जे सी 59157 एक्स	सूबेदार	पी वासुदेवन	01-05-82
308.	जे सी 59567 एन	सूबेदार	पी के बरुगीस	01-08-82
309.	जे सी 53748 एच	सूबेदार	प्यारा सिंह	01-06-82
310.	जे सी 70403 एक्स	सूबेदार	राज सिंह	01-05-82
311.	जे सी 52691 एम	सूबेदार	राजेन्द्रा	01-06-82
312.	जे सी 74573 वाई	सूबेदार	राजू	01-03-82
313.	जे सी 57204 पी	सूबेदार	राम परकाश	01-04-82
314.	जे सी 74575 के	सूबेदार	राम परशाद	01-06-82
315.	जे सी 57769 डब्ल्यू	सूबेदार	राम रूप	01-07-82
316.	जे सी 65306 डब्ल्यू	सूबेदार	रामेन्द्र सिंह	01-05-82
317.	जे सी 56351 एफ	सूबेदार	राबल सिंह	01-08-82
318.	जे सी 55641 एम	सूबेदार	रुशवा चन्द्रा बिशी	01-07-82
319.	जे सी 63123 एफ	सूबेदार	शकरन नामबीस्सन एम पी	01-08-82
320.	जे सी 73167 एम	सूबेदार	सरदूल सिंह	01-06-82
321.	जे सी 57690 एन	सूबेदार	शिओ कुमार सिंह राना	01-03-82
322.	जे सी 56350 वाई	सूबेदार	शिव परशाद	01-07-82
323.	जे सी 57730 के	सूबेदार	शिव ताज सिंह	01-07-82
324.	जे सी 76726 डब्ल्यू	सूबेदार	श्री राम शर्मा	01-04-82
325.	जे सी 58772 एच	सूबेदार	तांगुडू गणपती	01-07-82
326.	जे सी 80223 एच	सूबेदार	उदय नाथ थाल	01-04-82
327.	जे सी 55639 पी	सूबेदार	वैलायुधन ए के	01-04-82
328.	जे सी 58753 एक्स	सूबेदार	विथल दिवालेकर	01-07-82
329.	जे सी 54538 पी	सूबेदार	जुलफी राम	01-08-82

ग्रामीण एंजुकेशन कोर

330. जे सी 76568 एम	सूबेदार	अनबेल सिंह	01-05-82
331. जे सी 66589 वाई	सूबेदार	अमर सिंह	01-04-82
332. जे सी 73011 पी	सूबेदार	दिगम्बर कुलकर्णी	01-06-82
333. जे सी 77201 वाई	सूबेदार	जसवंत सिंह	01-06-82
334. जे सी 76566 एफ	सूबेदार	एम सेमुअल	01-03-82
335. जे सी 76564 डब्ल्यू	सूबेदार	मोहिन्दर सिंह	01-03-82
336. जे सी 66614 एच	सूबेदार	परमेश्वरी दास	01-05-82
337. जे सी 66101 एन	सूबेदार	पीतम सिंह शर्मा	01-02-82
338. जे सी 77203 के	सूबेदार	रघुबीर सिंह यादवा	01-08-82
339. जे सी 66588 एम	सूबेदार	श्री कृष्णा मथ्रे	01-02-82
340. जे सी 76567 के	सूबेदार	विजय बहादुर सिंह	01-03-82

डी इंटेलिजेंस कोर

341 जे सी 41710 एम	सूबेदार	अमीचन्द	01-05-82
342. जे सी 43919 डब्ल्यू	सूबेदार	भीमसिंह	01-05-82
343. जे सी 67954 एम्स	सूबेदार	बिधी चन्द शर्मा	01-08-82
344. जे सी 41699 वाई	सूबेदार	गुलाम चन्द कटोच	01-04-82
345. जे सी 41695 एच	सूबेदार	के कुन्धू नायर	01-05-82
346. जे सी 62238 एच	सूबेदार	एम पद्मानाभन नामबीयार	01-07-82
347. जे सी 62452 एल	सूबेदार	उधो राम शर्मा	01-04-82

कोर आफ मिसटरी पुलिस :

348. जे सी 78117 एल	सूबेदार	जगमेर सिंह	01-05-82
---------------------	---------	------------	----------

अवैतनिक रिसालदार सूबेदार के रैंक में**मद्रास इंजीनियर ग्रुप :**

1. जे सी 73993 एम	नायब सूबेदार	एम अब्दुल रशीद	01-02-82
-------------------	--------------	----------------	----------

बंगाल इंजीनियर ग्रुप :

2. जे सी 69659 एम	नायब सूबेदार	एम प्रभाकरन	01-05-82
3. जे सी 60595 एम	नायब सूबेदार	राम मेहर	01-02-82

बाम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप :

4. जे सी 74808 ए	नायब सूबेदार	सतीश कुमार पठानिया	01-05-82
------------------	--------------	--------------------	----------

कोर आफ सिगनल्स :

5. जे सी 83240 एन	नायब सूबेदार	दल बहादुर छेली	01-04-82
-------------------	--------------	----------------	----------

5. गोरखा राइफल्स :

6. जे सी 90225 पी	नायब सूबेदार	बलिसोर थापा	01-03-82
7. जे सी 98417 एन	नायब सूबेदार	जंग बहादुर पुन	01-03-82

ग्रामी सविस कोर (सप्लाई) :

8. जे सी 57530 एन	नायब सूबेदार	पुरशोत्तम सिंह	01-07-82
-------------------	--------------	----------------	----------

ग्रामी सविस कोर (मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट) :

9. जे सी 101631 के	नायब सूबेदार	बलिनद्रा प्रसाद राय	01-04-82
10. जे सी 101583 पी	नायब सूबेदार	गुरबचन सिंह	01-07-82
11. जे सी 99758 एल	नायब सूबेदार	राजबल सिंह	01-02-82

कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इंजिनियर्स:

12. जे सी एन वाई एन 7031139ए	नायब सूबेदार	अथोनी मित्राईल	01-02-82
13. जे सी 91576एच	नायब सूबेदार	केसवन के एम	01-02-82
14. जे सी 84699एम	नायब सूबेदार	कृष्णा नन्दन सिंह	01-08-82
15. जे सी एन वाई ए 7038232 के	नायब सूबेदार	मंगला राम	01-04-82
16. जे सी 96077 एक्स	नायब सूबेदार	सुनील कुमार साहा	01-12-81

No. 9 E dated 11th August, 1982. The President is pleased to grant honorary ranks to the undermentioned JCOs on retirement under para 180 of Regulations for the Army, 1962, with effect from the dates shown against their names:—

TO BE HONORARY CAPTAINS**8 CAVALRY**

1. JC 70284M	RIS & HONY LT	SARMUKH SINGH	01-08-82
--------------	---------------	---------------	----------

1 HORSE

2. JC 43698P	RIS & HONY LT	JANGBIR SINGH	01-04-82
3. JC 73528A	RIS & HONY LT	PHOOL SINGH BHAKAR	01-07-82

4 HORSE

4. JC 62000H	RIS MAJ & HONY LT	SARWAN SINGH	01-02-82
--------------	-------------------	--------------	----------

20 LANCERS

5. JC 67428N	RIS & HONY LT	MATA DIN	01-07-82
--------------	---------------	----------	----------

64 CAVALRY

6. JC 65213F	RIS & HONY LT	CHAIN SINGH	01-05-82
7. JC 77937L	RIS & HONY LT	GURBACHAN SINGH	01-05-82

65 ARMoured REGIMENT

8. JC 44720F	RIS MAJ & HONY LT	BAJRANG SINGH	01-08-82
--------------	-------------------	---------------	----------

8 ARMoured REGIMENT

9. JC 54771H	RIS & HONY LT	RAM CHANDER SINGH	01-08-82
--------------	---------------	-------------------	----------

84 ARMoured REGIMENT

10. JC 70204K	RIS & HONY LT	SURAJNATH SINGH	01-08-82
---------------	---------------	-----------------	----------

89 ARMoured REGIMENT

11. JC 63877K	RIS & HONY LT	GURCHARAN SINGH	01-05-82
---------------	---------------	-----------------	----------

90 ARMoured REGIMENT

12. JC 72852L	RIS & HONY LT	SHER SINGH	01-03-82
---------------	---------------	------------	----------

ARMoured CORPS

13. JC 87016Y	RIS & HONY LT	ATMA SINGH	01-04-82
14. JC 87817A	RIS & HONY LT	HARI CHAND	01-02-82
15. JC 79786W	RIS & HONY LT	PRITAM SINGH	01-03-82

REGIMENT OF ARTILLERY

16. JC 24265H	SUB MAJ & HONY LT	A KESAVAN	01-06-82
17. JC 42985M	"	JAGDISH SINGH	01-07-82
18. JC 45424H	"	K APPUKUTTAN NAIR	01-06-82
19. JC 45483P	"	LAKHI RAM	01-02-82
20. JC 25868L	"	MB PONNAPPA	01-08-82
21. JC 33299X	"	PERIYASWAMY	01-08-82
22. JC 32797X	"	SHISHPAL SINGH	01-05-82
23. JC 25794F	"	SIS RAM	01-08-82

24. JC 66735K	SUB & HONY LT	A KRISHNA MURTHY	01-08-82
25. JC 73421L	"	AVTAR SINGH	01-02-82
26. JC 73552W	"	AVTAR SINGH	01-04-82
27. JC 76283A	"	BIKRAM SINGH	01-08-82
28. JC 74764W	"	BRAHMDEO SINGH	01-04-82
29. JC 74324A	"	DHARAM PAL	01-08-82
30. JC 76860F	"	EK RAMAKRISHNA PILLAI	01-05-82
31. JC 60358H	"	HAKAM SINGH	01-02-82
32. JC 73550L	"	JAL SINGH	01-05-82
33. JC 72595Y	"	KANWAR SINGH	01-04-82
34. JC 78420M	"	KARNAIL SINGH	01-05-82
35. JC 72155L	"	KEWAL SINGH	01-06-82
36. JC 62580H	"	KISHAN SINGH	01-07-82
37. JC 74797Y	"	M AROKIA SWAMY	01-07-82
38. JC 66808L	"	MV JOSEPH	01-03-82
39. JC 62827Y	"	MOHAN SINGH	01-03-82
40. JC 64135H	"	NADANDA K UTHAPPA	01-06-82
41. JC 62122M	"	ONKAR SINGH KATOCH	01-04-82
42. JC 73648Y	"	PV GANGADHARAN	01-04-82
43. JC 69721P	"	RAM CHANDER	01-08-82
44. JC 51298X	"	RAM KAWAR	01-06-82
45. JC 72086A	"	TA ACHUTHAN	01-04-82
46. JC 78217W	"	UDAI BIR SINGH	01-08-82
47. JC 70809L	"	VASUDEVAN KC	01-02-82

MADRAS ENGINEER GROUP

48. JC 34258A	SUB MAJ & HONY LT	KUPPUSWAMY, VSM	01-02-82
49. JC 34369X	"	SADIMOOLAM	01-08-82
50. JC 19639K	"	T MARKANDAN	01-03-82
51. JC 66208H	SUB & HONY LT	DAMODARAM	01-04-82
52. JC 57349W	"	KK UNNI NAIR	01-03-82

BENGAL ENGINEERING GROUP

53. JC 36123X	SUB MAJ & HONY LT	GAJJAN SINGH	01-04-82
54. JC 51798P	"	INDRADEO PANDEY	01-07-82
55. JC 44540Y	"	MALDEV SINGH	01-03-82
56. JC 45260X	"	NARENDRA SINGH ASWAL	01-08-82
57. JC 26500P	"	R BALAKRISHNAN NAIR	01-06-82
58. JC 46068A	"	RAM PRAKASH SINGH	01-07-82
59. JC 38076K	"	SUKHDEV SINGH	01-04-82
60. JC 74841X	SUB & HONY LT	ANAND SINGH RAWAT	01-05-82
61. JC 69568K	"	CHANNAN SINGH	01-03-82
62. JC 70775H	"	DEWAN SINGH	01-03-82
63. JC 48177L	"	DINA NATH	01-07-82
64. JC 59774A	"	GAJINDRA SINGH BHANDARI	01-05-82
65. JC 74830L	"	GOPAL DASS	01-08-82
66. JC 61668A	"	GURDEV SINGH	01-04-82
67. JC 66745N	"	GURNAM SINGH	01-06-82
68. JC 51838L	"	HARI SINGH	01-06-82
69. JC 75369M	"	PREM SINGH	01-04-82
70. JC 74444Y	"	RAM KANWAR	01-02-82
71. JC 74633H	"	SHAMSHER SINGH	01-06-82
72. JC 74636W	"	SHIB CHARAN	01-04-82
73. JC 69967N	"	SHIV RATTAN	01-03-82
74. JC 55493M	"	SURJIT SINGH	01-06-82

BOMBAY ENGINEER GROUP

75. JC 33696W	SUB MAJ & HONY LT	SHAIKH USUF UDDIN	01-03-82
76. JC 70867P	SUB & HONY LT	BABU MAHABDI	01-06-82
77. JC 47685L	"	BALDEV SINGH	01-06-82
78. JC 70942N	"	DIWAN SINGH	01-04-82
79. JC 72880X	"	GANPATI TIBILE	01-02-82
80. JC 47670M	"	GURDIAL SINGH	01-04-82
81. JC 48537W	"	MALKIAT SINGH	01-02-82
82. JC 66305A	"	MOHINDER SINGH	01-02-82
83. JC 70933M	"	PRITAM SINGH	01-04-82

CORPS OF SIGNALS

84. JC 42056N	SUB MAJ & HONY LT	BACHITTAR SINGH	01-08-82
85. JC 60214A	"	GUMAN SINGH	01-08-82
86. JC 48216Y	"	GURBACHAN SINGH	01-03-82
87. JC 56174M	"	HANS RAJ SINGH	01-03-82
88. JC 37293N	"	JAGJIT SINGH	01-05-82
89. JC 30289H	"	JAGTAR SINGH	01-05-82
90. JC 64737W	"	KEHAR SINGH	01-02-82
91. JC 42054H	"	MAN SINGH	01-02-82
92. JC 52796W	"	MASSA SINGH	01-08-82
93. JC 36786H	"	MUKHTIAR SINGH	01-02-82
94. JC 48212H	"	PARTAP SINGH	01-02-82
95. JC 52141K	"	R GOPALA PILLAI	01-04-82
96. JC 52770F	"	RR RAJPUT	01-02-82
97. JC 53204N	"	RAM PARKASH	01-02-82
98. JC 60212P	"	SATYA SWARUP SINGH	01-08-82
99. JC 48218K	"	UPENDRO APATO	01-05-82
100. JC 71155Y	"	BIDHI CHAND	01-04-82
101. JC 72937F	"	DHANI RAM SHARMA	01-08-82
102. JC 71157K	"	HAWA SINGH	01-06-82
103. JC 55146N	SUB & HONY LT	JANAK RAJ	01-02-82
104. JC 74052L	"	O VISWAMBHARAN	01-06-82
105. JC 71190F	"	SUSHIL RANJAN GHOSH	01-06-82

BRIGADE OF THE GUARDS

106. JC 67538N	SUB & HONY LT	CHARANJI LAL	01-06-82
107. JC 58605M	"	KHAZAN SINGH	01-08-82
108. JC 68522P	"	MANGAL SINGH	01-04-82
109. JC 66204M	"	MUNSHI RAM	01-04-82
110. JC 81185K	"	RAM PRASHAD SHARMA	01-06-82

THP PARACHUTE REGIMENT

111. JC 30750N	SUB MAJ & HONY LT	BISHAN SINGH	01-05-82
112. JC 24782A		CHANDAN SINGH RAWAT	01-02-82
113. JC 47096Y		RAM AUDH PANDEY	01-07-82
114. JC 45866F	SUB & HONY LT	MANI RAM	01-06-82

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

115. JC 42168N	SUB & HONY LT	AMAR NATH	01-04-82
116. JC 59941L	"	MANI RAM	01-06-82
117. JC 37305X	"	MULK RAJ	01-04-82
118. JC 37301F	"	NAGINDER SINGH	01-04-82
119. JC 36138A	"	SHRE RAM PATHAK	01-03-82
120. JC 18422N	"	SHUSHPAL SINGH	01-06-82
121. JC 62959M	SUB & HONY LT	GOVARDHAN GURUNG	01-03-82
122. JC 63796W	"	KHEM SINGH	01-03-82
123. JC 75381N	"	MADAN SINGH RAWAT	01-04-82
124. JC 74875L	"	PREM CHAND	01-08-82
125. JC 47056X	"	RAMESH CHANDRA PANDEY	01-04-82
126. JC 66984H	"	RIKHI RAM ATTRI	01-02-82

THE PUNJAB REGIMENT

127. JC 40425F	SUB MAJ & HONY LT	SHANGARA SINGH	01-06-82
128. JC 54003F	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH	01-03-82
129. JC 66040F	"	DARSHAN SINGH	01-05-82
130. JC 58536F	"	GOBARDHAN CHAND KATOCH	01-08-82
131. JC 47587P	"	PARTAP SINGH	01-06-82
132. JC 46611N	"	SHER SINGH	01-03-82
133. JC 53873M	"	SHER SINGH	01-05-82
134. JC 50166X	"	SUDARSHAN KUMAR	01-07-82

THE MADRAS REGIMENT

135. JC 17167A	SUB MAJ & HONY LT	P BALARAMAN NAMBIAR	01-02-82
136. JC 38592Y	"	T GOPAL KRISHNA	01-07-82
137. JC 51149K	SUB & HONY LT	KUMARAN EZHUTHACHAN	01-06-82
138. JC 49287M	"	M SANKARAN NAIR	01-04-82
139. JC 65860F	"	TM DANIEL	01-07-82
140. JC 46490X	"	VICTOR DAVID	01-07-82

THE GRENADIERS

141. JC 47339Y	SUB MAJ & HONY LT	INDER SINGH	01-08-82
142. JC 16 09K	"	MOHAN RAM	01-06-82
143. JC 46588L	"	RANDHIR SINGH	01-06-82
144. JC 48170F	SUB & HONY LT	AJI RAM	01-03-82
145. JC 68129N	"	BUDH RAM	01-08-82
146. JC 50006X	"	CHUNI LAL	01-07-82
147. JC 36186A	"	RAMU LAL	01-02-82

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

148. JC 26582H	SUB MAJ & HONY LT	PANDURANG MANE	01-02-82
149. JC 32999Y	"	RAMCHANDRA JAGDALE	01-07-82
150. JC 39054X	"	YOGRAJ THAKRE	01-06-82
151. JC 44023F	SUB & HONY LT	GANPATI PANDURANG NAKIL	01-03-82
152. JC 54721X	"	SHRIRANG NIKAM	01-04-82

THE RAJPUTANA RIFLES

153. JC 49580K	SUB MAJ & HONY LT	KUNDAN SINGH RATHORE	01-04-82
154. JC 45725M	"	MAN SINGH	01-08-82
155. JC 24438P	"	RAGHBIR SINGH	01-07-82
156. JC 60302W	"	RANBIR SINGH	01-08-82
157. JC 48030P	SUB MAJ & HONY LT (RELIGIOUS TEACHER)	SAYED AKRAM WARIS ABDI	01-07-82
158. JC 78575F	SUB & HONY LT	GAJE SINGH	01-07-82
159. JC 73003W	"	GAYA SINGH	01-02-82
160. JC 68142W	"	HOSHIAR SINGH	01-08-82
161. JC 56391H	"	MITTHAN SINGH	01-04-82
162. JC 50573M	"	PHOOL SINGH	01-02-82
163. JC 78384M	"	PHUL SINGH RAM	01-08-82
164. JC 61928A	"	RAM AJTAR GUPTA	01-04-82
165. JC 70900F	"	RAMCHANDER RAM	01-05-82
166. JC 65328P	"	RUP SINGH	01-04-82
167. JC 49299F	"	TIRTHRAJ SINGH	01-02-82

THE RAJPUT REGIMENT

168. JC 36026A	SUB MAJ & HONY LT	RATI RAM	01-08-82
169. JC 20903Y	"	OMRAO SINGH	01-07-82
170. JC 54384N	SUB & HONY LT	AMAR SINGH	01-02-82
171. JC 50124L	"	BHAGWAN SAHAI	01-02-82
172. JC 55836X	"	DALLE RAM	01-08-82
173. JC 71525N	"	DIWAN SINGH GARIA	01-04-82
174. JC 59239A	"	HARI SINGH	01-02-82
175. JC 46345A	"	KARAN SINGH	01-03-82
176. JC 68937K	"	KAUSHAL PRATAP SINGH	01-08-82
177. JC 45634H	"	PANCHA NAND SINGH	01-06-82
178. JC 56408L	"	RAM DAS SINGH	01-08-82
179. JC 35529Y	"	RUP LAL	01-07-82
180. JC 77484L	"	SHITAL SINGH	01-08-82
181. JC 58685P	"	VIRENDRA SINGH	01-06-82

THE JAT REGIMENT

182. JC 37771M	SUB MAJ & HONY LT	DALIP SINGH	01-05-82
183. JC 55481X	SUB & HONY LT	BIRDHI CHAND	01-08-82
184. JC 73680N	"	DAYA RAM	01-08-82
185. JC 63804K	"	HET RAM	01-02-82
186. JC 68502F	"	JAWAHAR SINGH	01-03-82
187. JC 58168H	"	KARAN SINGH	01-02-82
188. JC 77486W	"	NAHAR SINGH	01-04-82
189. JC 68503K	"	NARAYAN SINGH	01-08-82
190. JC 55945K	"	RUP CHAND	01-06-82
191. JC 68447W	"	SAMAY SINGH	01-06-82
192. JC 66990W	"	SURAJ MAL	01-08-82
193. JC 61878A	"	TEJ RAM	01-06-82

THE SIKH REGIMENT

194. JC 20152H	SUB MAJ & HONY LT	DARSHAN SINGH	01-06-82
195. JC 35895H	"	HARBANS SINGH	01-08-82
196. JC 51230W	"	KARNAIL SINGH	01-06-82
197. JC 35882L	"	MOHINDAR SINGH	01-06-82
198. JC 34746H	"	MOHINDER SINGH	01-07-82
199. JC 44373N	"	SARWAN SINGH	01-06-82
200. JC 72517F	SUB & HONY LT	DARSHAN SINGH	01-06-82
201. JC 54852H	"	DEVENDAR SINGH	01-07-82
202. JC 50322W	"	JAGAT SINGH	01-03-82
203. JC 76479N	"	SUKHDEV SINGH	01-08-82
204. JC 69030H	"	TEJA SINGH	01-06-82

THE SIKH LIGHT INFANTRY

205. JC 29464A	SUB MAJ & HONY LT	BAKSHISH SINGH	01-08-82
206. JC 42489L	"	NASIB SINGH	01-06-82
207. JC 44937L	"	PERSA SINGH	01-03-82
208. JC 36548W	"	PRITAM SINGH	01-05-82
209. JC 50138L	SUB & HONY LT	CHANAN SINGH	01-08-82
210. JC 74669Y	"	CHAND SINGH	01-04-82
211. JC 51724A	"	GURBACHAN SINGH	01-02-82
212. JC 38611Y	"	HARDIAL SINGH	01-08-82

THE DOGRA REGIMENT

213. JC 29020W	SUB MAJ & HONY LT	LAIK CHAND KATOCH	01-07-82
214. JC 72998Y	SUB & HONY LT	HARI SINGH	01-04-82
215. JC 74407L	"	INDER SINGH	01-04-82
216. JC 64662K	SUB & HONY LT	KAHAN SINGH	01-08-82
217. JC 77611P	"	KHIALI RAM	01-08-82
218. JC 71488L	"	PIAR SINGH	01-02-82

THE GARHWAL RIFLES

219. JC 35593W	SUB MAJ & HONY LT	BACHI RAM PUROHIT	01-05-82
220. JC 41390H	"	CHANDAR SINGH RANA	01-08-82
221. JC 78569N	SUB & HONY LT	GABAR SINGH RAWAT	01-08-82
222. JC 55043P	"	GANGA RAM BINJOLA	01-03-82
223. JC 65195K	"	HARI DATT DHAUNDIYAL	01-05-82
224. JC 64036A	"	JHABAN LAL LINGWAL	01-03-82
225. JC 74005N	"	KISHORI LAL	01-08-82
226. JC 62410Y	"	KUNWAR SINGH BHANDARI	01-06-82
227. JC 84221P	"	RAJESHWAR PRASAD DHASMANA	01-03-82
228. JC 63692P	"	SACHIDA NAND BADOLA	01-03-82

THE KUMAON REGIMENT

229. JC 35504M	SUB MAJ & HONY LT	RAM KUMAR	01-04-82
230. JC 39283H	SUB & HONY LT	AGYA RAM	01-03-82
231. JC 51236X	"	BALBIR SINGH	01-02-82
232. JC 45028M	"	BALBIR SINGH YADAV	01-07-82
233. JC 57677K	"	DAMODAR JOSHI	01-03-82
234. JC 70239A	"	DEWAN SINGH	01-08-82
235. JC 74404X	"	HARISH CHANDRA PANT	01-06-82
236. JC 78493M	"	HAYAT SINGH	01-02-82
237. JC 78465M	"	JAI NARAIN	01-04-82
238. JC 51215F	"	PARTAP CHAND	01-06-82
239. JC 75046K	"	PREM SINGH	01-06-82
240. JC 74400P	"	PURNA NAND	01-06-82
241. JC 74401K	"	PUSHKAR SINGH	01-06-82
242. JC 68263X	"	SOHAN LAL	01-08-82

THE ASSAM REGIMENT

243. JC 55899A	SUB MAJ & HONY LT	JUGADHAR BARUAH	01-05-82
244. JC 45144P	"	MANGKHOHEN VAIPHEI	01-08-82
245. JC 42362H	"	THANGKHOSAT HMAR	01-02-82
246. JC 32958P	"	TLUANGA	01-02-82

THE BIHAR REGIMENT

247. JC 29646N	SUB MAJ & HONY LT	JADUNATH SINGH YADAVA	01-02-82
248. JC 54916H	"	MANAI GAGRAI	01-06-82
249. JC 31342P	"	MARSHEL BHENGRA	01-08-82
250. JC 31630F	"	RAM PUKAR SINGH	01-02-82
251. JC 48416P	"	TRINATH BHOLA	01-08-82
252. JC 63771K	SUB & HONY LT	PATRIC KUJUR	01-06-82
253. JC 56158P	"	RAM RASIKA SINGH	01-03-82

THE MAHAR REGIMENT

254. JC 60315N	SUB & HONY LT	BABU BANSODE	01-07-82
255. JC 71587N	"	MOHAN SINGH	01-08-82
256. JC 61886Y	"	TARLOK NATH	01-03-82

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

257. JC 33074P	SUB MAJ & HONY LT	HANS RAJ	01-05-82
258. JC 27819F	"	HARNAM SINGH	01-04-82
259. JC 44218M	"	JANMEZ SINGH	01-04-82
260. JC 1668F	SUB MAJ & HONY LT	RATTAN SINGH	01-02-82
261. JC 59925N	SUB & HONY LT	KHAJOOR SINGH	01-07-82

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

262. JC 62A	SUB MAJ & HONY LT	JANAK SINGH	01-06-82
263. JC 208H	"	TRILOKI NATH KAUL	01-05-82
264. JC 209L	SUB & HONY LT	GIRDHARI LAL	01-04-82

1 GORKHA RIFLES

265. JC 53450Y	SUB MAJ & HONY LT	KEWAL KRISHAN KAPUR	01-06-82
266. JC 41944W	"	TIKA RAM RANA	01-08-82
267. JC 64177P	SUB & HONY LT	DAYA RAM THAPA	01-02-82
268. JC 51091X	"	DHURUB SINGH THAPA	01-05-82

3 GORKHA RIFLES

269. JC 44123M	SUB MAJ & HONY LT	JAGAT BAHADUR THAPA	01-05-82
270. JC 28810Y	"	MAN SINGH GURUNG	01-06-82

5 GORKHA RIFLES

271. JC 44275N	SUB MAJ & HONY LT	TEK BAHADUR GURUNG	01-02-82
272. JC 68487X	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH THAPA	01-07-82

8 GORKHA RIFLES

273. JC 53941P	SUB MAJ & HONY LT	GUMAN SINGH GURUNG	01-08-82
274. JC 44875W	"	SAHABIR THAPA	01-05-82
275. JC 37358W	"	TEK BAHADUR GURUNG	01-07-82
276. JC 67329W	SUB & HONY LT	GHANBIR GURUNG	01-02-82
277. JC 77511K	"	TEK BAHADUR GURUNG	01-02-82
278. JC 56950F	"	TEK BAHADUR GURUNG	01-07-82

9 GORKHA RIFLES

279. JC 58028L	SUB MAJ & HONY LT	GUSHIAN SINGH DHANIK	01-02-82
280. JC 49067H	"	KHARKA BAHADUR SAHI	01-07-82
281. JC 39978L	"	KHARKA BAHADUR SAHI	01-06-82

11 GORKHA RIFLES

282. JC 44964P	SUB MAJ & HONY LT	BAKHAT BAHADUR LIMBU	01-05-82
283. JC 40750F	"	RATNA PRASAD DEWAN	01-05-82

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

284. JC 21981H	SUB MAJ & HONY LT	BHAGAT RAM	01-05-82
285. JC 50285N	"	CHANDER PARKASH	01-02-82
286. JC 21954Y	"	JAMNA DASS	01-06-82
287. JC 26846Y	"	NABIN CHANDRA	01-02-82
288. JC 51273L	"	PRITHWISWOR	01-07-82
		CHAKRABORTY	

289.	JC 51270X	SUB & HONY LT	RAJINDER PAL MOHAN	01-02-82
290.	JC 26837X	"	RAM NARAIN SINGH	01-08-82
291.	JC 26848K	"	TRILOK SINGH	01-02-82
292.	JC 51382X	"	VG GEORGE	01-05-82
293.	JC 69796M	"	ATMA RAM NAWLE	01-08-82
294.	JC 68853W	"	BALWANT SINGH	01-05-82
295.	JC 65467Y	"	CHANDER BALLI SINGH	01-05-82
296.	JC 57015F	"	DHIAN SINGH	01-06-82
297.	JC 73303W	"	GAURI SINGH	01-08-82
298.	JC 50637A	"	GOKULA NAND BHATT	01-08-82
299.	JC 69799A	"	GURNAM SINGH LOTAY	01-08-82
300.	JC 57008L	"	HARMESH LAL	01-05-82
301.	JC 65456M	"	ISHAR SINGH	01-03-82
302.	JC 29823H	"	K KUNHI KRISHNA KURUP	01-02-82
303.	JC 65457P	"	KAMALA PROSAD PANIGRAHI	01-03-82
304.	JC 47485Y	"	KESAR SINGH SHAHI	01-05-82
305.	JC 40562A	"	MEHNGA RAM	01-03-82
306.	JC 68797H	"	MUKHTIAR SINGH	01-06-82
307.	JC 63534A	"	OM PARKASH	01-03-82
308.	JC 59629H	"	P PATTABHI RAMAIAH	01-03-82
309.	JC 61348L	"	PS GOPALAN	01-02-82
310.	JC 69797P	"	PV KUNHI RAMAN NAMBIAR	01-08-82
311.	JC 57608N	"	RABINDRA CHANDRA DUTTA ROY	01-07-82
312.	JC 65459A	"	RAM JANAM SINGH	01-03-82
313.	JC 75513W	"	RAM KISHAN SINGH	01-08-82
314.	JC 59667Y	"	RAM SINGH	01-08-82
315.	JC 57626W	"	SHAM RAO SALUNKHE	01-08-82
316.	JC 69017F	"	SHAM SUNDER	01-06-82
317.	JC 69798X	"	SUJIT KUMAR GHOSH	01-08-82
318.	JC 69791H	"	UTTAM SINGH	01-07-82

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

319.	JC 34938A	RIS MAJ & HONY LT	DHARAM SINGH	01-05-82
320.	JC 17873F	"	PADMA LATT	01-03-82
321.	JC 17741N	"	URBA DATT	01-04-82

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

322.	JC 42022A	SUB MAJ & HONY LT	CHARAN SINGH	01-02-82
323.	JC 42023H	"	CHUNI LALL	01-03-82
324.	JC 43364A	"	JAGANATHAN	01-08-82
325.	JC 41854P	"	LABH SINGH	01-05-82
326.	JC 42671L	"	MAHA SINGH	01-06-82
327.	JC 43468F	"	MOHAN SINGH NEGI	01-02-82
328.	JC 41847Y	"	MOHINDER SINGH SAROHI	01-05-82
329.	JC 42028F	"	PARTAP SINGH	01-07-82
330.	JC 43355Y	"	SARUP SINGH	01-07-82
331.	JC 43354W	"	TARSEEM SINGH	01-07-82
332.	JC 43510P	"	VALANPARAMBIL PADMANABHA PILLAI BALAKRISHNAN NAIR	01-07-82
333.	JC 41877A	"	VASUDEVAN	01-08-82
334.	JC 43359P	"	WALAITI LAL	01-08-82
335.	JC 75519X	SUB & HONY LT	ARULAND	01-02-82
336.	JC 75853F	"	BANI SINGH	01-02-82
337.	JC 78027K	"	CHET RAM	01-05-82
338.	JC 75529F	"	HARI SINGH	01-03-82
339.	JC 75528Y	"	ISHWAR SINGH	01-03-82
340.	JC 75518P	"	JASWANT SINGH	01-02-82
341.	JC 75535P	"	JOGINDER SINGH	01-03-82
342.	JC 75530W	"	KISHORI LAL	01-03-82
343.	JC 75521P	"	MUNI PANDEY	01-02-82
344.	JC 76570F	"	OM PARKASH	01-03-82
345.	JC 75520M	"	RAGHIBIR SINGH	01-02-82
346.	JC 78016X	"	RAM NATH	01-06-82
347.	JC 75524H	"	RATTI RAM	01-02-82
348.	JC 76573X	"	ROSHAN LAL SHARMA	01-04-82

ARMY MEDICAL CORPS

349. JC 45692 M	SUB & HONY LT	DINESHWAR SINGH	01-05-87
350. JC 77124P	"	PRATAP SINGH RAWAT	01-02-82

ARMY ORDNANCE CORPS

351. JC 65733M	"	AJAMODDIN BHALDAR	01-07-82
352. JC 76619P	"	AMAR SINGH	01-02-82
353. JC 68404A	"	CHANDRA SHEKHAR TEWARI	01-02-82
354. JC 67764L	"	DURGA DATT JOSHI	01-04-82
355. JC 65710L	"	HARIHAR PRASAD	01-06-82
356. JC 65696K	"	JANENDRA CHANDRA DHAR	01-03-82
357. JC 64416Y	"	KALI SAHAI TIWARI	01-05-82
358. JC 66831Y	"	MANISH BHUSHAN DAS	01-07-82
359. JC 66827W	"	MOHD SHABEER ALI KHAN	01-06-82
360. JC 70593P	"	PALTU RAM	01-04-82
361. JC 67743P	"	SADASHIV VINAYAK MUNGALE	01-08-82
362. JC 66837A	"	SHISH PAL SINGH	01-08-82
363. JC 76609L	"	SHYAM NARAIN CHAUBE	01-07-82
364. JC 78262H	"	SINTAN SINGH DASS	01-05-82
365. JC 69332P	"	SUBRATA CHOWDHURY	01-02-82

CORPSE OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

366. JC 54546N	SUB MAJ & HONY LT	AN MOHAN	01-06-82
367. JC 33889W	"	DWARKA PRASAD GUPTA	01-07-82
368. JC 33891N	"	GURDIAL SINGH	01-07-82
369. JC 33920X	"	JASWANT SINGH	01-08-82
370. JC 36305L	"	KAPAL DEO	01-08-82
371. JC 52930W	"	M TIYAGARAJU	01-07-82
372. JC 54580N	"	MOHAN LAL	01-08-82
373. JC 33918A	"	SURAJMAL	01-08-82
374. JC 46439X	"	WARYAM SINGH	01-06-82
375. JC 46685H	"	ZILE SINGH JOON	01-05-82
376. JC 56601X	SUB & HONY LT	AMARJIT SINGH	01-03-82
377. JC 76727Y	"	ANANT TENI	01-04-82
378. JC 56544F	"	BAKSHISH SINGH	01-04-82
379. JC 69375K	"	CP KUNHIRAMAN NAMBIAR	01-08-82
380. JC 52917M	"	DHARAM CHAND	01-04-82
381. JC 56558F	"	DHRUBA CHARAN OJHA	01-03-82
382. JC 56368P	"	HANUMAN SINGH JODHA	01-04-82
383. JC 65133K	"	HUKAM CHAND	01-07-82
384. JC 54277M	"	PARTAP SINGH	01-07-82
385. JC 56359N	"	RAM DHAR DUBE	01-08-82
386. JC 70719K	"	RAM DHARI	01-06-82
387. JC 74578X	"	RAM KRISHAN SINGH	01-08-82
388. JC 56533P	"	RAM PRASAD DUBEY	01-06-82
389. JC 63115H	"	S KRISHNAKARNAVAR	01-06-82
390. JC 72293M	"	SATWANT SINGH	01-04-82
391. JC 63137F	"	SHRIRAM KHEDKAR	01-06-82
392. JC 63130X	"	VC PHILIP	01-08-82
393. JC 52425N	"	VAS DEV	01-03-82
394. JC 58818A	"	VIDYA SAGAR DOGRA	01-08-82

ARMY EDUCATION CORPS

395. JC 47134K	SUB MAJ & HONY LT	GANESH PRASHAD PATEL	01-03-82
396. JC 21325F	"	LAL CHAND SETHI	01-05-82
397. JC 21314P	"	RATTAN SINGH GIANI	01-04-82
398. JC 31171N	"	SOMA RAM KAPUR	01-06-82
399. JC 21318L	"	UMRAO SINGH THAKUR	01-05-82
400. JC 76920L	SUB & HONY LT	AJIT SINGH	01-05-82
401. JC 66589P	"	ATTAR SINGH	01-03-82
402. JC 77204M	"	AVTAR SINGH NIJJAR	01-08-82
403. JC 74385X	"	CHANDER DUTT SHARMA	01-04-82
404. JC 73084F	"	GURMIT SINGH	01-08-82

405. JC 66098Y	SUB & HONY LT	JAG RAM	01-02-82
406. JC 66592P	"	KISHAN SINGH	01-08-82
407. JC 66593X	"	PHOOL SINGH	01-05-82
408. JC 66100L	"	RAM BABOO PANDEY	01-02-82
409. JC 76563N	"	RAM BIR SINGH GAUR	01-03-82
410. JC 73656X	"	RAM PARKASH SANDHIR	01-05-82
411. JC 66605F	"	SHANKAR SINGH	01-08-82
412. JC 77208H	"	SUKHCHAIN SINGH	01-08-82
REMOUNT & VETERINARY CORPS			
413. RV 7190A	RIS MAJ & HONY LT	ASHA NANDAN SINGH	01-06-82
THE INTELLIGENCE CORPS			
414. JC 68770L	SUB & HONY LT	BALJIT SINGH	01-03-82
415. JC 62443K	"	K KANAKARAJU	01-04-82
416. JC 44453L	"	KULDIP SINGH	01-08-82
417. JC 41696L	"	SHER SINGH KARKI	01-08-82
418. JC 43921N	"	VEDANAYAGAM	01-03-82
CORPS OF MILITARY POLICE			
419. JC 78115A	"	CHITRA MANI BHATT	01-08-82
DEFENCE SECURITY CORPS			
420. JC 8535	SUB & MAJ HONY LT	AVTAR SINGH	01-05-82
421. JC 76380	"	SASHI RAM	01-05-82
422. JC 58891	"	TG YOHANNAN	01-06-82
423. JC 77550	SUB & HONY LT	L KIRUPACHARAN	01-02-82
TO BE HONORARY LIEUTENANTS			
THE PRESIDENT'S BODYGUARD			
1. JC 50586X	RIS MAJ	GURPARSHAD SHARMA	01-06-82
REGIMENT OF ARTILLERY			
2. JC 14479L	SUB MAJ (RELIGIOUS TEACHER)	BODH RAJ	01-02-82
BENGAL ENGINEER GROUP			
3. JC 26794N	SUB MAJ	AR RAMASWAMY	01-04-82
4. JC 60270Y	SUB MAJ	BAIKUNTH NATH	01-07-82
CORPS OF SIGNALS			
5. JC 40761N	SUB MAJ	AJAIB SINGH	01-03-82
6. JC 48228N	SUB MAJ	GALDEV SINGH	01-05-82
7. JC 48220Y	SUB MAJ	KAMTA SINGH	01-05-82
THE DOGRA REGIMENT			
8. JC 37819P	SUB MAJ	DUNI CHAND	01-07-82
THE MAHAR REGIMENT			
9. JC 30656K	SUB MAJ	BASANT BAGDE	01-08-82
ARMY MEDICAL CORPS			
10. JC 54473M	SUB MAJ	BHUJANG RAO VYANKAT RAO JADHAV	01-08-82
11. JC 45219F	SUB MAJ	SIRI RAM SHARMA	01-04-82
ARMY EDUCATION CORPS			
12. JC 34150H	SUB MAJ	MAN MOHAN NATH DHAR	01-06-82
HONORARY RISALDAR/SUBEDAR MAJORS			
14 HORSE			
1. JC 78986A	RIS	HARJIT SINGH	01-07-82
2. JC 75931L	RIS	SARWAN SINGH	01-07-82

3 CAVALRY			
3. JC 78211P	RIS	HARNEK SINGH	01-03-82
4 HORSE			
4. JC 67412H	RIS	PRITAM SINGH	01-07-82
CENTRAL INDIA HORSE			
5. JC 72611L	RIS	RAMCHANDER SINGH	01-05-82
70 ARMoured REGIMENT			
6. JC 72971A	RIS	GURNAM SINGH	01-07-82
73 ARMoured REGIMENT			
7. JC 57765A	RIS	NAITERPAL SINGH CHHONKAR	01-04-82
82 ARMoured REGIMENT			
8. JC 69911F	RIS	HANUMAN SINGH	01-03-82
9. JC 78471A	RIS	PHUL DASS	01-02-82
84 ARMoured REGIMENT			
10. JC 71822F	RIS	KAMAL SINGH	01-07-82
ARMoured CORPS			
11. JC 85488K	RIS	MOHINDAR SINGH JAHMAN	01-08-82
REGIMENT OF ARTILLERY			
12. JC 64929N	SUB	A NARAYANAN	01-08-82
13. JC 73610P	SUB	AMARJIT SINGH	01-07-82
14. JC 73624P	SUB	CHIRANJI LAL	01-08-82
15. JC 66791H	SUB	DAMODHER GUNTHEY	01-07-82
16. JC 55863F	SUB	DEVARAJAN	01-08-82
17. JC 68218L	SUB	GURDIP SINGH	01-08-82
18. JC 73629N	SUB	JAISHI RAM	01-04-82
19. JC 61674N	SUB	KS MANDAPPA	01-02-82
20. JC 45601X	SUB	KARAN SINGH	01-08-82
21. JC 90172N	SUB	KAZI SUJAUDDIN	01-03-82
22. JC 78438H	SUB	KHARAN SINGH	01-07-82
23. JC 70758H	SUB	KRISHAN DATT	01-05-82
24. JC 71060Y	SUB	MADHAV RAJE SHIRKE	01-02-82
25. JC 56456L	SUB	P KAMANAN	01-08-82
26. JC 70069F	SUB	P PRABHAKARAN	01-08-82
27. JC 64200X	SUB	PA PACHAYAPPAN	01-08-82
28. JC 48364K	SUB	RAM NATH	01-06-82
29. JC 66454N	SUB	S ASIRVADAM FERNANDEZ	01-08-82
30. JC 78422X	SUB	SHINGARA SINGH	01-08-82
31. JC 62875Y	SUB	VISHWA BANDHU	01-07-82
MADRAS ENGINEER			
32. JC 57359A	SUB	KRISHNAN NAMBIAR	01-08-82
33. JC 61576N	SUB	PERIYA-NAYAGAM	01-08-82
34. JC 50911M	SUB	V NAMBI	01-03-82
BENGAL ENGINEER GROUP			
35. JC 70776L	SUB	BALDEV SINGH	01-04-82
36. JC 12055W	SUB	BHAJAN LAL MISRA	01-08-82
37. JC 74445M	SUB	BHAWANI DATT	01-05-82
38. JC 48176H	SUB	DHAN SINGH	01-06-82
39. JC 61673L	SUB	HARBHAJAN SINGH	01-05-82
40. JC 61694N	SUB	HARPAL SINGH	01-05-82
41. JC 61612H	SUB	JABAR SINGH BHANDARI	01-06-82
42. JC 61672H	SUB	JAGDAMBA PRASAD	01-05-82
43. JC 75335W	SUB	JIWA NAND	01-06-82
44. JC 75335W	SUB	KARNAIL SINGH	01-05-82

45. JC 59207X	SUB	KESHAR SINGH	01-02-82
46. JC 74837P	SUB	LAKHMI CHAND	01-04-82
47. JC 37723M	SUB	LAL SINGH	01-02-82
48. JC 62144	SUB	MAHENDAR SINGH SAINI	01-04-82
49. JC 63080X	SUB	MALKIAT SINGH	01-04-82
50. JC 61693Y	SUB	NARAIN DATT	01-02-82
51. JC 59576P	SUB	NASIB CHAND	01-04-82
52. JC 69564N	SUB	PAKHAR SINGH	01-03-82
53. JC 74457W	SUB	PREM SINGH	01-03-82
54. JC 59578A	SUB	PRITAM SINGH	01-06-82
55. JC 62298X	SUB	RAM LABHAYA SHARMA	01-06-82
56. JC 73690X	SUB	SARWAN SINGH	01-07-82
57. JC 73695W	SUB	SHAMSHER CHAND	10-06-82
58. JC 59600A	SUB	SHRIDHAR PRASAD	01-05-82
59. JC 55501A	SUB	THAN SINGH	01-05-82
60. JC 54707L	SUB	ZILA SINGH	01-08-82
BOMBAY ENGINEER GROUP			
61. JC 72870N	SUB	AJAIB SINGH	01-07-82
62. JC 55057H	SUB	BOBADE GANPAT KRISHNA	01-02-82
63. JC 67980Y	SUB	BUDH SINGH	01-07-82
64. JC 70938L	SUB	JASWANT SINGH	01-08-82
65. JC 62396X	SUB	JIT SINGH	01-04-82
66. JC 57592N	SUB	LAXUMAN WARAD	01-08-82
67. JC 76438K	SUB	NIRMAL SINGH	01-04-82
68. JC 51332M	SUB	NIRMAL SINGH	01-05-82
69. JC 47684M	SUB	RAMASRA SINGH	01-02-82
70. JC 45828L	SUB	RAMCHANDRA BHANDRE	01-02-82
71. JC 58149M	SUB	SHIVRAM KADAM	01-02-82
72. JC 44658A	SUB	SRIDHAR GAWADE	01-06-82
73. JC 76883L	SUB	SWARAN SINGH	01-08-82
74. JC 51333N	SUB	TEJA SINGH	01-02-82
CORPS OF SIGNALS			
75. JC 77393F	SUB	ANANT JADHAV	01-05-82
76. JC 73748K	SUB	BANSI RAM	01-07-82
77. JC 49716H	SUB	GR RANGANATHAN	01-03-82
78. JC 76025A	SUB	GOKULAVASUDEVAN K	01-08-82
79. JC 71746A	SUB	GOVIND SINGH	01-03-82
80. JC 64717H	SUB	JASWANT SINGH CHAMBEL	01-08-82
81. JC 77402X	SUB	K VADIVELU	01-06-82
82. JC 74055Y	SUB	M SREEDHARAN	01-08-82
83. JC 71187F	SUB	PADAMDEV SINGH	01-04-82
84. JC 60641K	SUB	PARASU RAMA RAO RANADHEVE	01-07-82
85. JC 68024H	SUB	RAM SINGH	01-04-82
86. JC 71763A	SUB	S ISWARA MURTHI	01-02-82
87. JC 80893M	SUB	VINAYAGAM V	01-04-82
BRIGADE OF THE GUARDS			
88. JC 70891L	SUB	PU THOMAS	01-06-82
THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT			
89. JC 78706F	SUB	BHANWAR SINGH	01-08-82
90. JC 77454N	SUB	DHIAN SINGH	01-07-82
91. JC 72165P	SUB	HARI SINGH	01-05-82
92. JC 62005F	SUB	JOGINDER SINGH	01-03-82
93. JC 75481K	SUB	LUXMI DATT JOSHI	01-05-82
THE PUNJAB REGIMENT			
94. JC 45881W	SUB	AJIT SINGH	01-05-82
THE GRENADIERS			
95. JC 45989N	SUB	MADAN LAL	01-03-82
96. JC 61536M	SUB	RASILA RAM	01-07-82
97. JC 60778H	SUB	SARDAR SINGH	01-12-81

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

98. JC 60290M	SUB	BAJARANG KRISHNA PATIL	01-04-82
99. JC 37620N	SUB	SHIVAJI PAWAR	01-08-82

THE RAJPUTANA RIFLES

100. JC 66941N	SUB	BIJE PAL SINGH	01-02-82
101. JC 56296W	SUB	MAHARAJ SINGH	01-08-82
102. JC 49491L	SUB	MANGE RAM SINGH	01-08-82
103. JC 76507P	SUB	RAJENDER SINGH	01-03-82

(BAND MASTER)

104. JC 73004Y	SUB	RAJENDRA SINGH	01-06-82
105. JC 71478F	SUB	RAM SWARUP	01-05-82

THE RAJPUT REGIMENT

106. JC 58285H	SUB	BABU LAL	01-03-82
107. JC 56049H	SUB	BHAGMAI	01-07-82
108. JC 59749F	XUB	KESHAB SINGH	01-06-82
109. JC 56885Y	SUB	MAHDEO SINGH	01-03-82

THEJAT REGIMENT

110. JC 43965L	SUB	BHAGWAN SINGH	01-04-82
111. JC 50304N	SUB	HARLAL SINGH	01-03-82
112. JC 54053M	SUB	RAJ SINGH	01-06-82
113. JC 68154L	SUB	RAM CHANDER	01-06-82
114. JC 56130P	SUB	TIKU RAM	01-04-82

THE SIKH REGIMENT

115. JC 76480H	SUB	DHARAM SINGH	01-02-82
116. JC 60271F	SUB	SURJIT SINGH	01-05-82
117. JC 67703N	SUB	ZORA SINGH	01-06-82

THE DOGRA REGEMENT

118. JC 74872X	SUB	GOTAM SINGH	01-02-82
119. JC 73711H	SUB	KHIALI RAM	01-03-82

THE GARHWAL RIFLES

120. JC 55423N	SUB	KESHA SINGH RAWAT	01-03-82
121. JC 61966W	SUB	MURKHLIYA SINGH RAWAT	01-11-81
122. JC 74006W	SUB	PANCHAM SINGH NEGI	01-03-82
123. JC 63086Y	SUB	RAJE SINGH	01-04-82

THE KUMAON REGIMENT

124. JC 56498X	SUB	DEWAN SINGH	01-05-82
125. JC 59935X	SUB	KEDAR SINGH	01-02-82
126. JC 74710M	SUB	KIRPAL SINGH	01-07-82

THE BIHAR REGIMENT

127. JC 77506Y	SUB	ADITYA NARAIN DWIVEDI	01-08-82
128. JC 46082M	SUB	ILLISUS TIGGA	01-07-82
129. JC 64640L	SUB	SURESH SINGH	01-03-82

THE MAHAR REGIMENT

130. JC 65749X	SUB	BHASKAR POWAR	01-05-82
131. JC 62725H	SUB	BHURI SINGH	01-04-82
132. JC 66228W	SUB	PUNJAI KAMBLE	01-04-82
133. JC 68125W	SUB	RAM LAL	01-04-82

THE NAGA REGIMENT

134. JC 71498P	SUB	SIYEKHA RENGMA	01-06-82
----------------	-----	----------------	----------

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTARY

135. JC 337H	SUB	LEKH RAJ	01-07-82
136. JC 320R	SUB	QADIR SHEIKH	01-03-82

1 GORKHA RIFLES

137. JC 76090A	SUB	SHIAM BAHADUR THAPA	01-07-82
----------------	-----	---------------------	----------

3 GORKHA RIFLES

138. JC 70004N	SUB	DAL BAHADUR THAPA	01-04-82
139. JC 72411P	SUB	DEBI RAS GURUNG	01-03-82
140. JC 64167L	SUB	RAM BAHADUR GURUNG	01-03-82

9 GORKHA RIFLES

141. JC 67889H	SUB	HARKA BAHADUR KHATTRI	01-07-82
----------------	-----	-----------------------	----------

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

142. JC 40547X	SUB	AMEER HAMJA MULLA	01-03-82
143. JC 29794Y	SUB	BALAN TK	01-03-82
144. JC 60089F	SUB	BELI RAM DOGRA	01-06-82
145. JC 57612W	SUB	BHAU SAHEB LAGAMAVAR	01-07-82
146. JC 57523H	SUB	BHIM SINGH SOLUNKE	01-05-82
147. JC 57013W	SUB	BHUPENDRA NATH MITRA	01-06-82
148. JC 57617P	SUB	BISHNU PADA BHATTACHARJEE	01-07-82
149. JC 65455K	SUB	BRIJ MOHAN TANDON	01-03-82
150. JC 60114P	SUB	BUDHI SINGH	01-07-82
151. JC 59664L	SUB	CH RAMA RAO	01-07-82
152. JC 75510H	SUB	CHHEDA SINGH	01-07-82
153. JC 56932Y	SUB	CHINNAM SUBBA RAO	01-06-82
154. JC 65469K	SUB	DEB KUMAR MAHANTA	01-05-82
155. JC 57609W	SUB	DEVENDRA BEHARI	01-07-82
156. JC 65471F	SUB	DHARAMVIR SINGH	01-06-82
157. JC 57635W	SUB	G BANERJEE	01-07-82
158. JC 65461X	SUB	C VARGHESE	01-03-82
159. JC 57634P	SUB	GANGADHAR I KOTIAN	01-07-82
160. JC 65464L	SUB	GIAN CHAND	01-04-82
161. JC 40554F	SUB	GURDAS RAM	01-08-82
162. JC 59643P	SUB	HARI SINGH YADAV	01-05-82
163. JC 65463H	SUB	HOSHIYAR SINGH RAWAT	01-04-82
164. JC 69802H	SUB	JAGDISH RAI SHARMA	01-08-82
165. JC 61307F	SUB	JAIDEV SINGH	01-03-82
166. JC 69793Y	SUB	K SUNDARAN	01-08-82
167. JC 69795K	SUB	KG JOHN	01-08-82
168. JC 57529Y	SUB	KSHAMA SHANKER SINGH	01-06-82
169. JC 69792W	SUB	KULDIP SINGH PAWLA	01-08-82
170. JC 59656M	SUB	KUMARAN NAIR P	01-06-82
171. JC 57632K	SUB	KUNHI RAMA GUPTAN T	01-08-82
172. JC 29871M	SUB	MADHAW SINGH	01-03-82
173. JC 61354Y	SUB	MANICKAM KANNAN	01-03-82
174. JC 59657P	SUB	N SIVA PANICKER	01-08-82
175. JC 59668F	SUB	NADARAJAN PN	01-08-82
176. JC 69794A	SUB	NAGINDAR SINGH	01-08-82
177. JC 69019K	SUB	NARAYANA PILLAI	01-04-82
178. JC 65462A	SUB	NEPAL CHANDRA DHAR	01-03-82
179. JC 57541A	SUB	OM PARKASH JAGGI	01-07-82
180. JC 40552W	SUB	PS NAIR	01-07-82
181. JC 59665N	SUB	PS NARAYANAN NAIR	01-07-82
182. JC 59537K	SUB	PARS RAM	01-06-82
183. JC 59886A	SUB	RAM BAHADUR	01-06-82
184. JC 57539Y	SUB	RAM SINGH	01-06-82
185. JC 29820P	SUB	RAM SURAT SINGH	01-03-82
186. JC 57021P	SUB	SANTOKH RAJ	01-07-82
187. JC 73312X	SUB	SHANTI BHUSAN KAR	01-02-82
188. JC 69801H	SUB	SHARAD CHANDRA MANEKAR	01-08-82
189. JC 58055P	SUB	SOM NATH GIGOO	01-08-82
190. JC 57622A	SUB	SUBBARAO DAVULURI	01-08-82
191. JC 57611N	SUB	SURYA BHAN	01-07-82
192. JC 57615K	SUB	TBP SOMAYAJULU	01-07-82
193. JC 57618K	SUB	VIDYA NATH UPADHYAY	01-07-82
194. JC 40564L	SUB	YOG RAJ	01-05-82

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

195. JC 65354W	RIS	BHUP SINGH	01-04-82
----------------	-----	------------	----------

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

196. JC 76577N	SUB	ARUMUGAM	01-04-82
197. JC 75531Y	SUB	GIAN SINGH	01-03-82
198. JC 75854F	SUB	GURDEV CHAND	01-02-82
199. JC 75850L	SUB	HARI SINGH	01-02-82
200. JC 75852W	SUB	HIRA SINGH	01-02-82
201. JC 76572P	SUB	KIRPAL SINGH	01-04-82
202. JC 78765N	SUB	MALKIAT SINGH	01-07-82
203. JC 75534M	SUB	NARAYAN SINGH NEGI	01-03-82
204. JC 76579Y	SUB	PK KUNHUNNI NAMBIAR	01-04-82
205. JC 78019L	SUB	RAM SINGH	01-05-82
206. JC 18561X	SUB	SHRI KRISHAN SEMWAL (RELIGIOUS TEACHER)	01-07-82
207. JC 76569P	SUB	SUBRAMONIA PILLAI CHELLAPPAN	01-03-82

ARMY MEDICAL CORPS

208. JC 77126A	SUB	BANWARI SINGH	01-03-82
209. JC 77123M	SUB	CHANDER SHEIKHER	01-02-82
210. JC 63267K	SUB	CHHOTU RAM	01-06-82
211. JC 77839L	SUB	DEVI RAM	01-07-82
212. JC 54726W	SUB	HARBANS SINGH	01-05-82
213. JC 47525P	SUB	HASTI RAM AHLAWAT	01-06-82
214. JC 76990K	SUB	ISHWAR PRASAD YALAV	01-04-82
215. JC 55720F	SUB	JAGDISH SINGH	01-07-82
216. JC 49449M	SUB	JAGJIT SINGH	01-07-82
217. JC 76971Y	SUB	JOHN SAMUEL	01-07-82
218. JC 53060W	SUB	KN MEDAPPA	01-06-82
219. JC 48741P	SUB	KESAVA PILLAI	01-02-82
220. JC 79368Y	SUB	MOHD SUBHAN	01-08-82
221. JC 76997N	SUB	NAIN SINGH	01-02-82
222. JC 77134Y	SUB	NARAYAN SINGH	01-05-82
223. JC 79370Y	SUB	PYARI LAL BAKHSI	01-08-82
224. JC 77850K	SUB	RAM SINGH	01-08-82
225. JC 77849W	SUB	RAM SINGHASAN SINGH	01-07-82
226. JC 63612M	SUB	RATTAN LAL	01-06-82
227. JC 51001L	SUB	SANTI SARUP	01-05-82
228. JC 76991Y	SUB	SARDAR SINGH	01-06-82
229. JC 51613H	SUB	SARUP CHAND ACHARIYA	01-02-82
230. JC 77846F	SUB	SHEO KUMAR SAH	01-07-82
231. JC 77841H	SUB	SOWARN SINGH	01-07-82
232. JC 49443L	SUB	TIKA RAM BHATT	01-02-82

ARMY ORDNANCE CORPS

233. JC 68410P	SUB	ADITYA NATH PAHARI	01-07-82
234. JC 66839L	SUB	AVINASH CHANDER SHARMA	01-08-82
235. JC 78253F	SUB	BALBIR SINGH	01-07-82
236. JC 80568K	SUB	BALJIT SINGH	01-08-82
237. JC 66830W	SUB	BHAIDAS PATIL	01-07-82
238. JC 70592M	SUB	DARYA SINGH	01-03-82
239. JC 72185H	SUB	DAULAT SINGH	01-07-82
240. JC 65711N	SUB	DHARAM SINGH SIDHU	01-06-82
241. JC 76620K	SUB	DURGA PARSHAD	01-02-82
242. JC 65716M	SUB	G JAGANNATHAN	01-08-82
243. JC 65732K	SUB	GABAR SINGH	01-07-82
244. JC 66832F	SUB	HARBANS SINGH SARAAN	01-07-82
245. JC 66500X	SUB	JAGDISH SINGH	01-08-82
246. JC 66835P	SUB	JASWANT SINGH	01-07-82
247. JC 80563L	SUB	JOGINDER SINGH	01-08-82
248. JC 66841H	SUB	K GOPALKRISHNNA NAIR	01-08-82
249. JC 80567F	SUB	KAPIL DEO PATHAK	01-07-82
250. JC 65699X	SUB	KRISHAN KUMAR	01-03-82

251.	JC 66838H	SUB	KRISHNA DEO SINGH	01-08-82
252.	JC 67742M	SUB	MN GOPALA PILLAI	01-08-82
253.	JC 66834M	SUB	MADHU SUDAN MISHRA	01-07-82
254.	JC 65734P	SUB	MANICKAM KANNAN	01-07-82
255.	JC 66833K	SUB	NARAIN PRASAD	01-07-82
256.	JC 64417F	SUB	OM PARKASH	01-05-82
257.	JC 68399F	SUB	PANANJA PERUMAL	01-07-82
258.	JC 72183X	SUB	PANDURANG VISHNU KALE	01-08-82
259.	JC 80564N	SUB	POHLO RAM	01-08-82
260.	JC 68392X	SUB	PRABHASH CHANDRA SEN GUPTA	01-08-82
261.	JC 67745A	SUB	RAJENDRA SINGH	01-08-82
262.	JC 66828Y	SUB	RAM DUTT SINGH	01-07-82
263.	JC 67746H	SUB	RAM FAKIR SINGH	01-08-82
264.	JC 65715K	SUB	RANGA MANI NATH	01-07-82
265.	JC 68425X	SUB	RATAN SINGH	01-06-82
266.	JC 65714F	SUB	RULIA RAM KASIB	01-06-82
267.	JC 80678Y	SUB	SANGRAM SINGH	01-05-82
268.	JC 66840A	SUB	SAT PAL HANDA	01-08-82
269.	JC 80565W	SUB	SHARASH CHANDRA SAWANT	01-07-82
270.	JC 72794M	SUB	SUCHA SINGH	01-08-82
271.	JC 68407P	SUB	TC GEORGE	01-06-82
272.	JC 64406P	SUB	TARLOCHAN SINGH	01-04-82
273.	JC 71704N	SUB	V RAMAN	01-07-82
274.	JC 66836X	SUB	VASANT LIKHAR	01-07-82
275.	JC 66504N	SUB	VISHNU SAWANT	01-06-82

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

276.	JC 52655F	SUB	AJIT SINGH	01-02-82
277.	JC 57245P	SUB	AMAR SINGH HOODA	01-08-82
278.	JC 59142P	SUB	ANIL KUMAR DASS	01-04-82
279.	JC 57692Y	SUB	AUDHIA PRASAD SHARMA	01-05-82
280.	JC 59276N	SUB	BABU RAM MISRA	01-08-82
281.	JC 57918Y	SUB	BACHITER SINGH SAINI	01-04-82
282.	JC 55626X	SUB	BAHADUR SINGH	01-07-82
283.	JC 80214F	SUB	BAKHTAWAR SINGH	01-08-82
284.	JC 57244P	SUB	BALAKRISHNAN NAIR K	01-08-82
285.	JC 57861P	SUB	BALWANT SINGH	01-05-82
286.	JC 59562P	SUB	BHUPAL SINGH TARIYAL	01-04-82
287.	JC 55642P	SUB	BINOY KUMAR SHRIVASTAW	01-08-82
288.	JC 61093W	SUB	CHANCHAL KUMAR MISRA	01-06-82
289.	JC 52688M	SUB	CHARANJIT SINGH BEDI	01-08-82
290.	JC 56369X	SUB	CHHATAR SINGH	01-06-82
291.	JC 57279F	SUB	GIAN CHAND SHARMA	01-05-82
292.	JC 56729H	SUB	GULWANT SINGH	01-04-82
293.	JC 72299N	SUB	GURBACHAN SINGH	01-05-82
294.	JC 61506P	SUB	HADIBANDHU PRADHAN	01-07-82
295.	JC 70600A	SUB	HARBANT SINGH	01-06-82
296.	JC 59246W	SUB	INDRASAN RAI	01-08-82
297.	JC 63113X	SUB	JOSEPH EKKA	01-06-82
298.	JC 56535A	SUB	KALIDAS CHAKRAVARTTY	01-08-82
299.	JC 57240W	SUB	KARPAL SINGH	01-04-82
300.	JC 58783P	SUB	KRIPAL SINGH	01-03-82
301.	JC 56557F	SUB	KRISHNA CHANDRA JOSHI	01-04-82
302.	JC 57788F	SUB	M ANTHONY MUTHU	01-07-82
303.	JC 54522K	SUB	MP RAMACHANDRAN NAIR	01-03-82
304.	JC 54276K	SUB	MAHENDRA NATH SHARMAH	01-07-82
305.	JC 61081M	SUB	MANINDRA NATH DAS	01-05-82
306.	JC 57250A	SUB	N SIVADASAN	01-07-82
307.	JC 59157X	SUB	P VASUDEVAN	01-05-92
308.	JC 59567N	SUB	PK VARUGHESE	01-08-82
309.	JC 53748H	SUB	PIARA SINGH	01-06-82
310.	JC 70403X	SUB	RAJ SINGH	01-05-82
311.	JC 52691M	SUB	RAJENDRA	01-06-82
312.	JC 74573Y	SUB	RAJU	01-03-82
313.	JC 57204P	SUB	RAM PARKASH	01-04-82
314.	JC 74575K	SUB	RAM PARSHAD	01-06-82
315.	JC 57769W	SUB	RAM RUP	01-07-82

316.	JC 65306W	SUB	RAMENDRA SINGH	01-05-82
317.	JC 56351F	SUB	RAWAL SINGH	01-08-82
318.	JC 55641M	SUB	RUSHVA CHANDRA BISHI	01-07-82
319.	JC 63123F	SUB	SANKARAN NAMBISSAN MP	01-08-82
320.	JC 73167M	SUB	SARDUL SINGH	01-06-82
321.	JC 57690N	SUB	SHEO KUMAR SINGH RANA	01-03-82
322.	JC 56350Y	SUB	SHIV PARSHAD	01-07-82
323.	JC 57730K	SUB	SHIV TAJ SINGH	01-07-82
324.	JC 76726W	SUB	SHRI RAM SHARMA	01-04-82
325.	JC 57772H	SUB	TANGUDU GANAPATI	01-07-82
326.	JC 80223H	SUB	UDAY NATH DHAL	01-04-82
327.	JC 55639P	SUB	VELAYUDHAN AK	01-04-82
328.	JC 58753X	SUB	VITHAL DEAVLEKAR	01-07-82
329.	JC 54538P	SUB	ZULFI RAM	01-08-82

ARMY EDUCATION CORPS

330.	JC 76568M	SUB	ALBEL SINGH	01-05-82
331.	JC 66599Y	SUB	AMAR SINGH	01-04-82
332.	JC 73011P	SUB	DIGAMBER KULKARNI	01-06-82
333.	JC 77201Y	SUB	JASWANT SINGH	01-06-82
334.	JC 76566F	SUB	M SAMUEL	01-03-82
335.	JC 76564W	SUB	MOHINDER SINGH	01-03-82
336.	JC 66614H	SUB	PARMESHWARI DASS	01-05-82
337.	JC 66101N	SUB	PITAM SINGH SHARMA	01-02-82
338.	JC 77203K	SUB	RAGHUBIR SINGH YADAVA	01-08-82
339.	JC 66588M	SUB	SHRI KRISHNA SAPRE	01-02-82
340.	JC 76567K	SUB	VIJAI BAHADUR SINGH	01-03-82

THE INTELLIGENCE CORPS

341.	JC 41710M	SUB	AMI CHAND	01-05-82
342.	JC 43919W	SUB	BHIM SINGH	01-05-82
343.	JC 67954X	SUB	BIDHI CHAND SHARMA	01-08-82
344.	JC 41699Y	SUB	GULAM CHAND KATOCH	01-04-82
345.	JC 41695H	SUB	K KUNCHU NAIR	01-05-82
346.	JC 62238H	SUB	M PADMANABHAN NAMBIAR	01-07-82
347.	JC 62452L	SUB	UDHO RAM SHARMA	01-04-82

CORPS OF MILITARY POLICE

348.	JC 78117L	SUB	JAGMER SINGH	01-05-82
------	-----------	-----	--------------	----------

TO BE HONORARY RISALDARS/SUBEDARS**MADRAS ENGINEER GROUP**

1.	JC 73998M	NB SUB	M ABDUL RASHID	01-02-82
----	-----------	--------	----------------	----------

BENGAL ENGINEER GROUP

JC 69659N	NB SUB	M PRABHAKARAN	01-05-82
23. JC 60595M	NB SUB	RAM MEHAR	01-02-82

BOMBAY ENGINEER GROUP

4.	JC 74808A	NB SUB	SATISH KUMAR PATHANIA	01-05-82
----	-----------	--------	-----------------------	----------

CORPS OF SIGNALS

5.	JC 83240N	NB SUB	DAL BAHADUR CHETRI	01-04-82
----	-----------	--------	--------------------	----------

5 GORKHA RIFLES

6.	JC 90225P	NB SUB	BALISOR THAPA	01-03-82
7.	JC 98417N	NB SUB	JANG BAHADUR PUN	01-03-82

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

8.	JC 57530N	NB SUB	PURSHOTAM SINGH	01-07-82
----	-----------	--------	-----------------	----------

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

9. JC 101631K	NB SUB	BALINDRA PRASAD RAI	01-04-82
10. JC 101583P	NB SUB	GURBACHAN SINGH	01-07-82
11. JC 99758L	NB SUB	RAJBAL SINGH	01-02-82

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

12. JC NYA 7031139A	NB SUB	ANTHONY MICHAEL	01-02-82
13. JC 91576H	NB SUB	KESAVAN KM	01-02-82
14. JC 84699M	NB SUB	KRISHNA NANDAN SINGH	01-08-82
15. JC NYA 7038232K	NB SUB	MANGLA RAM	01-04-82
16. JC 96077X	NB SUB	SUNIL KUMAR SAHA	01-12-81

सं० 10-ई, दिनांक 11 अगस्त, 1982--राष्ट्रपति महर्ष स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त 1982) के अवसर पर निम्नलिखित एन सी आरों को उनके अवकाश ग्रहण करने पर सेना विनियमावली 1962 के पैरा 181 के अधीन उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अवैतनिक नायब रिसालदार/सूबेदार का पद प्रदान करते हैं :--

8 केवलरी :

1. 1029108 डब्ल्यू	दफादार	बैज नाथ सिंह	01-02-82
--------------------	--------	--------------	----------

3 केवलरी :

2. 1029236 एन	दफादार	महादेव सिंह	01-03-82
---------------	--------	-------------	----------

बी सेन्ट्रल इण्डिया हास :

3. 1028054 एन	दफादार	रामदेव सिंह	01-09-81
---------------	--------	-------------	----------

62 केवलरी :

4. 1028855 पी	दफादार	करम सिंह	01-01-82
---------------	--------	----------	----------

61 केवलरी :

5. 1028475 डब्ल्यू	दफादार	कल्प नाथ सिंह	01-11-81
6. 1038741 के	दफादार	वसन्त चावन	01-11-81

64 केवलरी :

7. 1028238 एम	दफादार	सुबा सिंह	01-10-81
---------------	--------	-----------	----------

65 आर्मड रेजीमेंट :

8. 1027906 एल	दफादार	जागे राम	01-09-81
---------------	--------	----------	----------

77 आर्मड रेजीमेंट :

9. 1029308 एम	दफादार	अमर सिंह	01-03-82
10. 1029230 एम	दफादार	जगमोहन सिंह	01-03-82
11. 1028335 के	दफादार	करनैल सिंह	01-10-81

70 आर्मड रेजीमेंट :

12. 1029292 एम	दफादार	बीर सिंह	01-03-82
13. 1029216 ए	दफादार	जीता राम	01-03-82

75 आर्मड रेजीमेंट :

14. 1029122 एच	दफादार	ए साउरी मुथू	01-11-82
----------------	--------	--------------	----------

84 ग्रामंड रेजीमेंट :

15. 1029275 एम	दफादार	सीताराम	01-03-82
----------------	--------	---------	----------

88 ग्रामंड रेजीमेंट :

16. 1028104 वाई	दफादार	पुरन सिंह	01-10-81
-----------------	--------	-----------	----------

ग्रामंड कोर .

17. 1028584 एच	दफादार	अमर सिंह वर्मा	01-11-81
18. 1097172 एम	दफादार	परथा सारथी	01-07-82
19. 1097158 ए	दफादार	राम सरन	01-07-82
20. 1028761 एक्स	दफादार	शारदा बक्स सिंह	01-01-82
21. 1097136 एफ	दफादार	श्री राम	01-11-81
22. 1097137 के	दफादार	मीलन राम	01-02-82

रेजीमेंट ग्राफ ग्राटिलरी

23. 1155113 एन	हवलदार	ए थोमस परीरा	01-11-81
24. 1152834 एम	"	अमर नाथ	01-01-82
25. 1158376 एक्स	"	अमी लाल	01-02-82
26. 1161421 के	"	अमी लाल	01-06-82
27. 1159320 एक्स	"	बाबू राम	01-03-82
28. 1158274 एफ	"	बाबू सिंह	01-02-82
29. 1160928 ए	"	बाबू सिंह	01-04-82
30. 1159537 एफ	"	बचन सिंह	01-03-82
31. 1160737 के	"	बचन सिंह	01-04-82
32. 1152787 ए	"	बच्छा राम मिश्र	01-01-82
33. 1153688 के	"	बहादुर सिंह	01-04-82
34. 1152808 एल	"	बलबीर सिंह	01-01-82
35. 1160157 पी	"	बलबीर सिंह चौहान	01-03-82
36. 1152197 एफ	"	बराहन	01-12-81
37. 1159451 एच	"	भाग सिंह	01-03-82
38. 1152709 एच	"	भान सिंह	01-02-82
39. 1158109 डब्ल्यू	"	बिखा लाल	01-01-82
40. 1161613 एफ	"	बुधी सिंह	01-06-82
41. 1152929 एम	"	दलीप सिंह	01-02-82
42. 1160496 पी	"	रुबार सिंह	01-04-82
43. 1152830 डब्ल्यू	"	दीप चन्द	01-01-82
44. 1158078 एफ	"	देसा सिंह	01-12-81
45. 1159229 एफ	"	देव राज	01-03-82
46. 1152065 एल	"	गंगा धोबी	01-12-81
47. 1153054 एन	"	ज्ञाननेन्द्र पाल	01-02-82
48. 1152208 एच	"	गिरजा प्रसाद सिंह	01-12-81
49. 1159677 एन	"	गीता राम	01-03-82
50. 2547128 एल	"	गोपाल कृष्णन नायर आर	01-11-81
51. 1159277 एफ	"	हमीद अली खान दुर्गानी	01-03-82
52. 1151984 डब्ल्यू	"	हरबन्स लाल	01-11-81
53. 1159821 एक्स	"	हरबन्स लाल बुधा	01-03-82
54. 1159400 पी	"	हरभजन सिंह	01-03-82
55. 1159856 एम	"	हरदेव सिंह	01-03-82
56. 1152104 एफ	"	हरी मिश्र	01-12-81
57. 1160557 एफ	"	हीरा नन्द	01-04-81

58.	1158219 एल	हवलदार	ईन्दर सिंह	01-02-82
59.	1160476 एफ	"	जगननाथ मिश्रा	01-04-82
60.	1158334 एल	"	जगत सिंह	01-02-82
61.	1158936 वार्ड	"	जगदीश चन्द	01-03-82
62.	1159175 एल	"	जगदीश प्रसाद	01-03-82
63.	1160565 ए	"	जगदीश सिंह यादव	01-04-82
64.	1152908 डब्ल्यू	"	जमाद खली	01-02-82
65.	1158573 ए	"	जग बहादुर सिंह	01-02-82
66.	1160212 ए	"	जरनल सिंह	01-03-82
67.	1159267 एक्स	"	जसवन्त सिंह	01-03-82
68.	1153100 एक्स	"	जीत सिंह	01-02-82
69.	11193027 के	"	के वी कमलासन	01-02-82
70.	1159845 एफ	"	कुन्नेत्तुथेरेथैक्केथेल नारायणा पिल्लै रामाकृष्णा पिल्लै	01-03-82
71.	1159838 एल	"	केशर सिंह	01-03-82
72.	1150825 एम	"	कृष्णा कुमार दारजी	01-09-82
73.	1159962 एम	"	कुप्पुसामी लक्ष्मन्	01-03-82
74.	1159278 के	"	लाखन सिंह	01-03-82
75.	1152338 एल	"	लाल बहादुर राम	01-01-82
76.	1161078 एम	"	लुक्कमी नारायण	01-05-82
77.	1160890 ए	"	मददाला कोटाय्या	01-04-82
78.	1159594 एच	"	माधवन नायर टी के	01-03-82
79.	1153417 एम	"	माधो राम	01-03-82
80.	1160735 वार्ड	"	महागज सिंह	01-04-82
81.	1160584 एल	"	महिपाल सिंह	01-04-82
82.	1158830 एम	"	मन्जैय्या	01-02-82
83.	1159974 एफ	"	मनोहर लाल	01-03-82
84.	1159993 एम	"	मनवीर सिंह	01-03-82
85.	1161147 एक्स	"	मुन्शी राम	01-05-82
86.	1160636 डब्ल्यू	"	मुथैया अन्बालागन	01-04-82
87.	1153234 डब्ल्यू	"	नर सिंह देहुरी	01-03-82
88.	1153531 के	"	नारायण सिंह	01-04-82
89.	1152082 एन	"	नरेन्द्र पाल सिंह	01-12-82
90.	1152132 एन	"	निरन्जन सिंह	01-12-81
91.	1160084 एन	"	ओम प्रकाश	01-03-82
92.	1152934 एक्स	"	पी के जर्नाशन	01-02-82
93.	1160182 पी	"	पम्बोदे मोहम्मद	01-04-82
94.	1159955 डब्ल्यू	"	पाण्डुरंगन	01-03-82
95.	1158858 एम	"	परामा सिधम	01-02-82
96.	1151143 एन	"	फुलेली	01-10-82
97.	1161803 एन	"	प्रहलाद सिंह	01-07-82
98.	1158194 के	"	प्रताप सिंह	01-02-82
99.	1153965 के	"	पुरन सिंह गुरूग	01-05-82
100.	1153722 वार्ड	"	राधा कृष्णा राम	01-04-82
101.	1161476 एन	"	रघुवीर सिंह	01-06-82
102.	1158640 ए	"	राजवीर सिंह राठौर	01-02-82
103.	1160582 ए	"	राजवन्त सिंह	01-04-82
104.	1159867 ए	"	राम बहादुर सिंह	01-03-82
105.	1159893 एफ	"	राम बिलास	01-03-82

106.	1161599 एन	हवलदार	राम बिलाम	01-06-82
107.	1152397 एक्स	"	राम निहोरे	01-01-82
108.	1158629 एफ	"	राम सेवक सिंह	01-02-82
109.	1152845 वाई	"	रामवीर सिंह	01-01-82
110.	1159965 ए	"	रामाकृष्णन	01-03-82
111.	1158900 ए	"	रामनैय्या	01-02-82
112.	1153457 एन	"	रामेशवर दास शर्मा	01-03-82
113.	1159791 एल	"	साधु सिंह	01-03-82
114.	1153050 एक्स	"	सालिंग राम	01-02-82
115.	1158468 के	"	संभाजी भोमले	01-02-82
116.	1159512 पी	"	सकरन पिल्लै सुब्बैया	01-03-82
117.	1161658 एफ	"	सरवन सिंह	01-06-82
118.	1159438 वाई	"	मेवा राम	01-03-82
119.	1152040 एफ	"	शंगारा सिंह	01-12-81
120.	1151467 वाई	"	शंकर शाह	01-11-81
121.	1158476 एच	"	शंकर टोडकर	01-02-82
122.	1160541 डब्ल्यू	"	शिव भवन	01-04-82
123.	1159727 एन	"	शिव नाथ	01-03-82
124.	1158798 एच	"	सीत. राम	01-02-82
125.	1158877 एक्स	"	मुबा भोई	01-02-82
126.	1160781 एन	"	सुमेर सिंह	01-04-82
127.	1160695 एच	"	सूरज सिंह	01-04-82
128.	1152739 ए	"	स्वर्णा राम	01-02-82
129.	1160603 एल	"	सैयद महबूब	01-04-82
130.	1152434 ए	"	टी ईब्राहिम	01-01-82
131.	1158542 ए	"	उधम सिंह	01-02-82
132.	1159641 पी	"	वकील सिंह	01-03-82
133.	1161506 ए	"	वेदानाथायगम गननाथ	01-06-82
134.	1159816 एम	"	याकुब सुलतान	01-03-82
135.	1158741 एम	"	जोरा सिंह बाबा	01-02-82
मद्रास इंजिनियर ग्रुप				
136.	1319637 एन	"	अरविरुथी गोपालन	01-07-82
137.	1316098 एक्स	"	बी नारायण	01-08-82
138.	1315816 डब्ल्यू	"	चाक्को ई के	01-04-82
139.	1319430 एन	"	ऐलियाजर	01-06-82
140.	1315811 एक्स	"	के एन रवीन्द्रन	01-04-82
141.	1319791 एम	"	कन्नन सी	01-07-82
142.	1315860 ए	"	केसवन	01-04-82
143.	1319752 एन	"	कोवी रामाचन्द्रन	01-07-82
144.	1316044 डब्ल्यू	"	कृष्णन नायर पी	01-08-82
145.	1316017 एम	"	एम नटराजन	01-08-82
146.	1319318 एफ	"	एन सनमुषम	01-06-82
147.	1319731 एक्स	"	नारायणन नायर सिधरामन नायर	01-07-82
148.	1316079 एम	"	पी डेविड	01-08-82
149.	1315065 ए	"	एस गोविन्दाराज	01-07-82
150.	1313474 पी	"	टी व्यागाराज	01-04-82
151.	1318838 ए	"	टी पी गंगाधरन	01-03-82
152.	1319658 के	"	टेक्के चिराकल चन्द्रा सेखरन	01-07-82
153.	1319271 एफ	"	थारौर कोनीकलेडोम जनाधरन	01-04-82

बंगाल इंजिनियर ग्रुप

154.	1423264 एक्स	हवलदार	अर्जन सिंह सरन	01-04-82
155.	1423648 एम	"	अरुन कुमार सिंह	01-08-82
156.	1400484 पी	"	बिशन सिंह	01-07-82
157.	1422156 एफ	"	दलीप सिंह	01-08-82
158.	1422045 के	"	देवेन्द्रा महापात्रा	01-07-82
159.	1400014 के	"	दीप नारायण राम	01-03-82
160.	1495696 एच	"	हरीनन्दन धोबी	01-04-82
161.	1400149 एल	"	हरी नारायण उपाध्या	01-07-82
162.	1423492 ए	"	हरी सिंह	01-07-82
163.	1400084 एच	"	जगदीश नारायण सिंह	01-08-82
164.	1400414 डबल्यू	"	जवाहर सिंह	01-03-82
165.	1400011 डबल्यू	"	झलमन सिंह	01-05-82
166.	1423374 एम	"	कलवन्त सिंह	01-06-82
167.	1400091 वाई	"	कामेश्वर सिंह	01-05-82
168.	1422411 एच	"	कुंवर सिंह	01-04-82
169.	1495636 एन	"	लक्ष्मी वत्त	01-02-82
170.	1423386 एफ	"	महावीर सिंह	01-06-82
171.	1423507 एक्स	"	मनोहर सिंह	01-07-82
172.	1495666 एल	"	मोहम्मद बशीर	01-03-82
173.	1422162 पी	"	नीका सिंह	01-08-82
174.	1423775 एफ	"	राजे सिंह	01-08-82
175.	1421965 पी	"	राम गोविन्द सिंह	01-04-82
176.	1422048 एक्स	"	राम हकबाल	01-07-82
177.	1400424 एम	"	राम सिंह	01-03-82
178.	1400103 एच	"	रमेश चन्द्र	01-05-82
179.	1400067 ए	"	रामेश्वर प्रसाद सिंह	01-04-82
180.	1400037 एल	"	रंजीत सिंह	01-04-82
181.	1400466 एम	"	शिव रतन सिंह	01-07-82
182.	1423753 एच	"	श्याम सिंह	01-08-82
183.	1400020 एक्स	"	सीता राम	01-04-82
184.	1400376 एल	"	तेजा सिंह	01-05-82

बोम्बे इंजिनियर ग्रुप

185.	1513318 एफ	हवलदार	अमरजीत सिंह	01-03-82
186.	1513115 एल	"	अतमान सिंह	01-08-82
187.	1513634 एन	"	बचन सिंह	01-07-82
188.	2745869 एन	"	बालकृष्ण पंवार	01-02-82
189.	1513456 डबल्यू	"	दिनकर गवाडे	01-05-82
190.	1513448 एक्स	"	जितेंद्र चन्द्रा शोमे	01-04-82
191.	1513612 पी	"	जोगिन्द्र सिंह	01-07-82
192.	1563322 एन	"	महादेव चावान	01-04-82
193.	5737747 एक्स	"	मस्त राम	01-06-82
194.	1513816 एफ	"	मोहिन्दर सिंह	01-08-82
195.	1513574 के	"	परकाश सिंह	01-07-82
196.	1512879 एक्स	"	पारा सिंह	01-08-82
197.	1562843 पी	"	पूरन सिंह	01-06-82
198.	1563201 एम	"	रामचन्द्र जाधव	01-07-82
199.	1562785 डबल्यू	"	रतन सिंह	01-07-82

200.	1513721 एफ	हवलदार	सदाशिव कदम	01-08-82
201.	1513639 एम	"	शमशेर सिंह	01-07-82
202.	1512904 एल	"	शकर उदार	01-03-82
203.	1513070 डबल्यू	"	शिवाजी गायकवाड	01-08-82
204.	1513790 एक्स	"	श्री कृष्णा नाडार राव खान्डेकर	01-08-82
205.	1512775 डबल्यू	"	श्रीपती परसू शिराले	01-03-82
206.	1512842 डबल्यू	"	वसन्त पान्डुरंग पवार	01-08-82
207.	1512875 एफ	"	विजय राजन	01-08-82

कोर आफ सिगनल्स

208.	6274677 पी	"	ए देवा सहायम	01-08-82
209.	6278812 पी	"	एब्राहम सी के	01-08-82
210.	6274220 एन	"	आत्मा राम	01-04-82
211.	6274691 एफ	"	बिक्रम सिंह शर्मा	01-08-82
212.	6274065 एक्स	"	ब्रज नन्दन प्रसाद	01-02-82
213.	6281868 एम	"	चन्दन सिंह	01-07-82
214.	6277605 डबल्यू	"	चन्दी प्रसाद	01-03-82
215.	6277336 पी	"	चन्दी के ई	01-02-82
216.	6280730 एल	"	दया शंकर पांडे	01-04-82
217.	6277249 एफ	"	देव राज	01-08-82
218.	6274382 बाई	"	धर्मदेव ओझा	01-05-82
219.	6274424 ए	"	दीप सिंह	01-06-82
220.	6277670 डबल्यू	"	जी जार्ज	01-03-82
221.	6274638 डबल्यू	"	गणेश चन्द्र विश्वास	01-08-82
222.	7631819 एक्स	"	गिरधारी लाल	01-04-82
223.	6273589 एफ	"	गिरधारी लाल वर्मा	01-02-82
224.	6273364 के	"	गोविन्द बल्लभ	01-07-82
225.	6278535 के	"	गोविन्दन सिबिन कुट्टी	01-07-82
226.	6274384 के	"	हनुमान सिंह	01-05-82
227.	6277608 के	"	जगत सिंह	01-03-82
228.	6274308 एक्स	"	जय नारायण झा	01-04-82
229.	6277299 एम	"	जान के पी	01-02-82
230.	6277372 ए	"	कन्तोथ कश्नाकरन	01-05-82
231.	6278245 एक्स	"	करनैल सिंह	01-05-82
232.	6269611 पी	"	कृष्ण चन्द	01-08-82
233.	6278211 के	"	किशोरी लाल	01-04-82
234.	6275163 के	"	लक्ष्मन सिंह	01-08-82
235.	6280799 पी	"	एम टी अगुस्तिन	01-04-82
236.	6276209 एन	"	मदन मोहन पाल	01-05-82
237.	6278346 एल	"	मधु दुन्दप्पा यशवन्त	01-06-82
238.	6281245 एब	"	एन श्रीधरन नायर	01-05-82
239.	6274633 एक्स	"	एन पी एम अय्यप्पा	01-08-82
240.	6278709 के	"	नल्लरगतला बीराचारी	01-07-82
241.	6274144 एम	"	नारायण नारकर	01-04-82
242.	6278814 ए	"	नवाब सिंह	01-08-82
243.	6277384 पी	"	आम प्रकाश शर्मा	01-02-82
244.	6280839 एल	"	पुष्पाकालु चाक्को वर्गीस	01-04-82
245.	6274397 एफ	"	प्रेम सिंह	01-06-82
246.	6272881 पी	"	प्रतिष्ठा कुमार चौधरी	01-07-82

247.	6274024 एन	हवलदार	पुरुषोत्तम सिंह	01-03-82
248.	6278428 एन	"	गुर्वीर सिंह मलिक	01-06-82
249.	7633341 के	"	राज कुमार राम	01-02-82
250.	6274639 बाई	"	राम बृक्ष ठाकुर	01-08-82
251.	6277510 एल	"	राम कुमार सिंह	01-03-82
252.	6277410 एल	"	राम नाथ तिवारी	01-02-82
253.	6273941 एल	"	राम प्रसाद राम	01-03-82
254.	6274213 एक्स	"	सरदार सिंह	01-04-82
255.	6271866 एन	"	सरवन सिंह	01-06-82
256.	6275498 एफ	"	शेख मोहिदीन साहेब	01-06-82
257.	6273971 एच	"	मोहन सिंह रावन	01-03-82
258.	6278541 एच	"	सोम दत्त	01-07-82
259.	6280044 एक्स	"	सुरेन्द्र मोहन शर्मा उनीयाल	01-01-82
260.	6274555 एल	"	दहल सिंह	01-07-82
261.	6273916 एम	"	थोऊनाम कामदेव सिंह	01-02-82
262.	6274524 एल	"	बी जयारामन	01-07-82
263.	6278229 ए	"	युधवीर सिंह	01-05-82

बिप्रेड ग्राफ दी गार्डस

264.	13652533 पी	हवलदार	भवानी राम	01-07-82
265.	4145757 एच	"	छंगा राम	01-03-82
266.	5738649 के	"	डमर बहादुर पुन्न	01-02-82
267.	13653422 के	"	दीना नाथ	01-03-82
268.	3142431 एल	"	जवाहर सिंह	01-04-82
269.	13652545 के	"	कंबल सिंह	01-07-82
270.	13653441 पी	"	नत्थी सिंह	01-03-82
271.	7995752 के	"	राम स्वरूप	01-03-82
272.	13653419 के	"	रतन लाल	01-03-82

बी पेरशुट रेजीमेंट

273.	2745907 बाई	हवलदार	अनन्त शिंदे	01-02-82
274.	3346884 एक्स	"	चैन सिंह	01-07-82
275.	5334972 एन	"	दुर्गा बहादुर गुरुग	01-02-82
276.	3950500 एम	"	फीजा सिंह	01-06-82
277.	3950565 ए	"	हरबन्स लाल शर्मा	01-08-82
278.	2642576 एच	"	लखमी चन्द	01-03-82
279.	4037375 पी	"	नारायण सिंह	01-02-82
280.	4144633 एफ	"	नारायण सिंह	01-03-82
281.	2643740 एम	"	राम सिंह	01-07-82
282.	2846710 के	"	सवाई सिंह	01-04-82
283.	3950446 के	"	बजीर सिंह	01-05-82

बी मॅकेनाईज्ड इन्फैंट्री रेजीमेंट

284.	3142409 ए	हवलदार	अवतार सिंह	01-03-82
285.	2547430 के	"	बालन ए	01-02-82
286.	3142534 के	"	बलबन्त सिंह	01-06-82
287.	4145642 पी	"	चुन्नी सिंह	01-02-82
288.	5737548 के	"	दुर्गा लाल थापा	01-03-82
289.	3142541 ए	"	जगदीश सिंह	01-06-82

290.	3346681 एन	हवलदार	जोगिन्दर सिंह	01-03-82
291.	4223007 बाई	"	नेकी राम	01-07-82
292.	4038424 बाई	"	प्रमोद सिंह	01-03-82
293.	5235338 एच	"	प्रेम बहादुर पुन	01-04-82
294.	4038268 ए	"	रूप सिंह	01-03-82
295.	3951525 एल	"	साहिब सिंह जमवाल	01-03-82
296.	4037433 एन	"	सरजू राम	01-04-82
297.	4038730 एम	"	शम्भू प्रसाद खंडारी	01-01-82
298.	2744422 के	"	श्रीरंग पोल	01-02-82

दी पंजाब रेजीमेंट

299.	2442324 एम	हवलदार	अजीत सिंह	01-06-82
300.	2443259 के	"	अमर नाथ	01-03-82
301.	2442265 एल	"	बलकार सिंह	01-04-82
302.	2443474 पी	"	जगन नाथ	01-08-82
303.	2442645 के	"	जय चन्द	01-05-82
304.	2442104 एच	"	जोगिन्द्र सिंह	01-02-82
305.	2442276 एक्स	"	हरबन्श सिंह	01-05-82
306.	2442348 डब्ल्यू	"	मंगत राम	01-07-82
307.	799576 एल	"	मेला राम	01-03-82
308.	2442225 के	"	ओम प्रकाश	01-03-82
309.	2443300 पी	"	परकाश चन्द	01-04-82
310.	3950530 के	"	रणबीर सिंह	01-07-82

दी मद्रास रेजीमेंट

311.	2547731 एन	हवलदार	ए रहीम खान	01-07-82
312.	2548996 के	"	अप्पन्ना बेराड	01-04-82
313.	2547605 एफ	"	बवाना लोकनाक्षम	01-05-82
314.	7995156 एक्स	"	चिन्नयया बेलार पूसारी	01-06-82
315.	5436826 एफ	"	जगदीश चन्द	01-06-82
316.	2549232 एक्स	"	के पदमा राध	01-07-82
317.	2547428 एम	"	के आर प्रभाकरन पिल्ले	01-02-82
318.	2548087 बाई	"	के वी योहन्ना	01-06-82
319.	2547488 एफ	"	एम गोपाल कृष्णन नम्बियर	01-03-82
320.	2547754 पी	"	मक्कल भास्करन	01-02-82
321.	7995273 एच	"	मानेकल कोचुबरीद जोसफ	01-04-82
322.	2548801 एन	"	मात्यू सीसी	01-03-82
323.	2549297 एल	"	मीर इनायतअली	01-08-82
324.	2547440 एन	"	एन मोहन नायर	01-02-82
325.	2548850 डब्ल्यू	"	एन नारायणन	01-03-82
326.	2549024 एच	"	एन बेलायुधन नायर	01-04-82
327.	2547728 एन	"	एन बेलायुधन पिल्लै	01-07-82
328.	2547659 एच	"	ओल्नी एम एन	01-06-82
329.	2547974 बाई	"	पी टी धीर्व घीसे	01-07-82
330.	7995254 एक्स	"	रेंगय्या	01-03-82
331.	7995115 एन	"	रेंगानाथन	01-03-82
332.	2547649 बाई	"	एम पी मलैचामी	01-06-82
333.	2549827 पी	"	थेंगुविला जोसफ ओम्मन	01-06-82

बी प्रेनिडियस

334.	2644005 एच	हवलदार	भाग मल	01-08-82
335.	7995865 एम	"	धर्मू राम	01-04-82
336.	79960035 एच	"	हरनाम दास	01-04-82
337.	2643757 ए	"	होशियार सिंह	01-07-82
338.	2644099 एल	"	लखमी चन्द	01-08-82
339.	2644110 बाई	"	नरदेव सिंह	01-08-82
340.	2643852 एम	"	रघुनन्दन सिंह	01-07-82
341.	2642787 एल	"	राम नरेश पान्डे	01-05-82
342.	2643771 एम	"	राम सिंह	01-07-82
343.	2642769 एच	"	रमी चन्द	01-05-82
344.	2640102 एच	"	मवाई सिंह	01-06-82
345.	2643389 डब्ल्यू	"	शिव लाल	01-02-82

बी राजपूताना राइफल

346.	2846966 एम	हवलदार	बाने सिंह	01-06-82
347.	2846469 एच	"	भगवान सिंह	01-02-82
348.	2846976 डब्ल्यू	"	भोपाल सिंह	01-06-82
349.	2846778 एल	"	चन्दगी राम	01-04-82
350.	2816669 बाई	"	छगन सिंह	01-04-82
351.	2846519 एच	"	गनपत सिंह	01-02-82
352.	2846524 एन	"	हरी सिंह	01-03-82
353.	2847986 एम	"	हबा सिंह	01-02-82
354.	2846742 एम	"	ईश्वर सिंह	01-04-82
355.	2846794 एच	"	जय लाल	01-04-82
356.	2846413 डब्ल्यू	"	करतार सिंह	01-02-82
357.	2947452 डब्ल्यू	"	खुबी राम	01-03-82
358.	2846851 बाई	"	किणोर सिंह	01-04-82
359.	2846793 ए	"	लाल सिंह	01-04-82
360.	2846871 एम	"	माल सिंह	01-04-82
361.	2847871 बाई	"	प्रभात सिंह	01-05-82
362.	2847017 एम	"	राजवीर सिंह	01-07-82
363.	2847006 ए	"	रतन सिंह	01-07-82
364.	2846681 ए	"	सूरज मल	01-04-82
365.	2846918 एम	"	सुरजा राम	01-05-82

बी राजपूत रेजिमेन्ट

366.	2947619 पी	हवलदार	दासो बेहेरा	01-07-82
367.	2947260 बाई	"	डिप्टी लाल	01-01-82
368.	2947638 ए	"	केसर सिंह	01-08-82
369.	2947622 पी	"	प नालाल	01-07-82
370.	2947659 डब्ल्यू	"	शारदा सिंह	01-08-82
371.	2946729 एक्स	"	सीमा नाहक	01-09-82
372.	2947580 एन	"	तारा चन्द	01-04-82

बी जाट रेजिमेन्ट

373.	2442386 एम	हवलदार	दरबाद सिंह	01-08-82
374.	3142525 एच	"	गंगा राम	01-06-82
375.	3143168 एक्स	"	जगदीश राय	01-02-82
376.	3142572 ए	"	के रामा राय	01-07-82

377	2443364 ए	हवलदार	मनी राम	01-04-82
378	3142457 ए	"	मनी राम	01-05-82
379.	3143599 के	"	मुख्त्यार सिंह	01-03-82
380	2443299 एल	"	नफे सिंह	01-04-82
381.	43143878 पी	"	हुल सिंह	01-04-82
382.	3143475 पी	"	राभ भक्त	01-03-82
383	3142454 एम	"	राम चन्द्र	01-05-82
384	314400 एक्स	"	राम मेहर	01-07-82
385	3142629 के	"	शिओ नारायण एस एम	01-08-82
386	3143967 एन	"	मुबे सिंह	01-07-82
387	3142487 एक्स	"	मुख्बीर सिंह	01-05-82

बी सिख रेजीमेन्ट

388.	3348222 एन	हवलदार	भाग सिंह	01-03-82
389.	3346853 एक्स	"	दर्शन सिंह	01-06-82
390	3346637 के	"	धर्म सिंह	01-02-82
391.	3346690 पी	"	दयाल सिंह	01-03-82
392	3348226 के	"	फौजा सिंह	01-03-82
393.	3346874 एन	"	मीम चन्द	01-07-82
394	3346725 ए	"	मोहिन्द्र सिंह	01-03-82
395.	3346900 के	"	माधु सिंह	01-07-82
396.	3346865 एम	"	सीता राम	01-06-82
397.	3348080 एफ	"	सुखदेव सिंह	01-08-82
398.	3346744 एल	"	खिलोक सिंह	01-04-82

बी सिख लाइट इन्फेन्ट्री

399.	4437764 एच	हवलदार	दलीप सिंह	03-03-82
400.	4437806 के	"	मथरा परमाद	01-07-82
401.	4437706 बाई	"	नसीब सिंह	01-07-82
402	4438116 एम	"	रतन सिंह	01-07-82

बी डोगरा रेजीमेन्ट

403.	3950531 एम	हवलदार	बेली राम	01-07-82
404.	3950580 पी	"	बिदया धर बेहेरा	01-08-82
405	3950278 डब्ल्यू	"	धनी राम	01-02-82
406	3951739 एफ	"	दीदार सिंह	01-08-82
407.	3951418 के	"	जगत सिंह	01-04-82
408	3950205 के	"	जीत सिंह	01-02-82
409	3951411 ए	"	काश्मीर सिंह	01-02-82
410	3950508 बाई	"	मसा राम	01-06-82
411.	3950373 एच	"	मुन्शी राम	01-03-82
412.	2846975 एन	"	परम राम	01-06-82
13	3950304 एम	"	प्रेम सिंह राना	01-02-82
414	3950212 ए	"	प्रीतम सिंह	01-02-82
415	3951444 एल	"	राम सरूप	01-02-82
416	3950558 के	"	सरजन	01-08-82

बी गढ़वाल राइफल्स

417.	4038427 एम	हवलदार	अवनार सिंह शिष्ट	01-03-82
418.	4038922 एल	"	अवनार सिंह	01-07-82

419.	4038508 एम	हवलदार	बचन सिंह रावन	01-04-82
420.	4038594 एच	"	बद्री दत्त ममगेन	01-04-82
421.	4038515 एच	"	बनबीर सिंह	01-04-82
422.	4037210 डब्ल्यू	"	बन्सी धर दमभाना	01-01-82
423.	4038714 डब्ल्यू	"	भवानी दत्त	01-04-82
424.	4038691 ए	"	भोपाल सिंह	01-05-82
425.	4038566 डब्ल्यू	"	चमन सिंह	01-04-82
426.	4038836 ए	"	दर्शन सिंह	01-04-82
427.	4037978 एल	"	गोबिंद सिंह रौधन	01-02-82
428.	4038744 एन	"	हरक सिंह	01-04-82
429.	4038374 वाई	"	हीरा नणी	01-03-82
430.	4038907 डब्ल्यू	"	होशियार सिंह	01-07-82
431.	4038826 डब्ल्यू	"	जय सिंह	01-04-82
432.	4038038 एम	"	मदन सिंह मजान	01-02-82
433.	4038617 वाई	"	नन्दन सिंह	01-04-82
434.	4038025 पी	"	नरथा सिंह चौहान	01-02-82
435.	4038118 के	"	परताप सिंह	01-02-82
436.	4038206 ए	"	पूरन सिंह	01-03-82
437.	4037393 एक्स	"	शशी प्रसाद घिल्डवाल	01-02-82
438.	4037968 एफ	"	श्याम सिंह चौहान	01-02-82
439.	4037330 पी	"	मुलतान सिंह	01-02-82
440.	4038020 डब्ल्यू	"	उमराव सिंह नेगी	01-02-82

बी कुमायू रेजीमेन्ट

441.	4144680 वाई	हवलदार	तखानी दत्त पांडे	01-05-82
442.	4144615 वाई	"	भीम चन्द	01-03-82
443.	4145674 एक्स	"	देव सिंह	01-02-82
444.	4223033 ए	"	देवी दत्त	01-02-82
445.	4146557 वाई	"	गजराज सिंह	01-08-82
446.	4145676 एच	"	गुसाई सिंह	01-02-82
447.	4223003 एच	"	कालम सिंह	01-07-82
448.	4144298 एच	"	केशर सिंह	01-12-82
449.	414438 के	"	मोहन सिंह	01-02-82
450.	4144780 के	"	मूल चन्द	01-07-82
451.	4144804 एच	"	रणन	01-07-82

बी बिहार रेजीमेन्ट

452.	4236336 एन	हवलदार	दीना बेहरा	01-04-82
453.	4236329 एक्स	"	फोले टोप्पो	01-03-82
454.	4236344 एम	"	जय कुमार सिंह	01-04-82
455.	4236374 के	"	कनई लाल भट्टाचारजी	01-06-82
456.	4236341 वाई	"	राम प्यारे ठाकुर	01-04-82

बी महार रेजीमेन्ट

457.	9203217 एम	हवलदार	अजमेर सिंह	01-03-82
458.	4534697 एम	"	आनन्दा माने	01-04-82
459.	4535356 एन	"	भिकाजी जाधव	01-03-82
460.	9203359 के	"	चेम्बरा थिक्ल पैली मैथ्यू	01-06-82
461.	9203354 एल	"	घन सिंह	01-06-82
462.	9202806 डब्ल्यू	"	जागिन्द्र सिंह	01-02-82

463.	9202871 डब्ल्यू	हवलदार	करम चन्द	01-06-82
464.	4535027 एक्स	"	लिम्बाजी	01-02-82
465.	9203373 डब्ल्यू	"	राम फल	01-08-82

बी. जम्मू एण्ड कश्मीर राइफल्स

466.	13717752 एम	हवलदार	बचन सिंह	01-04-82
467.	13817412 के	"	बालिक राम	01-04-82
468.	13794716 एफ	"	बन्सी लाल	01-04-82
469.	13717612 ए	"	दल बहादुर	01-04-82
470.	13718869 एक्स	"	दान सिंह	01-02-82
471.	13718018 एल	"	दरबारा सिंह	01-08-82
472.	13718847 बार्ड	"	दशरथ कुमार	01-02-82
473.	13717784 पी	"	दौलत राम	01-05-82
474.	13717786 ए	"	देशराज	01-05-82
475.	13717884 ए	"	राजे सिंह	01-07-82
476.	13718938 एच	"	गुलाम नबी मीर	01-03-82
477.	13717543 पी	"	इन्दर सिंह	01-04-82
478.	13717501 एच	"	जनक सिंह	01-04-82
479.	13717551 एन	"	कुमेर सिंह	01-04-82
480.	13719016 एम	"	लाल चन्द	01-08-82
481.	13794660 ए	"	ओम परकाश	01-02-82
482.	13717836 ए	"	परकाश सिंह	01-05-82
483.	13717763 बार्ड	"	प्रताप सिंह	01-04-82
484.	13719112 एफ	"	पूरन भगत	01-06-82
485.	13719120 ए	"	राज कुमार सिंह	01-06-82
486.	13718844 एल	"	राम सिंह	01-02-82
487.	13717505 बार्ड	"	मंगो सिंह	01-04-82
488.	13718870 एम	"	शेर चन्द	01-02-82
489.	7995762 एन	"	तेज राम	01-03-82
490.	13717670 के	"	थोरू राम	01-04-82

बी जम्मू एण्ड कश्मीर लाईट इंफेन्ट्री

491.	9070957 के	हवलदार	अस्सदुल्ला मीर	01-03-82
492.	9071085 एक्स	"	बलवान सिंह	01-06-82
493.	9071159 एच	"	रजब हजाम	01-07-82
494.	9071032 ए	"	शंकर दास	01-04-82

1 गोरखा राइफल्स

495.	5033062 पी	हवलदार	बेब बहादुर पुन	01-02-82
496.	5033518 एच	"	कुल बहादुर बूरा	01-05-82
497.	5033023 डब्ल्यू	"	टेक बहादुर गुरुंग	01-02-82
498.	5033063 एक्स	"	टीका बहादुर पुन	01-02-82

3 गोरखा राइफल्स

499.	5235287 ए	हवलदार	टेक बहादुर शना	01-03-82
500.	5235356 एल	"	तेज बहादुर थापा	01-04-82
501.	5235339 एल	"	तेज मान थापा	01-04-82

4 गोरखा राष्ट्रफलस

502.	5335037 एन	हवलदार	अम्बर बहादुर थापा	01-03-82
503.	5335154 बाई	"	बेल बहादुर गुरुंग	01-04-82
504.	5335162 एकम	"	भीम बहादुर थापा	01-04-82
505.	5335095 एकम	"	देबी परमाद थापा	01-02-82
506.	5334977 एम	"	धन बहादुर थापा	01-02-82
507.	5335532 एम	"	केश बहादुर थापा	01-04-82
508.	5334988 बाई	"	खोप बहादुर गुरुंग	01-02-82
509.	5334891 एन	"	लछमन थापा	01-01-82
510.	5335108 के	"	मन बहादुर गुरुंग	01-02-82
511.	5334952 ए	"	माम बहादुर मल्ल	01-02-82
512.	5334705 एम	"	णेर बहादुर गुरुंग	01-12-81
513.	5334950 पी	"	टेक बहादुर गुरुंग	01-02-82
514.	5335487 एल	"	थमन सिंह थापा	01-03-82
515.	5335193 एकम	"	तुलसी राम	01-07-82

5 गोरखा राष्ट्रफलस

516.	5437771 पी	हवलदार	बीर बहादुर गुरुंग	01-02-82
517.	5438087 बाई	"	दल सिंह पुन	01-04-82
518.	5438025 बाई	"	हीरालाल गुरुंग	01-03-82
519.	5437898 एकम	"	इन्द्रा बहादुर थापा	01-02-82
520.	5436715 के	"	जंग बहादुर पुन	01-03-82
521.	5437760 एच	"	खीम बहादुर थापा	01-02-82
522.	5437881 के	"	मीम बहादुर गुरुंग	01-02-82
523.	5436810 डबल्यू	"	प्रेम सिंह विश्वकर्मा	01-04-82
524.	5437861 डबल्यू	"	टेक बहादुर पुन	01-02-82

8 गोरखा राष्ट्रफलस

525.	5737742 बाई	हवलदार	बाबू लाल थापा	01-04-82
526.	5738815 एम	"	भीम बहादुर थापा	01-03-82
527.	5738799 ए	"	धन बहादुर थापा	01-03-82
528.	5737520 के	"	दिल बहादुर गुरुंग	01-03-82
529.	5738903 एच	"	डोल बहादुर थापा	01-04-82
530.	5737477 एन	"	कुल बहादुर राणा	01-02-82
531.	5737658 बाई	"	लाल बहादुर थापा	01-03-82
532.	5737622 ए	"	मोन बहादुर थापा	01-03-82
533.	5738943 पी	"	तुले थापा	01-04-82

9 गोरखा राष्ट्रफलस

534.	5835082 एच	हवलदार	मेर सिंह खत्री	01-02-82
------	------------	--------	----------------	----------

11 गोरखा राष्ट्रफलस

535.	9405072 पी	हवलदार	बीर बहादुर लिम्बू	01-04-82
536.	9405333 एकम	"	शिष्णु बहादुर लिम्बू	01-05-82
537.	9405387 बाई	"	बुधा बहादुर लिम्बू	01-06-82
538.	9405431 एकम	"	हरका बहादुर राय	01-06-82
539.	9405138 ए	"	हरका प्रसाद लिम्बू	01-04-82
540.	9404910 एम	"	हरका राम लिम्बू	01-02-82
541.	9405300 एम	"	मन बहादुर लिम्बू	01-05-82

542	9404731 ए.कम	हवलदार	मन बहादुर राय	01-05-82
543.	9404896 एल	"	नन्दा प्रसाद राय	01-02-82
541	9405273 एल	"	राम प्रसाद राय	01-05-82
545.	9405115 बाई	"	रत्ना बहादुर राय	01-04-82
946	9405402 ए.च	"	श्याम बहादुर लिम्बू	01-06-82
547	9405195 एफ	"	ऊदल सिंह चौहान	01-05-82

ग्रामी सविस कोर (सप्लाई)

548	6352955 एम	हवलदार	हिम्मत सिंह	01-03-82
549.	6351404 पी	"	नारायण दत्त	01-04-82
550.	6597425 एन	"	वेद प्रकाश रिशीर	01-03-82

ग्रामी सविस कोर (एगिमल ट्रांसपोर्ट)

551.	6444388 पी	दफादार	भेरु मालवी	01-05-82
552	6444993 ए.च	"	चन्दर दत्त	01-04-82
553.	6444299 डब्ल्यू	"	देव लाल सिंह	01-02-82
554	6444304 डब्ल्यू	"	धन श्याम सिंह	01-03-82
555.	6445904 एल	"	खडक सिंह	01-02-82
556	6446062 ए.कम	"	मादा राम	01-03-82
557.	6444310 के	"	मन्मा राम	01-03-82
558	6445048 बाई	"	राम सिंह	01-06-82
559.	6445155 ए	"	रूपेस्वर राय	01-07-82
560	6445031 एल	"	शकर दत्त	01-06-82

ग्रामी सविस कोर (मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट)

561.	6598889 ए.कम	हवलदार	भीमाजी अलहात	01-03-82
562.	6597371 ए.कम	"	धूरी सिंह	01-02-82
563.	6597483 ए.कम	"	बिगे राम	01-03-82
564.	6598760 के	"	विद्या नाथ सिंह	01-03-82
565.	6598518 पी	"	चन्दर धन पाडे	01-02-82
566.	6600562 ए	"	दादुभन प्रसाद	01-07-82
567.	6599017 एफ	"	दामरी आमीरवादम	01-04-82
568.	6349945 ए.कम	"	धोडी राम खराडे	01-12-81
569.	6597366 एम	"	गज्जन सिंह	01-02-82
570	6597306 ए.कम	"	ज्ञान चन्द	01-02-82
571	6597461 बाई	"	गोपाल सिंह	01-03-82
572	6597396 के	"	हन्दर सिंह	01-02-83
573.	6597486 एल	"	जगदीश सिंह	01-03-82
574	6597568 एन	"	जगजीन राम	01-04-82
575.	6589951 ए.कम	"	मलाबा राम	01-05-82
576.	6597319 पी	"	मजूरअहमद खान	01-02-82
577.	6598648 ए.कम	"	मन्हे लाल	01-02-82
578	6598568 ए	"	पांडुरंग भट्टादिक	01-02-82
579	6597450 एम	"	राजेश सिंह	01-03-82
580	6597431 एफ	"	राम कुमारशर्मा	01-03-82
581	6597434 पी	"	राम सागर शुक्ला	01-03-82
582	6598493 एन	"	राज्ञा राम	01-02-82
583	6598532 एफ	"	रणीद	01-02-82
584.	6600341 एन	"	सज्जन सिंह	01-03-82

585.	6597609 एम	हवलदार	सुरजीत सिंह	01-04-82
586.	6599005 एम	"	शंकर हतानकर	01-04-82
587.	6598708 एफ	"	मीना राम चौधरी	01-02-82
588.	6598887 एम	"	मीना राम रासकर	01-03-82
589.	6598721 एल	"	सुरैणी राज सुपीरा	01-02-82
590.	6598574 एन	"	तारकेश्वर पांडे	01-03-82
591.	6597514 एम	"	त्रिलोक सिंह	01-03-82
592.	6598510 एच	"	उदय नारायण श्रीवा	01-02-82

घासी मेडिकल कोर

593.	6724405 ए	हवलदार	अमर नाथ	01-09-81
594.	6798184 पी	"	अंबेलकर गोविंद विष्णु	01-02-82
595.	6797803 एम	"	बी अजनेया नायडू	01-01-82
596.	6797790 डब्ल्यू	"	नसबनी शिंदे	01-01-82
597.	6798054 एम	"	भभूती राम	01-02-82
598.	6798113 एन	"	भास्कर चन्द्र पण्डा	01-02-82
599.	6792261 एच	"	धनपाल विरनाले	01-05-82
600.	6791566 डब्ल्यू	"	दुलारे नाथ नारायण	01-01-82
601.	6791366 एच	"	फनीर चंद	01-01-81
602.	6799921 एक्स	"	गंगाधरन हरिदासन	01-01-82
603.	6791269 एच	"	गोपाल सिंह	01-09-81
604.	6797858 पी	"	ईश्वर लाल	01-01-82
605.	6791822 ए	"	जमन राम	01-12-81
606.	6797778 एक्स	"	जीत सिंह रायन	01-01-82
607.	6791278 के	"	के टी मथई	01-09-81
608.	6791323 एल	"	कांशी राम आजद	01-09-81
609.	6791544 एक्स	"	लख राज धोबी	01-12-81
610.	6791313 एफ	"	महेन्द्र सिंह	01-09-81
611.	6792376 डब्ल्यू	"	मिलाप चन्द	01-03-82
612.	6791504 डब्ल्यू	"	मोहन गोछेट	01-11-81
613.	6791622 के	"	मोसेम	01-01-82
614.	6791609 ए	"	एन०के० भास्कर कुरुप	01-01-82
615.	6798015 एन	"	नागू निकम	03-02-82
616.	6350069 के	"	नामदेव मटकर	01-01-82
617.	6797840 वाई	"	प्रहलाद मालुखे	01-01-82
618.	6791883 एस	"	राघे श्याम	01-12-81
619.	6798079 वाई	"	रघु नाथ नायक	01-02-82
620.	6791729 वाई	"	राजाराम बासू पाटिल	01-09-81
621.	6791578 एल	"	राजेंद्र प्रसाद	01-01-82
622.	6798564 एन	"	शेर सिंह	01-04-82
623.	6791486 वाई	"	शिव जनम ब्रजाम	01-11-82
624.	6797689 वाई	"	श्री राम	01-11-81
625.	6792098 एन	"	सीमा राम	01-06-82
626.	6791823 ए	"	सूरज प्रताप मिश्र	01-03-82
627.	6798526 एक्स	"	सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	01-04-82
628.	6796897 एफ	"	ठाकुर मुखलोल प्रसाद सिंह	01-01-82
629.	6791335 ए	"	यमुना सिंह	01-09-81

आमों आर्डनेस कोर

630.	6869367	एकम	हवलदार	बलदेव राज	01-05-82
631.	6871334	एल	"	भीम बहादुर थापा	01-07-82
632.	6869373	एल	"	बिछ धोबो	01-06-82
633.	6871126	डब्ल्यू	"	चन्द्रा सिंह	01-06-82
634.	6871117	पी	"	छोटे लाल राजपूत	01-05-82
635.	6871179	पी	"	चिन्ता रामलू	01-07-82
636.	6869296	एफ	"	दलीप सिंह	01-04-82
637.	6869434	एकम	"	जी निनन	01-08-82
638.	6871016	एफ	"	हीरालाल	01-04-82
639.	6869300	वाई	"	हुदय ना रायन	01-03-82
640.	4142634	एल	"	ईश्वरी वन पांडे	01-07-82
641.	6869234	एफ	"	जुग राम	01-03-82
642.	6869264	वाई	"	करसार चन्द	01-03-82
643.	6872583	डब्ल्यू	"	केदार नाथ प्रसाद	01-03-82
644.	6870533	एम	"	कुल्लन	01-02-82
645.	6869204	के	"	मोती सिंह	01-03-82
646.	6870716	ए	"	राम चन्द्र	01-03-82
647.	6871207	डब्ल्यू	"	शंकर देसाई	01-08-82
648.	6869368	ए	"	शामलाल	01-05-82
649.	6870972	एन	"	सुखबीर सिंह छिन्ना	01-04-82
650.	6873269	पी	"	तारा सिंह	01-06-82
651.	6869446	एम	"	तारकेश्वर मिश्रा	01-07-82
652.	6869889	एम	"	थकाप्पन पिल्ले	01-02-82
653.	6869202	वाई	"	वसंत भंडारे	01-03-82

कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स

654.	7041783	ए	हवलदार	ए टी सैमुअल	01-06-82
655.	7037822	डब्ल्यू	"	अलास्मिथस	01-02-82
656.	7071300	एक्स	"	अम्बिका प्रसाद सिंह	01-03-82
657.	7042442	एफ	"	अमरिक सिंह	01-08-82
658.	7037731	एम	"	अन्ना भर्मा उपाध्याय	01-02-82
659.	7042194	डब्ल्यू	"	बी एन मुडियाप्पन	01-07-82
660.	7037930	ए	"	बाला विष्णुन	01-03-82
661.	7045239	डब्ल्यू	"	बी के चण्डी	01-06-82
662.	7037818	एन	"	बालंद सिंह	01-02-82
663.	7031990	वाई	"	बलदेव कुमार	01-04-82
664.	7038486	एफ	"	बाबा सिंह	01-07-82
665.	7041665	एम	"	बलवान सिंह	01-05-82
666.	7038498	डब्ल्यू	"	बंसीधर सिंह	01-07-82
667.	7032421	एक्स	"	ब्रेदपाल सिंह	01-05-82
668.	7037938	एम	"	भगवान सूर्य बंशी	01-03-82
669.	7039014	एक्स	"	भगवती प्रसाद	01-06-82
670.	7037971	के	"	भिरंग नाथ पांडे	01-03-82
671.	7035495	एक्स	"	बिनय क्रिष्णा राय	01-03-82
672.	7041895	ए	"	बुध्रा दास	01-06-82
673.	7041387	क	"	चन्द्रा कात	01-03-82
674.	7042068	के	"	चन्द्र शेखर	01-07-82

675.	7038624	एकम	हवलदार	चरणजीत सिंह	01-07-82
676.	7039659	ए	,	चेन्नम पेचीलाय	01-08-82
677.	7037764	एकम	,	डी डी गवेल	01-02-82
678.	7037721	एच	,	डेनिल डडिन	01-02-82
679.	7040263	एच	,	दर्शन सिंह कहलवान	01-05-82
680.	7038479	एल	,	देव दास चटर्जी	01-07-82
681.	7038666	के	,	धान सिंह	01-08-82
682.	7038630	एल	,	धनेश्वर राम	01-08-82
683.	1155823	एल	,	धरनीधर पी	01-07-82
684.	7038696	एफ	,	धरमादास भजूमदार	01-08-82
685.	7038046	एन	,	दिल बहादुर	01-03-82
686.	1163134	वाई	,	गजराज सिंह पवार	01-08-82
687.	7040483	एम	,	गनेश	01-08-82
688.	7041624	एम	,	गनेश राय	01-08-82
689.	7038259	एफ	,	गंगा राम त्रिद	01-04-82
690.	7037776	एम	,	ज्ञान सिंह	01-02-82
691.	7041666	पी	,	ज्ञानी राम	01-05-82
692.	7038239	एन	,	गिरजा शंकर उपध्याय	01-04-82
693.	7042247	के	,	गोबर्धन गहदोरी	01-08-82
694.	7038192	एन	,	गोरखा नाथ घेहे	01-04-82
695.	7038385	एन	,	गोरख नाथ सिंह	01-05-82
696.	7032053	एन	,	गुलावर, थ गायकवाड	01-04-82
697.	7038123	एकम	,	गुरचरन सिंह	01-04-82
698.	7038377	पी	,	गुरदेव सिंह	01-06-82
699.	7038653	एम	,	हरभजन सिंह	01-08-82
700.	7041965	एन	,	हर प्रसाद सिंह	01-12-81
701.	7038273	एन	,	हरीश चन्द्र गायकवाड	01-04-82
702.	7041539	एन	,	हर्ष सिंह बिष्ट	01-04-82
703.	7041867	एन	,	हयान सिंह महता	01-06-82
704.	7041189	वाई	,	ढदर सिंह	01-02-82
705.	7038615	डब्ल्यू	,	जे डेनियल	01-08-82
706.	7041315	ए	,	जगनारायन सिंह	01-03-82
707.	7038389	के	,	जगदीश केरकेटा	01-05-82
708.	7038188	एन	,	जगदीश लाल	01-04-82
709.	7035768	पी	,	जयनारायन	01-09-81
710.	2442147	एकम	,	जमना दास	01-02-82
711.	7037908	पी	,	जीत राम	01-03-82
712.	7038355	डब्ल्यू	,	जान थोमस	01-05-82
713.	7037711	वाई	,	जे० चक्रवर्ती	01-02-82
714.	7037460	ए	,	जे० सेखरन	01-01-82
715.	7031797	एम	,	के विजयन	01-07-82
716.	7041292	के	,	के पी प्रभाकर भेतन	01-03-82
717.	7041262	एम	,	कांसी राम	01-03-82
718.	7037780	पी	,	कश्मीर सिंह	01-02-82
719.	7042042	पी	,	कोथुर क्रिष्णन	01-07-82
720.	7038384	एल	,	कृष्ण गोपाल	01-05-82
721.	7037723	एन	,	लक्ष्मी नारायन सिन्हा	01-02-82
722.	7041016	एफ	,	शाला राम शुक्ला	01-02-82

723.	7038622 एम	हवलदार	लालजी राम	01-07-82
724.	7032204 एफ	"	एम मुन्शेमन	01-04-82
725.	7032495 एम	"	एम रामू	01-07-82
726.	7046054 एफ	"	एम के जयराज	01-06-82
727.	7041069 ए	"	एम पी संकरा नारायणन	01-02-82
728.	7039720 बाई	"	मदन रत सिंह	01-08-82
729.	7042202 के	"	माधव धाडगे	01-08-82
730.	7037636 एल	"	माधवन नायर आर्ह	01-02-82
731.	7041004 एम	"	मधुकर दसाई	01-02-82
732.	7038421 एन	"	महावीर सिंह	01-06-82
733.	7030800 पी	"	मनोहर लाल	01-04-82
734.	7038681 बाई	"	मोहन राम	01-08-82
735.	7037835 एन	"	मोहिंदर सिंह	01-02-82
736.	7038102 एफ	"	एन कुपननाथर	01-03-82
737.	7042020 डब्ल्यू	"	नारायण चन्द्र नाथ	01-07-82
738.	7031821 एक्स	"	नरेन्द्र सिंह	01-07-82
739.	7041175 बाई	"	नरसिंह लाल यादव	01-02-82
740.	7039992 बाई	"	निर्भय सिंह	01-02-82
741.	7040899 के	"	पी रघु शर्मा	01-07-82
742.	7037754 एन	"	पालन चन्द्र चटर्जी	01-02-82
743.	7030526 एल	"	परमानन्द निवारी	01-02-82
744.	7030633 के	"	प्रकाश चन्द्र	01-04-82
745.	7038340 एन	"	प्रताप सिंह	01-04-82
746.	7041359 एक्स	"	पाटिल दशरथ	01-03-82
747.	7042007 एम	"	पटमथागा करुणाकरा पामीकर मानीकटन नाथर	01-07-82
748.	7041538 एक्स	"	पेरिश्रप्पा देवराज	01-12-81
749.	7038356 बाई	"	पीताम्बर दत्त	01-05-82
750.	7041003 के	"	प्रभाकर शिंदे	01-02-82
751.	7037816 एच	"	प्रताप चन्द्र माझी	01-02-82
752.	7037975 ए	"	कमरुल हसन	01-03-82
753.	7041807 बाई	"	आर कनियान	01-06-82
754.	7040418 एम	"	आर महादेवन	01-06-82
755.	7037979 डब्ल्यू	"	आर एन चौबे	01-03-82
756.	7031916 एल	"	रबीन्द्र नाथ सरकार	01-06-82
757.	7040091 बाई	"	रघुनाथ मुसाले	01-07-82
758.	7037841 एफ	"	राम भरोसा	01-02-82
759.	7045487 एम	"	राम कंवर्ग सिंह	01-08-82
760.	7038199 एक्स	"	रामपाल सिंह	01-04-82
761.	7038043 ए	"	राम मरूप लखनपाल	01-03-82
762.	7037951 डब्ल्यू	"	राम स्वार्थ पांडे	01-03-82
763.	1512920 एच	"	राम चन्द्र भाऊ पाटिल	01-08-82
764.	7038152 एम	"	रमेश चन्दर	01-04-82
765.	7035932 एम	"	रामेश्वर दास	01-04-82
766.	7041622 एक्स	"	रत सिंह	01-04-82
767.	7038621 के	"	रतधीर सिंह	01-07-82
768.	7033887 एम	"	रणजीत सिंह	01-09-81
769.	7035715 डब्ल्यू	"	रणजीत सिंह	01-05-82
770.	7037652 एक्स	"	रेवती प्रसाद	01-02-82
771.	7038197 एम	"	रेवती रामन शर्मा	01-04-82

772.	7038918 एल	हवलदार	रमेश चन्द	01-08-82
773.	7038848 एच	"	रूप चन्द	01-08-82
774.	7037712 एफ	"	रूप लाल	01-02-82
775.	7038165 के	"	एस राजारथनम	01-04-82
776.	7032441 एल	"	एस सुधनधीरन	01-05-82
777.	7031832 के	"	मदाशिव चवान	01-06-82
778.	7041698 एक्स	"	मद्राशिव जोशी	01-05-82
779.	7038602 वाई	"	सरजी राव कोकाटे	01-08-82
780.	7037847 एच	"	मसाधर मामल	01-02-82
781.	7038376 एम	"	मन नारायन मिश्रा	01-05-82
782.	7037977 एल	"	श्याम राव	01-03-82
783.	7038053 के	"	शुभ करन सिंह	01-03-82
784.	7038910 वाई	"	सीताराम सिंह	01-08-82
785.	7044620 एक्स	"	स्टीफन डी मिलवा	01-04-82
786.	7038579 डब्ल्यू	"	मुनीर मल देव	01-07-82
787.	7037787 वाई	"	सूरज नाथ लाल	01-02-82
788.	7038694 डब्ल्यू	"	सूरज पाल सिंह चौहान	01-08-82
789.	7037697 एक्स	"	सुरेन्द्रसिंह	01-02-82
790.	7037983 वाई	"	सुरेश चन्द्र	01-03-82
791.	7037654 एच	"	सूर्या राव मनषु	01-02-82
792.	7036075 के	"	स्वर्ण सिंह	01-10-81
793.	7037799 एन	"	स्वरूप सिंह	01-02-82
794.	7038143 एल	"	टी विश्वनाथ आचार्य	01-02-82
795.	7037639 एन	"	टी सी शमुगम	01-02-82
796.	7038697 के	"	टी एन गोपालन नायर	01-08-82
797.	7038162 डब्ल्यू	"	नारा चन्द	01-04-82
798.	7035651 डब्ल्यू	"	टाइटस कुडलना	01-09-81
799.	7037725 वाई	"	त्रिलोकी नाथ	01-02-82
800.	7038074 ए	"	तुकाराम पांडुरंग	01-03-82
801.	7038625 ए	"	उदय कांत झा	01-07-82
802.	7037986 एम	"	उदय राम	01-03-82
803.	7038917 एच	"	वेद प्रकाश	01-08-82
804.	7041997 डब्ल्यू	"	वी कृष्णन	01-07-82
805.	7038299 के	"	वी करन तिवारी	01-04-82
806.	7038219 ए	"	विश्व नाथ	01-04-82

घार्मी एजुकेशन कोर

807.	1153829 एन	हवलदार	धनी राम चौहान	01-04-82
808.	9500941 एक्स	"	हकीम सिंह	01-02-82
809.	1029942 पी	"	कपूर सिंह बूरा	01-02-82
810.	6798794 एफ	"	नारायण दत्त	01-07-82
811.	4038914 एम	"	प्रेम सिंह अस्वाल	01-07-82
812.	6792071 डब्ल्यू	"	राधे श्याम मिश्रा	01-06-82
813.	1153000 एम	"	सकरानारायणा पिल्लै पी के	01-02-82
814.	2443238 एन	"	सरजीत सिंह पड्डा	01-03-82

बी रिमाऊन्ट वेटरनरी कोर

815.	7230615 एच	इकादार	बाला कृष्ण कुरुप नामध	01-04-82
816.	7231098 एल	"	धुपगी राय	01-02-82

817.	7230687 पी	बफावार	इन्द्र सिंह	01-08-82
818.	7230682 डब्ल्यू	"	कपि नाथ पाडे	01-08-82
819.	7230673 पी	"	लक्ष्मी नारायन	01-08-82
820.	7230628 एच	"	लक्ष्मन माली	01-03-82
821.	7230667 एफ	"	निसामनि बेहरा	01-07-82
822.	7231097 एच	"	राम सरन	01-03-82
823.	4144837 एन	"	सुलतान सिंह	01-08-82

बी इन्टेलीजेन्स कोर

824.	6792079 एच	हवलदार	दिवान सिंह रावन	01-06-62
825.	1153658 एम	"	हरबंस लाल शर्मा	01-04-82
826.	1030011 एक्स	"	हरबन्त सिंह	01-04-82
827.	1029304 डब्ल्यू	"	पी आर जेयारामन	01-03-82
828.	1029153 एच	"	पारम नाथ सिंह	01-03-82
829.	6792200 एल	"	राघे श्याम	01-07-82
830.	2642485 वाई	"	मादी राम	01-02-82
831.	1029054 ए	"	शिव चरन सिंह	01-02-82
832.	1028997 एम	"	शिव राम सिंह वर्मा	01-02-82
833.	1153669 वाई	"	सीता राम कोहली	01-04-82

कोर आफ मिलिटरी पुलिस

834.	4236394 एक्स	हवलदार	बिशुन दयाल सिंह	01-07-82
835.	2642615 डब्ल्यू	"	गंगा राम	01-03-82
836.	2947076 एन	"	जगदीश प्रसाद	01-11-81
837.	1153840 एम	"	के रामाचन्द्रन	01-04-82
838.	9202844 एम	"	करम चन्द	01-06-82
839.	6792229 एन	"	महावीर सिंह	01-07-82
840.	6598936 के	"	महान सिंह	01-03-82

ग्रामी फिजिकल ट्रेनिंग कोर

841.	4535186 पी	हवलदार	बाबू राव अरख	01-05-82
842.	6278463 डब्ल्यू	"	भूप सिंह	01-06-82
843.	3950464 एम	"	बिशन दास	01-06-82
844.	1027808 एल	"	करनार सिंह	01-09-81
845.	9203287 एल	"	माता दीन	01-04-82
846.	2947472 के	"	आंकार सिंह	01-03-82
847.	4535044 एक्स	"	राम चन्दर	01-02-82
848.	1153899 एम	"	सदन सिंह	01-07-82
849.	5436819 एल	"	शान्ता बहादुर थापा	01-04-82
850.	1562952 एफ	"	मुधाकर बुआ	01-07-82

बी पायनियर कोर

851.	7995645 एच	हवलदार	बलैया	01-02-82
852.	7995596 एल	"	गुरदयाल ओझा	01-03-82
853.	7994301 एक्स	"	के आर नाथर	01-03-82
854.	7995576 एक्स	"	करनैल सिंह	01-03-82
855.	7995663 एल	"	मोहिन्दर लाल	01-03-82
856.	7995476 एम	"	राम चरन	01-02-82

डिफेंस सिविलिटी कोर

857.	8806114	हवलदार	गबर सिंह	01-08-82
858.	2529886	"	जार्ज विलसन डी मुजा	01-04-82
859.	8803766	"	हरकुल सिंह	01-06-82
860.	8818622	"	कृष्णपाल सिंह	01-06-82
861.	6754750	"	एम प्रार करुण	01-04-82
862.	3332919	"	रेणम सिंह	01-06-82
863.	8797672	"	मुचा सिंह	01-04-82

भास्कर घोष, संयुक्त सचिव

(पी० एण्ड डब्ल्यू०)

(ARMY BRANCH)

No. A/40113/1D 82/ AG, CW 2 New Delhi, the 15th August, 1982

No. 10-E dated 11th August 1982. The President is pleased to grant honorary rank of Naib Risaldar/Subedar to the undermentioned NCOs on retirement under para 181 of the Regulations for the Army, 1962, with effect from the dates shown against their names:—

8 CAVALRY

1.	1029108W	DFR	BAAJ NATH SINGH	01-02-82
----	----------	-----	-----------------	----------

3 CAVALRY

2.	1029236N	DRF	MAHADEV SINGH	01-03-82
----	----------	-----	---------------	----------

CENTRAL INDIA HORSE

3.	1028054N	DFR	RAMDEV SINGH	01-09-81
----	----------	-----	--------------	----------

62 CAVALRY

4.	1028855P	DFR	KARAM SINGH	01-01-82
----	----------	-----	-------------	----------

61 CAVALRY

5.	1028475W	DFR	KALP NATH SINGH	01-11-81
6.	1028741K	DFR	VASANT CHAVAN	01-11-81

64 CAVALRY

7.	1028238M	DFR	SUBA SINGH	01-10-81
----	----------	-----	------------	----------

65 ARMoured REGIMENT

8.	1027906L	DFR	JAGE RAM	01-09-81
----	----------	-----	----------	----------

67 ARMoured REGIMENT

9.	1029308M	DFR	AMAR SINGH	01-03-82
10.	1029230M	DFR	JAGMOHAN SINGH	01-03-82
11.	1028335K	DFR	KARNAIL SINGH	01-10-81

70 ARMoured REGIMENT

12.	1029292M	DFR	BIR SINGH	01-03-82
13.	1029216A	DFR	JITA RAM	01-03-82

75 ARMoured REGIMENT

14.	1029122H	DFR	A SAURI MUTHU	01-11-81
-----	----------	-----	---------------	----------

84 ARMoured REGIMENT

15.	1029275M	DFR	SITA RAM	01-03-82
-----	----------	-----	----------	----------

88 ARMoured REGIMENT

16.	1028154Y	DFR	PURAN SINGH	01-10-81
-----	----------	-----	-------------	----------

ARMoured CORPS

17.	1028584H	DFR	AMAR SINGH VERMA	01-11-81
18.	1097172M	DFR	PARTHA SARATHY	01-07-82

19.	1097158A	DI R	RAM SARAN	01-07-82
20.	1028761X	DFR	SHARDA BUX SINGH	01-01-82
21.	1097136F	DFR	SHRI RAM	01-11-81
22.	1097137K	DFR	SILARA RAM	01-02-82

REGIMENT OF ARTILLERY

23.	1155113N	HAV	A THOMAS PARIRA	01-11-81
24.	1152834M	HAV	AMAR NATH	01-01-82
25.	1158376X	HAV	AMI LAL	01-02-82
26.	1161421K	HAV	AMJ LAL	01-06-82
27.	1159320X	HAV	BABOO RAM	01-03-82
28.	1158274F	HAV	BABU SINGH	01-02-82
29.	1160923A	HAV	BABU SINGH	01-04-82
30.	1159537F	HAV	BACHAN SINGH	01-03-82
31.	1160737K	HAV	BACHAN SINGH	01-04-82
32.	1152787A	HAV	BACHHA RAM MISHRA	01-01-82
33.	1153688K	HAV	BAHADUR SINGH	01-04-82
34.	1152808I	HAV	BAI BIR SINGH	01-01-82
35.	1160157P	HAV	BALWIR SINGH CHAUHAN	01-03-82
36.	1152197F	HAV	BARAIN	01-12-81
37.	1159451H	HAV	BHAG SINGH	01-03-82
38.	1152709H	HAV	BHAN SINGH	01-02-82
39.	1158109W	HAV	BHIKHA LAL	01-01-82
40.	1161613F	HAV	BUDHI SINGH	01-06-82
41.	1152929M	HAV	DALHEP SINGH	01-02-82
42.	1160496P	HAV	DARBAR SINGH	01-04-82
43.	1152830W	HAV	DEEP CHAND	01-01-82
44.	1158078F	HAV	DESA SINGH	01-12-81
45.	1159229F	HAV	DEV RAJ	01-03-82
46.	1152065N	HAV	GANGA DHOBI	01-12-81
47.	1153054N	HAV	GTANINDER PALL	01-02-82
48.	1152208H	HAV	GIRJA PRASAD SINGH	01-12-81
49.	1159677N	HAV	GITA RAM	01-03-82
50.	2547128L	HAV	GOPAL KRISHNAN NAIR R.	01-11-81
51.	1159277F	HAV	HAMID ALI KHAN DURRANI	01-03-82
52.	1151984W	HAV	HARBANS LAL	01-11-81
53.	1159821X	HAV	HARBANS LAL BUDHA	01-03-82
54.	1159400P	HAV	HARBHAJAN SINGH	01-03-82
55.	1159856N	HAV	HARDEO SINGH	01-03-82
56.	1152104F	HAV	HARI MITTER	01-12-81
57.	1160557F	HAV	HIRA NAND	01-04-82
58.	1158219L	HAV	INDER SINGH	01-02-82
59.	1160476I	HAV	JAGANNATH MISHRA	01-04-82
60.	1158334L	HAV	JAGAT SINGH	01-02-82
61.	1158936Y	HAV	JAGDISH CHAND	01-03-82
62.	1159175L	HAV	JAGDISH PRASAD	01-03-82
63.	1160565A	HAV	JAGDISH SINGH YADAV	01-04-82
64.	1152908W	HAV	JAMAD ALI	01-02-82
65.	1158573A	HAV	JANG BAHADUR SINGH	01-02-82
66.	1160212A	HAV	JARNAIL SINGH	01-03-82
67.	1159267X	HAV	JASWANT SINGH	01-03-82
68.	1153109X	HAV	JIT SINGH	01-02-82
69.	11193027K	HAV	KVKAMALASAN	01-02-82
70.	1159845I	HAV	KANNATHATHARATHEKKETHIL	01-03-82
			NARAYANA PILLAI RAMA KRISHNA PILLAI	
71.	1159838L	HAV	KFSHAR SINGH	01-03-82
72.	1150825M	HAV	KRISHNA KUMAR DARJEE	01-09-81
73.	1159962M	HAV	KUPPUSAMY LAKSHMANAN	01-03-82
74.	1159278K	HAV	LAKHAN SINGH	01-03-82
75.	1152338L	HAV	LAL BAHADUR RAM	01-01-82
76.	1161078M	HAV	LUCHAMI NARAIN	01-05-82
77.	1160890A	HAV	MADDALA KOTAYYA	01-04-82
78.	1159594H	HAV	MADHAVAN NAIR TK	01-03-82
79.	1153417M	HAV	MADHO RAM	01-03-82
80.	1160735Y	HAV	MAHARAJ SINGH	01-04-82
81.	1167584L	HAV	MAHPAL SINGH	01-04-82
82.	1158830M	HAV	MANJALAH	01-02-82

83.	1159974F	HAV	MANGBAR LAI	01-03-82
84.	1159993M	HAV	NANAI SINGH	01-03-82
85.	1161147K	HAV	MUNSHI RAM	01-05-82
86.	1160636W	HAV	MUTHIAH NARAIAGAN	01-03-82
87.	1153234W	HAV	NAR SINGH DDHUR	01-04-82
88.	1153531K	HAV	NARAIN SINGH	01-04-82
89.	1152082N	HAV	NARENDRA PAL SINGH	01-12-81
90.	1152132N	HAV	NIRANJAN SINGH	01-12-81
91.	1160084N	HAV	OM PARKASH	01-03-82
92.	1152934X	HAV	PK JANARDHANAN	01-02-82
93.	1160482P	HAV	PAMBODEG MOHAMED	01-04-82
94.	1159955W	HAV	PANDURENGAN	01-03-82
95.	1158858M	HAV	PARAMA SIVAM	01-02-82
96.	1151143N	HAV	PHULELI	01-10-81
97.	1161803N	HAV	PRAHLAD SINGH	01-07-82
98.	1158194K	HAV	PRATAP SINGH	01-02-82
99.	1153965K	HAV	PURAN SINGH GURUNG	01-05-82
100.	1153722Y	HAV	RADHA KRISHNA RAM	01-04-82
101.	1151476N	HAV	RAGHUBIR SINGH	01-06-82
102.	1158640A	HAV	RAJIVIR SINGH RATHOR	01-02-82
103.	1160582A	HAV	RAJWANT SINGH	01-04-82
104.	1159867A	HAV	RAM BAHADUR SINGH	01-03-82
105.	1159893F	HAV	RAM BILAS	01-03-82
106.	1161509N	HAV	RAM BILAS	01-06-82
107.	1152397X	HAV	RAM NIHORE	01-01-82
108.	1158629F	HAV	RAM SEWAK SINGH	01-02-82
109.	1152845Y	HAV	RAMVIR SINGH	01-01-82
110.	1159965A	HAV	RAMAKRISHNAN	01-03-82
111.	1158900A	HAV	RAMANAIAH	01-02-82
112.	1153457N	HAV	RAMESHWAR DASS SHARMA	01-03-82
113.	1159791L	HAV	SADHU SINGH	01-03-82
114.	1153050X	HAV	SALIG RAM	01-02-82
115.	1158468K	HAV	SAMBHAJI BHOSLE	01-02-82
116.	1159512P	HAV	SANKARAN PILLAI SUBBAYYA	01-03-82
117.	1161658I	HAV	SARWAN SINGH	01-06-82
118.	1159438Y	HAV	SEWA RAM	01-03-82
119.	1152040F	HAV	SHANGARA SINGH	01-12-81
120.	1151467Y	HAV	SHANKAR SAH	01-11-81
121.	1158476H	HAV	SHANKAR TODKAR	01-02-82
122.	1160541W	HAV	SHIV BHAWAN	01-04-82
123.	1159727N	HAV	SHIV NATH	01-03-82
124.	1158798H	HAV	SITA RAM	01-02-82
125.	1158877X	HAV	SUBA BHOI	01-02-82
126.	1160781N	HAV	SUMER SINGH	01-04-82
127.	1160695H	HAV	SURAJ SINGH	01-04-82
128.	1152739A	HAV	SWARNA RAM	01-02-82
129.	1160603L	HAV	SYED MAHABOOB	01-04-82
130.	1152434A	HAV	T IBRAHIM	01-01-82
131.	1158542A	HAV	UDHAM SINGH	01-02-82
132.	1159641P	HAV	VAKIL SINGH	01-03-82
133.	1161506A	HAV	VEDANAYAGAM GNANAM	01-06-82
134.	1159816M	HAV	YACOB SULTAN	01-03-82
135.	1158741N	HAV	ZORA SINGH BAWA	01-02-82

MADRAS ENGINEER GROUP

136.	1319637N	HAV	ARUVIRUTHI GOPALAN	01-07-82
137.	1316098X	HAV	B NARAYANA	01-08-82
138.	1315816W	HAV	CHACKO EK	01-04-82
139.	1319430N	HAV	ELEAZER	01-06-82
140.	1315811X	HAV	KN RAVEENDRAN	01-04-82
141.	1319791M	HAV	KANNAN C	01-07-82
142.	1315860A	HAV	KESAVAN	01-04-82
143.	1319752N	HAV	KOVI RAMACHANDRAN	01-07-82
144.	1316044W	HAV	KRISHNAN NAIR P	01-08-82
145.	1316017M	HAV	M NATARAJAN	01-08-82
146.	1319318F	HAV	N SHANMUGHAM	01-06-82

147.	1319731X	HAV	NARAYANAN NAIR SIVARAMAN NAIR	01-07-82
148.	1316079M	HAV	P DAVID	01-08-82
149.	1315065A	HAV	S GOVINDARAJ	01-07-82
150.	1313474P	HAV	T THIAGARAJ	01-04-82
151.	1318838A	HAV	TP GANGADHARAN	01-03-82
152.	1319658K	HAV	TEKKE CHIRAKAL CHANDRA SEKHARAN	01-07-82
153.	1319271F	HAV	THAROOR KONIKALEDOM JANARDHANAN	01-04-82

BENGAL ENGINEER GROUP

154.	1423264X	HAV	ARJAN SINGH SARAN	01-04-82
155.	1423648M	HAV	ARUN KUMAR SINGH	01-08-82
156.	1400484P	HAV	BISHAN SINGH	01-07-82
157.	1422156F	HAV	DALIP SINGH	01-08-82
158.	1422045K	HAV	DEVENDRA MAHAPATRA	10-07-82
159.	1400014K	HAV	DIP NARAIN RAM	01-03-82
160.	1495696H	HAV	HARIN ANADAN DHOBI	01-04-82
161.	1400149L	HAV	HARI NARAIN UPADHYA	01-07-82
162.	1423492A	HAV	HARI SINGH	01-07-82
163.	1400084H	HAV	JAGDISH NARAIN SINGH	01-08-82
164.	1400414W	HAV	JAWAHAR SINGH	01-03-82
165.	1400011W	HAV	JHALMAN SINGH	01-08-82
166.	1423374M	HAV	KALWANT SINGH	01-06-82
167.	1400091Y	HAV	KAMESHWAR SINGH	01-05-82
168.	1422411H	HAV	KUNWAR SINGH	01-04-82
169.	1495636N	HAV	LAXMI DATT	01-02-82
170.	1423386F	HAV	MAHABIR SINGH	01-06-82
171.	1423507X	HAV	MANOHAR SINGH	01-07-82
172.	1495666L	HAV	MOHAMAD BASHIR	01-03-82
173.	1422162P	HAV	NIKA SINGH	01-08-82
174.	1423775F	HAV	RAJE SINGH	01-08-82
175.	1421965P	HAV	RAM GOBIND SINGH	01-04-82
176.	1422044X	HAV	RAM IKBAL	01-07-82
177.	1400424M	HAV	RAM SINGH	01-03-82
178.	1400103H	HAV	RAMESH CHANDRA	01-05-82
179.	1400067A	HAV	RAMESHWAR PRASAD SINGH	01-04-82
180.	1400037L	HAV	RANJIT SINGH	01-04-82
181.	1400466M	HAV	SHIV RATAN SINGH	01-07-82
182.	1423753H	HAV	SHYAM SINGH	01-08-82
183.	1400020X	HAV	SITA RAM	01-04-82
184.	1400376L	HAV	TEJA SINGH	01-05-82

BOMBAY ENGINEERS GROUP

185.	1513318P	HAV	AMARJIT SINGH	01-03-82
186.	1513115L	HAV	ATMAN SINGH	01-08-82
187.	1513634N	HAV	BACHAN SINGH	01-07-82
188.	2745869N	HAV	BALKRISHNA PAWAR	01-02-82
189.	1513456W	HAV	DINKAR GAWANDE	01-05-82
190.	1513448X	HAV	JITENDRA CHANDRA SHOME	01-04-82
191.	1513612P	HAV	JOGINDER SINGH	01-07-82
192.	1563322N	HAV	MAHADEV CHAWAN	01-04-82
193.	5737747X	HAV	MAST RAM	01-06-82
194.	1513816F	HAV	MOHINDAR SINGH	01-08-82
195.	1513574K	HAV	PARKASH SINGH	01-07-82
196.	1512879X	HAV	PIARA SINGH	01-08-82
197.	1562843P	HAV	PURAN SINGH	01-06-82
198.	1563201M	HAV	RAMCHANDRA JADHAV	01-07-82
199.	1562785W	HAV	RATTAN SINGH	01-07-82
200.	1513721F	HAV	SADASHIV KADAM	01-08-82
201.	1513639M	HAV	SHAMSHER SINGH	01-07-82
202.	1512904L	HAV	SHANKAR UDAR	01-03-82
203.	1513070W	HAV	SHIVAJI GAIKWAD	01-08-82
204.	1513790X	HAV	SHRIKRISHNA NADARRAO KHANDEKAR	01-08-82
205.	1512775W	HAV	SHRIPATI PARSU SHIRALE	01-03-82
206.	1512842W	HAV	VASANT PANDURANG POWAR	01-08-82
207.	1512875F	HAV	VIJAYA RAJAN	01-08-82

CROPS OF SIGNALS

208.	6274677P	HAV	A DEVA SAHAYAM	01-08-82
209.	6278812P	HAV	ABRAHAM CK	01-08-82
210.	6274220N	HAV	ATMA RAM	01-04-82
211.	6274691F	HAV	BIKRAM SINGH SHARMA	01-08-82
212.	6274065X	HAV	BRAJ NANDAN PRASAD	01-02-82
213.	6281868M	HAV	CHANDAN SINGH	01-07-82
214.	6277605W	HAV	CHANDI PRASAD	01-03-82
215.	6277336P	HAV	CHANDY KF	01-02-82
216.	6280730L	HAV	DAYA SHANKER PANDE	01-04-82
217.	6277249I	HAV	DEV RAJ	01-08-82
218.	6274382Y	HAV	DHARM DEO OJHA	01-05-82
219.	6274424A	HAV	DIP SINGH	01-06-82
220.	6277670W	HAV	G GEORGE	01-03-82
221.	6274638W	HAV	GANESH CHANDRA BISWAS	01-08-82
222.	7631819X	HAV	GIRDHARI LAL	01-04-82
223.	6273539F	HAV	GIRDHARI LAL VERMA	01-02-82
224.	6273364K	HAV	GOVIND BALLABH	01-07-82
225.	6278533K	HAV	GOVINDAN SIVAN KUTTY	01-07-82
226.	6274384K	HAV	HANUMAN SINGH	01-05-82
227.	6277608K		JAGAT SINGH	01-03-82
228.	6274308X	HAV	JAI NARAYAN JHA	01-04-82
229.	6277299M	HAV	JOHN KP	01-02-82
230.	6277372A	HAV	KANNOTH KARUNAKARAN	01-05-82
231.	6278245X	HAV	KARNAIL SINGH	01-05-82
232.	6269611P	HAV	KRISHAN CHAND	01-08-82
233.	6278211K	HAV	KISHORI LAL	01-04-82
234.	6275163K	HAV	LACHMAN SINGH	01-08-82
235.	6280799P	HAV	MT AUGUSTINE	01-04-82
236.	6276209N	HAV	MADAN MOHAN PAUL	01-05-82
237.	6278346L	HAV	MADHAU DUNDAPPA YESHWANT	01-06-82
238.	6281245H	HAV	N SREEDHARAN NAIR	01-05-82
239.	6274633X	HAV	NPM AIAPPA	01-08-82
240.	6278709K	HAV	NALLAGATLA VEERACHARY	01-07-82
241.	6274144M	HAV	NARAYAN NARKAR	01-04-82
242.	6278814A	HAV	NAWAB SINGH	01-08-82
243.	6277384P	HAV	OM PARKASH SHARMA	01-02-82
244.	6280839L	HAV	POOVAKATTU CHACKO VARGHESE	01-04-82
245.	6274397F	HAV	PREM SINGH	01-06-82
246.	6272881P	HAV	PRITISH KUMAR CHOWDHARY	01-07-82
247.	6274024N	HAV	PURUSHOTTAM SINGH	01-03-82
248.	6278428N	HAV	RAGHUBIR SINGH MALIK	01-06-82
249.	7633341K	HAV	RAJ KUMAR RAM	01-02-82
250.	6274639Y	HAV	RAM BRIKSHA THAKUR	01-08-82
251.	6277510L	HAV	RAM KUMAR SINGH	01-03-82
252.	6277410L	HAV	RAMNATH TIWARI	01-02-82
253.	6273941L	HAV	RAM PRASAD RAM	01-03-82
254.	6274213X	HAV	SARDAR SINGH	01-04-82
255.	6271866N	HAV	SARWAN SINGH	01-06-82
256.	6275498F	HAV	SHAIK MOHIDEEN SAHEPB	01-06-82
257.	6273971H	HAV	SOHAN SINGH RAWAT	01-03-82
258.	6278541H	HAV	SOM DATT	01-07-82
259.	6280044X	HAV	SURENDRA MOHAN SHARMA UNIYAL	01-01-82
260.	6274555L	HAV	TAHAL SINGH	01-07-82
261.	6273916M	HAV	THOUNOJAM KAMDEV SINGH	01-02-82
262.	6274524L	HAV	V JAYARAMAN	01-07-82
263.	6278229A	HAV	YUDHBIR SINGH	01-05-82

BRIDGE OF THE GUARDS

264.	13652533P	HAV	BHAWANI RAM	01-07-82
265.	41457757II	HAV	CHHANGA RAM	01-03-82
266.	5738649K	HAV	DAMAR BAHADUR PUN	01-02-82
267.	13653422K	HAV	DINA NATH	01-03-82
268.	3142431L	HAV	JAWAHAR SINGH	01-04-82

558 GI/82--J3

269	13652645K	HAV	KANWAI SINGH	01-07-82
270.	1365344TP	HAV	NATHI SINGH	01-03-82
271.	7995752K	HAV	RAM SWAROOP	01-03-8
272	13653419K	HAV	RATTAN LAL	01-03-82

THE PARACHUTE REGIMENT

273.	2745907Y	HAV	ANANT SHINDE	01-02-82
274.	3346884X	HAV	CHAIN SINGH	01-07-82
275.	5334972N	HAV	DURGA BAHADUR GURUNG	01-02-82
276.	3950500M	HAV	FAUJA SINGH	01-06-82
277.	3950565A	HAV	HARBANS LAL SHARMA	01-08-82
278	2642576H	HAV	LAKHMI CHAND	01-03-82
279	4037375P	HAV	NARAIN SINGH	01-02-82
280.	4144633F	HAV	NARAIN SINGH	01-03-82
281	2643740M	HAV	RAM SINGH	01-07-82
282.	2846710K	HAV	SAWAI SINGH	01-04-82
283.	3850446K	HAV	WAZIR SINGH	01-05-82

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

284.	3142409A	HAV	AVTAR SINGH	01-03-82
285.	2547430K	HAV	BAJANA	01-02-82
286.	3142534K	HAV	BALWANT SINGH	01-06-82
287.	4145642P	HAV	CHUNNI SINGH	01-02-82
288.	5737548K	HAV	DURGA LAL THAPA	01-03-82
289.	3142541A	HAV	JAGDISH SINGH	01-06-82
290.	3346681M	HAV	JOGINDER SINGH	01-03-82
291.	422300-7Y	HAV	NEKIRAM	01-07-82
292.	4038424Y	HAV	PARMOD SINGH	01-30-82
293.	5235338H	HAV	PREM BAHADUR PUN	01-04-82
294.	4038268A	HAV	ROOP SINGH	01-03-82
295.	3951525I	HAV	SAHIB SINGH JAMWAL	01-03-82
296.	4037433N	HAV	SARJU RAM	01-04-82
297.	4038730M	HAV	SHAMBHU PRASAD KHANDARI	01-04-82
298.	2744422K	HAV	SHRIRANG POL	01-02-82

THE PUNJAB REGIMENT

299.	2442324M	HAV	AJIT SINGH	01-06-82
300.	2443259K	HAV	AMAR NATH	01-03-82
301.	2442265L	HAV	BALKAR SINGH	01-04-82
302.	2443474P	HAV	JAGAN NATH	01-08-82
303.	2442645K	HAV	JAI CHAND	01-05-82
304.	2442104H	HAV	JOGINDER SINGH	01-02-82
305.	2442276X	HAV	HARBANS SINGH	01-05-82
306.	2442348W	HAV	MANGAT RAM	01-07-82
307.	7995761L	HAV	MELA RAM	01-03-82
308.	2442225K	HAV	OM PARKASH	01-03-82
309.	2443300P	HAV	PARKASH CHAND	01-04-82
310.	3950530K	HAV	RANBIR SINGH	01-07-82

THE MADRAS REGIMENT

311.	2547731N	HAV	A RAHIMKHAN	01-07-82
312.	2548996K	HAV	APPANNA BERAD	01-04-82
313.	2547605F	HAV	BAVANA LOKANADHAM	01-05-82
314.	7995156X	HAV	CHINNAYYA VELAR POOSARI	01-06-82
315.	5436826F	HAV	JAGDISH CHAND	01-06-82
316.	2549232X	HAV	K PADMA RAO	01-07-82
317.	2547428M	HAV	KR PRABHAKARAN PILLAI	01-02-82
318.	2548087Y	HAV	KV YOHANNAN	01-06-82
319.	2547488F	HAV	M GOPALAKRISHNAN NAMBIAR	01-03-82
320.	2547754P	HAV	MAKKAL BHASKARAN	01-03-82
321.	7995273H	HAV	MALEKAL KOCHUVAREED JOSEIPH	01-04-82
322.	2548801N	HAV	MATHEW CC	01-08-82

323. 2549297L	HAV	MIR INAYAT ALI	01-08-82
324. 2547440N	IIAV	N MOHAN NAIR	01-02-82
325. 2548850W	HAV	N NARAYANAN NAIR	01-03-82
326. 2549024H	HAV	N VELAYUDHAN NAIR	01-04-82
327. 2547728N	HAV	N VELAYUDHAN PILLAI	01-07-82
328. 2547659H	HAV	ONNI MN	01-06-82
329. 2547974Y	HAV	PT GHEEVARGHESE	01-07-82
330. 7995254X	HAV	RANGAIAH	01-03-82
331. 7995115N	HAV	REN GANATHAN	01-03-82
332. 2547649Y	HAV	SP MALAICHAMY	01-06-82
333. 2549827P	HAV	THENGUVILA JOSEPH OOMMAN	01-06-82

THE GRENADIERS

334. 2644005H	HAV	BHAG MAL	01-08-82
335. 7995865M	HAV	DHARAMU RAM	01-04-82
336. 7996035H	HAV	HARNAM DAS	01-04-82
337. 2643757A	HAV	HOSHIAR SINGH	01-07-82
338. 2644099I	HAV	LAKHMI CHAND	01-08-82
339. 2644110Y	HAV	NARDEV SINGH	01-08-82
340. 2643852M	HAV	RAGHUNANDAN SINGH	01-07-82
341. 2642787L	HAV	RAM NARESH PANDEY	01-05-82
342. 2643771M	HAV	RAM SINGH	01-07-82
343. 2642769H	HAV	RAMI CHAND	01-05-82
344. 2640102H	HAV	SEWAI SINGH	01-06-82
345. 2643389W	HAV	SHIV LAL	01-02-82

THE RAJPUTANA RIFLES

346. 2846966M	HAV	BANE SINGH	01-06-82
347. 2846469N	HAV	BHAGWAN SINGH	01-02-82
348. 2846976W	HAV	BHOPAL SINGH	01-06-82
349. 2846778L	HAV	CHANDGI RAM	01-04-82
350. 2846669Y	HAV	CHHAGAN SINGH	01-04-82
351. 2846519H	HAV	GANPAT SINGH	01-02-82
352. 2846524N	HAV	HARI SINGH	01-03-82
353. 2847986M	HAV	HAWA SINGH	01-08-82
354. 2846742M	HAV	ISHWAR SINGH	01-04-82
355. 2846794H	HAV	JAI LAL	01-04-82
356. 2846413W	IIAV	KARTAR SINGH	01-02-82
357. 2947452W	HAV	KHUBI RAM	01-03-82
358. 2846851Y	HAV	KISHORE SINGH	01-04-82
359. 2846793Y	HAV	LAL SINGH	01-04-82
360. 2846871M	HAV	MAL SINGH	01-04-82
361. 2847871Y	HAV	PRABHAT SINGH	01-05-82
362. 2847017M	HAV	RAJBIR SINGH	01-07-82
363. 2847006A	HAV	RATAN SINGH	01-07-82
364. 2846681A	HAV	SURAJ MAL	01-04-82
365. 2846918M	HAV	SURJA RAM	01-05-82

THE RAJPUT REGIMENT

366. 2949699P	HAV	DASO BEHERA	01-07-82
367. 2947260Y	HAV	DEPUTY LAL	01-01-82
368. 2947638A	HAV	KESAR SINGH	01-08-82
369. 2947622P	HAV	PANNA LAL	01-07-82
370. 2947659W	HAV	SHARADA SINGH	01-08-82
371. 2946729X	HAV	SIMA NAHAK	01-09-82
372. 2947580N	HAV	TARA CHAND	01-04-82

THE JAT REGIMENT

373. 2442386M	IIAV	DARYAO SINGH	01-08-82
374. 3142525H	IIAV	GANGA RAM	01-06-82
375. 3113168X	IIAV	JAGDISH RAI	01-02-82

376.	3142572A	HAV	K RAMA RAO	01-07-82
377.	2443364A	HAV	MANI RAM	01-04-82
378.	314257A	HAV	MANI RAM	01-05-82
379.	3143599K	HAV	MUKHITAR SINGH	01-03-82
380.	2443299L	HAV	NAFE SINGH	01-04-82
381.	3143878P	HAV	PHOOL SINGH	01-04-82
382.	3143473P	HAV	RAM BHAGAT	01-03-82
383.	3142454M	HAV	RAM CHANDER	01-05-82
384.	3144000X	HAV	RAM MEHAR	01-07-82
385.	3142629K	HAV	SHEO NARAIN, SM	01-08-82
386.	3143967N	HAV	SUBE SINGH	01-07-82
387.	3142487X	HAV	SUKHBIR SINGH	01-05-82

THE SIKH REGIMENT

388.	3348222N	HAV	BHAG SINGH	01-03-82
389.	3346853X	HAV	DARSHAN SINGH	01-06-82
390.	3346637K	HAV	DHARAM SINGH	01-02-82
391.	3346690P	HAV	DIAL SINGH	01-03-82
392.	3348226K	HAV	FOUJA SINGH	01-03-82
393.	3346874N	HAV	MIM CHAND	01-07-82
394.	3346725A	HAV	MOHINDER SINGH	01-03-82
395.	3346900K	HAV	SADHU SINGH	01-07-82
396.	3346865M	HAV	SITA RAM	01-06-82
397.	3348080F	HAV	SUKHDEV SINGH	01-08-82
398.	3346744L	HAV	TIRLOK SINGH	01-04-82

THE SIKH LIGHT INFANTRY

399.	4437764H	HAV	DALIP SINGH	01-03-82
400.	4437806K	HAV	MATHRA PERSHAD	01-07-82
401.	4437706Y	HAV	NASIB SINGH	01-07-82
402.	4438116M	HAV	RATTAN SINGH	01-07-82

THE DOGRA REGIMENT

403.	3950531M	HAV	BELI RAM	01-07-82
404.	3950580P	HAV	BIDYA DHAR BEHARA	01-08-82
405.	3950278W	HAV	DHANI RAM	01-02-82
406.	3951739F	HAV	DIDAR SINGH	01-08-82
407.	3951418K	HAV	JAGAT SINGH	01-04-82
408.	3950205K	HAV	JIT SINGH	01-02-82
409.	3951411A	HAV	KASHMIR SINGH	01-02-82
410.	3950508Y	HAV	MANSA RAM	01-06-82
411.	3950373H	HAV	MUNSHI RAM	01-03-82
412.	2846975N	HAV	PARSAS RAM	01-06-82
413.	3950304M	HAV	PREM SINGH RANA	01-02-82
414.	3950212A	HAV	PRITAM SINGH	01-02-82
415.	3951444L	HAV	RAM SARUP	01-02-82
416.	3950558K	HAV	SARWAN	01-08-82

THE GARHWAL RIFLES

417.	4038427M	HAV	AVTAR SINGH BISHT	01-03-82
418.	4038922I	HAV	AWATAR SINGH	01-07-82
419.	4038508M	HAV	BACHAN SINGH RAWAT	01-04-82
420.	4038594H	HAV	BADRI DATT MAMGAIN	01-04-82
421.	4038515II	HAV	BANBIR SINGH	01-04-82
422.	4037210W	HAV	BANSI DHAR DASMANA	01-01-82
423.	4038714W	HAV	BHAWANI DATT	01-04-82
424.	4038691A	HAV	BHUPAL SINGH	01-05-82
425.	4038566W	HAV	CHAMAN SINGH	01-04-82
426.	4038836A	HAV	DARSHAN SINGH	01-04-82
427.	4037978L	HAV	GOVIND SINGH RAUTHAN	01-02-82
428.	4038744N	HAV	HARAK SINGH	01-04-82
429.	4038374Y	HAV	HIRA MANI	01-03-82

430.	4038907W	HAV	HOSHIYAR SINGH	01-07-82
431.	4038826W	HAV	JAI SINGH	01-04-82
432.	4038038M	HAV	MADAN SINGH SAJWAN	01-02-82
433.	4038617Y	HAV	NANDAN SINGH	01-04-82
434.	4038025P	HAV	NATHA SINGH CHAUHAN	01-02-82
435.	4038118K	HAV	PARTAP SINGH	01-02-82
436.	4038206A	HAV	PURAN SINGH	01-03-82
437.	4037393X	HAV	SHASHI PRASAD GHILDIYAL	01-02-82
438.	4037968F	HAV	SHYAM SINGH CHAUHAN	01-02-82
439.	4037330P	HAV	SULTAN SINGH	01-02-82
440.	4038020W	HAV	UMRAO SINGH NEGI	01-02-82

THE KUMAON REGIMENT

441.	4144680Y	HAV	BHAWANI DATT PANDEY	01-05-82
442.	4144615Y	HAV	BHIM CHAND	01-03-82
443.	4145674X	HAV	DEB SINGH	01-02-82
444.	4223033A	HAV	DEBI DAIT	01-02-82
445.	4146557Y	HAV	GAJRAJ SINGH	01-08-82
446.	4145676H	HAV	GUSAIN SINGH	01-02-82
447.	4223003H	HAV	KALAM SINGH	01-07-82
448.	4144298H	HAV	KESHAR SINGH	01-12-82
449.	4144438K	HAV	MOHAN SINGH	01-02-82
450.	4144780K	HAV	MOOL CHAND	01-07-82
451.	4144804H	HAV	ROSHAN	01-07-82

THE BIHAR REGIMENT

452.	4236336N	HAV	DINA BEHERA	01-04-82
453.	4236329X	HAV	FOLE TOPPO	01-03-82
454.	4236344M	HAV	JAI KUMAR SINGH	01-04-82
455.	4236374K	HAV	KANAI LAL BHATTACHARJEE	01-06-82
456.	4236341Y	HAV	RAM PYARE THAKUR	01-04-82

THE MAHAR REGIMENT

457.	9203217M	HAV	AJMER SINGH	01-03-82
458.	4534697M	HAV	ANANDA MANI	01-04-82
459.	4535356N	HAV	BHIKAJI JADHAV	01-03-82
460.	9203359K	HAV	CHEMBARATHIKAL PAILY MATHEW	01-06-82
461.	9203354L	HAV	DHAN SINGH	01-06-82
462.	9202806W	HAV	JOGINDER SINGH	01-02-82
463.	9202871W	HAV	KARAM CHAND	01-06-82
464.	4535027X	HAV	LIMBAJEE	01-02-82
465.	9203373W	HAV	RAM PHAL	01-08-82

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

466.	13717752M	HAV	BACHAN SINGH	01-04-82
467.	13717412K	HAV	BALIK RAM	01-04-82
468.	13794716F	HAV	BANSI LAL	01-04-82
469.	13717612A	HAV	DAL BAHADUR	01-04-82
470.	13718869X	HAV	DAN SINGH	01-02-82
471.	13718018L	HAV	DARBARA SINGH	01-08-82
472.	13718847Y	HAV	DASHRATH KUMAR	01-02-82
473.	13717784P	HAV	DAULAT RAM	01-05-82
474.	13777786A	HAV	DESH RAJ	01-05-82
475.	13777884A	HAV	GAJE SINGH	01-07-82
476.	13718938H	HAV	GHULAM NABI MIR	01-03-82
477.	13717543P	HAV	INDER SINGH	01-04-82
478.	13717501H	HAV	JANAK SINGH	01-04-82
479.	13717551N	HAV	KUMAR SINGH	01-04-82
480.	13719016M	HAV	LAL CHAND	01-08-82
481.	13794660A	HAV	OM PARKASH	01-02-82
482.	13717836A	HAV	PARKASH SINGH	01-05-82
483.	13717763Y	HAV	PRATAP SINGH	01-04-82
484.	13719112L	HAV	PURAN BHAGAT	01-06-82
485.	13719120A	HAV	RAJ KUMAR SINGH	01-06-82
486.	13718844L	HAV	RAM SINGH	01-02-82
487.	13717505Y	HAV	SANGAR SINGH	01-04-82

488.	13718870M	HAV	SHERI CHAND	01-02-82
489.	7995762N	HAV	TEJ RAM	01-03-82
490.	13717670K	HAV	THORU RAM	01-04-82

THE JAMMU & KASHMIR LIGHT INFANTRY

491.	9070957K	HAV	ASSADULLA MIR	01-03-82
492.	9071085X	HAV	BALWAN SINGH	01-06-82
493.	9071159H	HAV	RAJAB HAJAM	01-07-82
494.	9071032A	HAV	SHANKAR DASS	01-04-82

1 GORKHA RIFLES

495.	5033062P	HAV	DEO BAHADUR PUN	01-02-82
496.	5033518N	HAV	KUL BAHADUR BURA	01-05-82
497.	5033023W	HAV	TEK BAHADUR GURUNG	01-02-82
498.	5033063X	HAV	TIKA BAHADUR PUN	01-02-82

3 GORKHA RIFLES

499.	5235287A	HAV	TAK BAHADUR RANA	01-03-82
500.	5235356L	HAV	TEJ BAHADUR THAPA	01-04-82
501.	5235339L	HAV	TEJ MAN THAPA	01-04-82

4 GORKHA RIFLES

502.	5335037N	HAV	AMBAR BAHADUR THAPA	01-03-82
503.	5335154Y	HAV	BEL BAHADUR GURUNG	01-04-82
504.	5335162X	HAV	BHIM BAHADUR THAPA	01-04-82
505.	5335095X	HAV	DEBI PARSAD THAPA	01-02-82
506.	5334977M	HAV	DHAN BAHADUR THAPA	01-02-82
507.	5335532M	HAV	KESH BAHADUR THAPA	01-04-82
508.	5334988Y	HAV	KHOP BAHADUR GURUNG	01-02-82
509.	5334891N	HAV	LACHHMAN THAPA	01-01-82
510.	5335108K	HAV	MAN BAHADUR GURUNG	01-02-82
511.	5334952A	HAV	SAM BAHADUR MAIL	01-02-82
512.	5334705M	HAV	SHER BAHADUR GURUNG	01-12-81
513.	5334950P	HAV	TAK BAHADUR GURUNG	01-02-82
514.	5335487L	HAV	THAMAN SINGH THAPA	01-03-82
515.	5335193X	HAV	TULSI RAM	01-07-82

5 GORKHA RIFLES

516.	5437771P	HAV	BIR BAHADUR GURUNG	01-02-82
517.	5438087Y	HAV	DAL SINGH PUN	01-04-82
518.	5438025Y	HAV	HIRA LAL GURUNG	01-03-82
519.	5437898X	HAV	INDRA BAHADUR THAPA	01-02-82
520.	5436715K	HAV	JANG BAHADUR PUN	01-03-82
521.	5437760H	HAV	KHIM BAHADUR THAPA	01-02-82
522.	5437881K	HAV	MIN BAHADUR GURUNG	01-02-82
523.	5436810W	HAV	PREM SINGH VISHWAKARMA	01-04-82
524.	5437861W	HAV	TEK BAHADUR PUN	01-02-82

8 GORKHA RIFLES

525.	5737742Y	HAV	BABU LAL THAPA	01-04-82
526.	5738815M	HAV	BHIM BAHADUR THAPA	01-03-82
527.	5738799A	HAV	DHAN BAHADUR THAPA	01-03-82
528.	5737520K	HAV	DJL BAHADUR GURUNG	01-03-82
529.	5738903H	HAV	DOL BAHADUR THAPA	01-04-82
530.	5737477N	HAV	KUL BAHADUR RANA	01-02-82
531.	5737658Y	HAV	LIL BAHADUR THAPA	01-03-82
532.	5737622A	HAV	MIN BAHADUR THAPA	01-03-82
533.	5738943P	HAV	TULI THAPA	01-04-82

9 GORKHA RIFLES

534.	5835082H	HAV	MER SINGH KHATTRI	01-02-82
------	----------	-----	-------------------	----------

11 GORKHA RIFLES

535.	9405072P	HAV	BIR BAHADUR LIMBU	01-04-82
536.	9405333X	HAV	BISINU BAHADUR LIMBU	01-05-82
537.	9405387Y	HAV	BUDHA BAHADUR LIMBU	01-06-82

538.	940511JN	HAV	HARKA BAHADUR RAI	01-06-82
539.	9405138A	HAV	HARKA PRASAD LIMBU	01-04-82
540.	9404910M	HAV	HARKA RAM LIMBU	01-02-82
541.	9405300M	HAV	MAN BAHADUR LIMBU	01-05-82
542.	9404731X	HAV	MAN BAHADUR RAI	01-03-82
543.	9404896L	HAV	NANDA PRASAD RAI	01-02-82
544.	9405273N	HAV	RAM PRASAD RAI	01-05-82
545.	9405115Y	HAV	RATNA BAHADUR RAI	01-04-82
546.	9405402H	HAV	SHYAM BAHADUR LIMBU	01-06-82
547.	9405195J	HAV	UDAL SINGH CHAUHAN	01-05-82

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

548.	6352955M	HAV	HIMAT SINGH	01-03-82
549.	6351404P	HAV	NARAIN DATT	01-04-82
550.	6597425N	HAV	VED PARKASH RISHI	01-03-82

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

551.	6444388P	DFR	BHAIRU SALVI	01-05-82
552.	6444993H	DFR	CHANDER DATT	01-04-82
553.	6444299W	DFR	DEO LAI SINGH	01-02-82
554.	6444304W	DI R	GHAN SHYAM SINGH	01-03-82
555.	64445904L	DFR	KHARAK SINGH	01-02-82
556.	6446062X	DI R	MADA RAM	01-03-82
557.	6444310K	DI R	MANSA RAM	01-03-82
558.	6445048Y	DFR	RAM SINGH	01-06-82
559.	6145155A	DFR	RUPESWAR RAY	01-07-82
560.	6445031I	DFR	SHANKAR DATT	01-06-82

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

561.	6598889X	HAV	BHIMAJI ALHAT	01-03-82
562.	6597371X	HAV	BHURI SINGH	01-02-82
563.	6597483X	HAV	BIRO RAM	01-03-82
564.	6598760K	HAV	BISWA NAJH SINGH	01-03-82
565.	6598518P	HAV	CHANDAR DHAN PANDEY	01-02-82
566.	6600562A	HAV	DADUMAN PRASAD	01-07-82
567.	6599017F	HAV	DASARI ASEFRVADAN	01-04-82
568.	6349945X	HAV	DHONDI RAM KHARADE	01-12-81
569.	6597366M	HAV	GAJJAN SINGH	01-02-82
570.	6597306X	HAV	GIAN CHAND	01-02-82
571.	6597461Y	HAV	GOPAL SINGH	01-03-82
572.	6597396K	HAV	INDAR SINGH	01-02-82
573.	6597486I	HAV	JAGDISH SINGH	01-03-82
574.	6597568H	HAV	JAGJIT SINGH	01-04-82
575.	6589951X	HAV	MAI AWA RAM	01-05-82
576.	6597319P	HAV	MANZOOR AHMAD KIJAN	01-02-82
577.	6598648X	HAV	NANHI LAL	01-02-82
578.	6598568A	HAV	PANDURANG MAHADIK	01-02-82
579.	6597450M	HAV	RAJINDER SINGH	01-02-82
580.	6597431F	HAV	RAM KUMAR SHARMA	01-03-82
581.	6597434P	HAV	RAM SAGAR SHUKLA	01-03-82
582.	6598493N	HAV	RANJHA RAM	01-02-82
583.	6598532I	HAV	RASHID	01-02-82
584.	6600341N	HAV	SAJJAN SINGH	01-03-82
585.	6597609M	HAV	SARJEET SINGH	01-04-82
586.	6599005M	HAV	SHANKAR HATANKAR	01-04-82
587.	6598708F	HAV	SITA RAM CHOUDHURY	01-02-82
588.	6598887M	HAV	SITA RAM RASKAR	01-03-82
589.	6598721L	HAV	SUVARNA RAJU MUPPURI	01-02-82
590.	6598574N	HAV	TARKESHWAR PANDEY	01-02-82
591.	6597514M	HAV	TRILOK SINGH	01-03-82
592.	6598510H	HAV	UDAI NARAIN OJHA	01-02-82

ARMY MEDICAL CORPS

593.	6792405A	HAV	AMAR NAJH	01-09-81
594.	6798184P	HAV	AMBILKAR GOVIND VISHNU	01-02-82
595.	6797803L	HAV	BANJANEYA NAIDU	01-01-82
596.	6797790W	HAV	BASAWANI SHINDE	01-01-82

597.	6798054M	HAV	BHABUTI RAM	01-02-82
598.	6798113N	HAV	BHASKAR CHANDRA PANDA	01-02-82
599.	6792261II	HAV	DHANPAL BIRNALE	01-05-82
600.	6791566W	HAV	DULARE NARAIN TELWARI	01-01-82
601.	6791366X	HAV	FAQIR CHAND	01-10-81
602.	6799921X	HAV	GANGADHARAN HARIDASAN	01-01-82
603.	6791269H	HAV	GOPAL SINGH	01-09-82
604.	6797858P	HAV	ISHWAR LAI	01-01-82
605.	6791822A	HAV	JAMAN RAM	02-12-82
606.	6797778X	HAV	JIT SINGH RAWAI	01-01-82
607.	6791278K	HAV	KT MATHAI	01-09-81
608.	6791323L	HAV	KANSITIRAM AZAD	01-09-81
609.	6791544X	HAV	KAKHA RAJ DHOBI	01-12-81
610.	6791313F	HAV	MAHENDRA SINGH	01-09-82
611.	6792376W	HAV	MILAP CHAND	01-03-82
612.	6791504W	HAV	MOHAN GOCHHAIT	01-11-81
613.	6791622K	HAV	MOSES	01-01-82
614.	6791609A	HAV	NK BHASKARA KURUP	01-01-82
615.	6798015N	HAV	NAGU NIKAM	01-02-82
616.	6350069K	HAV	NAMDEO MATKAR	01-01-82
617.	6797840Y	HAV	PRALHAD SALUNKHE	01-01-82
618.	6791883X	HAV	RADHE SHAYAM	01-12-81
619.	6798079Y	HAV	RAGHU NATH NAYAK	01-02-82
620.	6791729Y	HAV	RAJARAM BAI U PATIL	01-09-81
621.	6791578L	HAV	RAJENDRA PRASAD	01-01-82
622.	6798564N	HAV	SHER SINGH	01-04-82
623.	6791486Y	HAV	SHIV JANAM HAJAM	01-11-81
624.	6797689Y	HAV	SIRI RAM	01-11-81
625.	6792098N	HAV	SITA RAM	01-06-82
626.	6791823A	HAV	SURAJ PRATAP MISRA	01-03-82
627.	6798526X	HAV	SURENDRA KUMAR SHRIVASTAVA	01-04-82
628.	6796897F	HAV	THAKUR MUKHLAL PRASAD SINGH	01-01-82
629.	6791335A	HAV	YAMUNA SINGH	01-09-82

ARMY ORDNANCE CORPS

630.	6869367X	HAV	BALDEV RAJ	01-05-82
631.	6871334L	HAV	BHIM BAHADUR THAPPA	01-07-82
632.	6869373L	HAV	BRICHH DHOBI	01-06-82
633.	6871126W	HAV	CHANDRA SINGH	01-06-82
634.	6871117P	HAV	CHHOTE LAL RAJPUT	01-05-82
635.	6871179P	HAV	CINTALA RAMULU	01-07-82
636.	6869296F	HAV	DALIP SINGH	01-04-82
637.	6869434X	HAV	G NINAN	01-08-82
638.	6871016F	HAV	HIRA LAL	01-04-82
639.	6869300Y	HAV	HIRDAI NARAIN	01-03-82
640.	4142634L	HAV	ISHAWARI DATT PANDEY	01-07-82
641.	6869234F	HAV	JUG RAM	01-03-82
642.	6869264Y	HAV	KARTAR CHAND	01-03-82
643.	6872583W	HAV	KEDAR NATH PRASAD	01-03-82
644.	6870533M	HAV	KULLAN	01-02-82
645.	6869204K	HAV	MOTI SINGH	01-03-82
646.	6870746A	HAV	RAM CHANDER	01-03-82
647.	6871207W	HAV	SHANKAR DESAI	01-08-82
648.	6869368A	HAV	SHYAM LAL	01-05-82
649.	6870972H	HAV	SUKHBIR SINGH CHHIKARA	01-04-82
650.	6873269P	HAV	TARA SINGH	01-06-82
651.	6869446N	HAV	TARKESHWAR MISRA	01-07-82
652.	6869889M	HAV	THANKAPPAN PILLAI	01-02-82
653.	6869202Y	HAV	VASANT BHANDARE	01-03-82

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

654.	7041783A	HAV	ADAYADIYIL THOMAS SAMUEL	01-06-82
655.	7037822W	HAV	ALXIOUS	01-02-82
656.	7041300X	HAV	AMBIKA PRASAD SINGH	01-03-82
657.	7042442F	HAV	AMRIK SINGH	01-08-82
658.	7037731M	HVA	ANNA BHARMA UPADHYE	01-02-82
659.	7042194W	HAV	BAKKIYA NATHAN MUDIAPPAN	01-07-82

660.	7037930A	HAV	BALA KRISHNAN	01-03-82
661.	7045239W	HAV	BALAKRISHNAN KANDAKAI CHALIL	01-06-82
662.	7037818N	HAV	BALAND SINGH	01-07-82
663.	7031990Y	HAV	BALDEV KUMAR	01-04-82
664.	7038486F	HAV	BAWA SINGH	01-07-82
665.	7041665M	HAV	BALWAN SINGH	01-05-82
666.	7038498W	H&V	BANSIDHAR SINGH	01-07-82
667.	7032421X	HAV	BEDPAL SINGH	01-05-82
668.	7037938M	HAV	BHAGWAN SURYAWANSHI	01-03-82
669.	7039014X	HAV	BHAGWATI PRASAD	01-06-82
670.	7037971K	HAV	BHIRUNG NATH PANDEY	01-03-82
671.	7035495X	HAV	BINAY KRISHNA ROY	01-03-82
672.	7041895A	HAV	BUA DASS	01-06-82
673.	7041387K	HAV	CHANDRA KANT	01-03-82
674.	7042068K	HAV	CHANDRA SHEKHAR	01-07-82
675.	7038624X	HAV	CHARANJIT SINGH	01-07-82
676.	7039659A	HAV	CHENNAM PENCHILAYYA	01-08-82
677.	7037764X	HAV	DD GAVEL	01-02-82
678.	7037721H	HAV	DANIEL DANDIN	01-02-82
679.	7040263H	HAV	DARSHAN SINGH KAHALWAN	01-05-82
680.	7038479L	HAV	DEB DAS CHATTERJEE	01-07-82
681.	7038666K	HAV	DHAN SINGH	01-08-82
682.	7038630L	HAV	DHANESHWAR RAM	01-08-82
683.	1155823L	HAV	DHARANBEDRAN P	01-07-82
684.	7038696F	HAV	DHARMADAS MAZUMDAR	01-08-82
685.	7038046N	HAV	DIL BAHADUR	01-03-82
686.	1163134Y	HAV	GAJRAJ SINGH PAWAR	01-08-82
687.	7040483M	HAV	GANESH	01-08-82
688.	7041624M	HAV	GANESH RAY	01-08-82
689.	7038259F	HAV	GANGA RAM BRID	01-04-82
690.	7037776M	HAV	GIAN SINGH	01-02-82
691.	7041666P	HAV	GIANI RAM	01-05-82
692.	7038239N	HAV	GIRJA SHANKAR UPADHYA	01-04-82
693.	7042247K	HAV	GOBARDHAN GAHTORI	01-08-82
694.	7038192N	HAV	GORAKHANATH DHENDE	01-04-82
695.	7038385N	HAV	GORAKH NATH SINGH	01-05-82
696.	7032053N	HAV	GULABRAO GAIKWAD	01-06-82
697.	7038123X	HAV	GURCHARAN SINGH	01-04-82
698.	7038377P	HAV	GURDEV SINGH	01-06-82
699.	7038653M	HAV	HARBHAJAN SINGH	01-08-82
700.	7041965N	HAV	HAR PRASAD SINGH	01-12-81
701.	7038273N	HAV	HARISH CHANRA GAYAKWAD	01-04-82
702.	7041539A	HAV	HARSH SINGH BISHT	01-04-82
703.	7041867N	HAV	HAYAT SINGH MAHATA	01-06-82
704.	7041189Y	HAV	INDER SINGH	01-02-82
705.	7038615W	HAV	J DANIEL	01-08-82
706.	7041315A	HAV	JAG NARAYAN SINGH	01-03-82
707.	7038389K	HAV	JAGDISH KERKETTA	01-05-82
708.	7038188L	HAV	JAGDISH LAL	01-04-82
709.	7035768P	HAV	JAI NARAIN	01-09-81
710.	2442147X	HAV	JAMNA DASS	01-02-82
711.	7037908P	HAV	JIT RAM	01-03-82
712.	7038355W	HAV	JOHN THOMAS	01-05-82
713.	7037711Y	HAV	JYOTIRMAY CHAKRABARTY	01-02-82
714.	7037460A	HAV	K SEKHARAN	01-01-82
715.	7031797M	HAV	K VIJAYAN	01-07-82
716.	7041292K	HAV	KP PRABHAKAR MENON	01-03-82
717.	7041262M	HAV	KANSHI RAM	01-03-82
718.	7037780P	HAV	KASHMIR SINGH	01-02-82
719.	7042042P	HAV	KOOTHUR KRISHNAN	01-07-82
720.	7038384L	HAV	KRISHAN GOPAL	01-05-82
721.	7037723N	HAV	LAKSHMI NARAYAN SINGH	01-02-82
722.	7041016F	HAV	LALA RAM SHUKLA	01-02-82
723.	7038622M	HAV	LALJI RAM	01-07-82
724.	7032204F	HAV	MURUGESAN	01-04-82
725.	7032495M	HAV	M RAMU	01-07-82
726.	7046054F	HAV	MK JAYARAJ	01-06-82
727.	7041069A	HAV	MP SANKARA NARAYANAN	01-02-82

728.	7039720Y	HAV	MADAN RAN SINGH	01-08-82
729.	7042202K	HAV	MADHAV GHADGE	01-08-82
730.	7037636L	HAV	MADHAVAN NAIR I	01-02-82
731.	7041004M	HAV	MADHUKAR DESAI	01-02-82
732.	7038421N	HAV	MAHABIR SINGH	01-06-82
733.	7030800P	HAV	MANOHAR LAL	01-04-82
734.	7038681Y	HAV	MOHAN RAM	01-08-82
735.	7037835N	HAV	MOHINDER SINGH	01-02-82
736.	7038102F	HAV	N KRISHNAN NAIR	01-03-82
737.	7042020W	HAV	NARAYAN CHANDRA NATH	01-07-82
738.	7031821X	HAV	NARENDAR SINGH	01-07-82
739.	7041175Y	HAV	NARSINGH LAL YADAV	01-02-82
740.	7039992Y	HAV	NIRBHAYA SINGH	01-02-82
741.	7040899K	HAV	P RAGHU SHETTY	01-07-82
742.	7037754N	HAV	PALAN CHANDRA CHATTERJEE	01-02-82
743.	7030526L	HAV	PARAMANAND TEWARI	01-02-82
744.	7030633K	HAV	PARKASH CHAND	01-04-82
745.	7038340N	HAV	PARTAP SINGH	01-04-82
746.	7041359X	HAV	PATIL DASHARATH	01-03-82
747.	7042007M	HAV	PATTAMTHARA KARUNAKARA	01-07-82
			PANICKER MANIKANTAN NAIR	
748.	7041538X	HAV	PERIAPPA DEVRAJ	01-12-81
749.	7038356Y	HAV	PITAMBAR DATT	01-05-82
750.	7041003K	HAV	PRABHAKAR SHENDE	01-02-82
751.	7037816H	HAV	PRATAP CHANDRA MAJHI	01-02-82
752.	7037975A	HAV	QUMARUL HASAN	01-03-82
753.	7041807Y	HAV	R KANNAIYAN	01-06-82
754.	7040418M	HAV	R MAHADEVAN	01-06-82
755.	7037979W	HAV	RN CHAUBEY	01-03-82
756.	7031916L	HAV	RABINDRA NATH SARKAR	01-06-82
757.	7040091Y	HAV	RAGHUNATH MUSALE	01-07-82
758.	7037841F	HAV	RAM BHAROSA	01-02-82
759.	7045487M	HAV	RAM KANWAR SINGH	01-08-82
760.	7038199X	HAV	RAM PAL SINGH	01-04-82
761.	7038043A	HAV	RAMSARUP LAKHANPAL	01-03-82
762.	7037951W	HAV	RAM SWARATH PANDEY	01-03-82
763.	1512920H	HAV	RAMACHANDRA BHAI PATIL	01-08-82
764.	7038152M	HAV	RAMESH CHANDER	01-04-82
765.	7035932M	HAV	RAMESHWAR DASS	01-04-82
766.	7041622X	HAV	RAN SINGH	01-04-82
767.	7038621K	HAV	RANDHIR SINGH	01-07-82
868.	7033887M	HAV	RANJIT SINGH	01-09-82
769.	7035715W	HAV	RANJIT SINGH	01-05-82
770.	7037652X	HAV	RAVTI PRASAD	01-02-82
771.	7038197M	HAV	REWII RAMAN SHARMA	01-04-82
772.	7038918L	HAV	ROMESH CHAND	01-08-82
773.	7038948H	HAV	ROOP CHAND	01-08-82
774.	7037712F	HAV	ROOP LAL	01-02-82
775.	7036165K	HAV	S RAJARATHINAM	01-04-82
776.	7032441L	HAV	S SUTHANTHIRAN	01-05-82
777.	7031832K	HAV	SADASHIV CHAVAN	01-06-82
778.	7041698X	HAV	SADASHIV JOSHI	01-05-82
779.	7038602Y	HAV	SARJERAO KOKATE	01-08-82
780.	7037847H	HAV	SASADHAR SASMAL	01-02-82
781.	7038376M	HAV	SAT NARAIN MISRA	01-05-82
782.	7037977L	HAV	SHAM RAO	01-03-82
783.	7038053K	HAV	SHUBH KARAN SINGH	01-03-82
784.	7038910Y	HAV	SITARAM SINGH	01-08-82
785.	7044620X	HAV	STEPHEN DISILVA	01-04-82
786.	7038579W	HAV	SUNIRMAL DEB	01-07-82
787.	7037787Y	HAV	SURAJ NATH LAL	01-02-82
788.	7038694W	HAV	SURAJ PAL SINGH CHAUHAN	01-08-82
789.	7037697X	HAV	SURENDRA SINGH	01-02-82
790.	7037983Y	HAV	SURESH CHANDRA	01-03-82
791.	7037654H	HAV	SURYA RAO SANAPPU	01-02-82
792.	7036075K	HAV	SWARAN SINGH	01-10-81
793.	7037799N	HAV	SWARUP SINGH	01-02-82

794.	7038143L	HAV	T VISWANATHAN ACHARI	01-02-82
795.	7037639N	HAV	TC SHANMUGAM	01-02-82
796.	7038697K	HAV	TN GOPALAN NAIR	01-08-82
797.	7038162W	HAV	TARA CHAND	01-04-82
798.	7035651W	HAV	TITUS KANDULNA	01-09-81
799.	7037725Y	HAV	TRILOKI NATH	01-02-82
800.	7038074A	HAV	TUKARAM PANDURANG	01-03-82
801.	7038625A	HAV	UDAY KANT JHA	01-07-82
802.	7037986M	HAV	UDEY RAM	01-03-82
803.	7038917H	HAV	VED PARKASH	01-08-82
804.	7041997W	HAV	VELAYATHIKKOT KRISHNAN	01-07-82
805.	7038299K	HAV	VIRKARAN TIWARI	01-04-82
806.	7038219A	HAV	VISHWA NATH	01-04-82

ARMY EDUCATION CORPS

807.	1153829N	HAV	DHANI RAM CHOUHAN	01-04-82
808.	9500944X	HAV	HAKIM SINGH	01-02-82
809.	1029942P	HAV	KAPUR SINGH BOORA	01-02-82
810.	6798794F	HAV	NARAIN DATT	01-07-82
811.	4038914M	HAV	PREM SINGH ASWAL	01-07-82
812.	6792071W	HAV	RADHEY SHYAM MISRA	01-06-82
813.	1153000M	HAV	SANKARANARAYANA PILLAI PK	01-02-82
814.	2443238N	HAV	SARJIT SINGH PADDA	01-03-82

REMOUNT VETERINARY CORPS

815.	7230645H	DFR	BALA KRISHNA KURUP NAMATH	01-04-82
816.	7231098L	DFR	DHRUPGI ROY	01-02-82
817.	7230687P	DFR	INDRA SINGH	01-08-82
818.	7230682W	DFR	KAPI NATH PANDEY	01-08-82
819.	7230673P	DFR	LACHMI NARAIN	01-08-82
820.	7230628H	DFR	LAXMAN MALI	01-03-82
821.	7230667F	DFR	NISAMANI BEHERA	01-07-82
822.	7231097H	DFR	RAM SARAN	01-03-82
823.	4144837N	DFR	SULTAN SINGH	01-08-82

THE INTELLIGENCE CORPS

824.	6792079H	HAV	DIWAN SINGH RAWAT	01-06-82
825.	1153658M	HAV	HARBANS LAL SHARMA	01-04-82
826.	1030011X	HAV	HARWANT SINGH	01-04-82
827.	1029304W	HAV	PR JEYARAMAN	01-03-82
828.	1029153H	HAV	PARAS NATH SINGH	01-03-82
829.	6792200L	HAV	RADHEY SHYAM	01-07-82
830.	2642485Y	HAV	SAHI RAM	01-02-82
831.	1029054A	HAV	SHIV CHARAN SINGH	01-02-82
832.	1028997M	HAV	SHIV RAM SINGH VERMA	01-02-82
833.	1153669Y	HAV	SITA RAM KOHLI	01-04-82

CORPS OF MILITARY POLICE

834.	4236394X	HAV	BISHUN DAYAL SINGH	01-07-82
835.	2642615W	HAV	GANGA RAM	01-03-82
836.	2947076N	HAV	JAGDISH PRASHAD	01-11-81
837.	1153840M	HAV	K RAMACHANDRAN	01-04-82
838.	9202844M	HAV	KARAM CHAND	01-06-82
839.	6792229N	HAV	MAHABIR SINGH	01-07-82
840.	6598936K	HAV	MAHAN SINGH	01-03-82

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

841.	4535186P	HAV	BABU RO ARAKH	01-03-82
842.	6278463W	HAV	BHUP SINGH	01-06-82
843.	3950464M	HAV	BISHAN DASS	01-06-82
844.	1027808L	HAV	KARTAR SINGH	01-09-81
845.	9203287L	HAV	MATADIN	01-04-82
846.	2947472K	HAV	ONKAR SINGH	01-03-82
847.	4535044X	HAV	RAMA CHANDER	01-02-82

848. 1153899M	HAV	SADAN SINGH	01-07-82
849. 5436819L	HAV	SHANTA BAHADUR THAPA	01-04-82
850. 1562952F	HAV	SUDHAKAR BUWA	01-07-82

THE PIONEER CORPS

851. 7995643H	HAV	BALAYYA	01-02-82
852. 7995396L	HAV	GURDAYAL OJHA	01-03-82
853. 7994301X	HAV	KR NAIR	01-03-82
854. 7995576X	HAV	KARNAIL SINGH	01-03-82
855. 7995663L	HAV	MOHINDER LAL	01-03-82
856. 7995476M	HAV	RAM CHARAN	01-02-82

DEFENCE SECURITY CORPS

857. 8806114	HAV	GABAR SINGH	01-08-82
858. 2529886	HAV	GEORGE WILSON DSOUZA	01-04-82
859. 8803 766	HAV	HARPHUL SINGH	01-06-82
860. 6518622	HAV	KRISHAN PAL SINGH	01-06-82
861. 6754750	HAV	MR KARUPPAN	01-04-82
862. 3332919	HAV	RESHAM SINGH	01-06-88
863. 8797672	HAV	SUCHA SINGH	01-04-82

BHASKAR GHOSE, Jt. Secy (PSW)

सं 11-ई तारीख 11 अगस्त, 1982 राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं —

भारतीय नौसेना

स्थायी काडर

विशेष ड्यूटीज सूची

निम्नलिखित मास्टर चीफ पेटी अफ सरो को भारतीय नौसेना में 15 अगस्त 82 से विशेष ड्यूटीज सूची पर अवैतनिक कमीशन प्रदान किया जाता है :—

अवैतनिक लेफ्ट के पद पर (विशेष ड्यूटीज)

क्र०सं०	नाम	रैंक	न०
1	2	3	4
1.	एस के बिसवास	एम सी पी ओ 1 (अवैतनिक सब लेफ्टि)	024213-एफ
2.	जी सिंह	एम सी पी ओ 1 (अवै० सब लेफ्टि०)	036295-आर
3.	चरन सिंह	एम सी पी ओ 1 (अवै० सब लेफ्टि०)	045363-जेड
4.	ओम प्रकाश सिंह	एम सी पी ओ 1 (अवै० सब लेफ्टि०)	061770-एन
5.	एम जी स्वामी	एम पी सी ओ आर (टेक) (अवै सब-लेफ्टि०)	036352-एन
6.	बी एल कुलकर्णी	एम सी मेक 1 (अवै० सब लेफ्टि०)	036364-वाई
7.	आर एस कोल्हापुर	एम सी एम ई 1 (अवै० सब-लेफ्टि०)	060259-बी
8.	ए एल यादव	एम सी पी ओ राइटर 1 (अवै० सब लेफ्टि०)	061866-एफ
9.	जे एन मिश्रा	एम एस सी पी ओ 1 (अवै सब लेफ्टि०)	062252-एच
10.	मोहिनंदर सिंह	एम सी ए (एस ई) 1 (अवै० सब लेफ्टि०)	064259-डब्ल्यू०
11.	बी एस नेगी	एम सी एट आर्म्स (अवै सब लेफ्टि०)	036287-वाई
अवैतनिक सब-लेफ्टि के पद पर (विशेष ड्यूटीज)			
1.	बी डी उपरेती	एम सी पी ओ 1	036286-डब्ल्यू
2.	शायर सिंह	एम सी पी ओ 1	036403-के
3.	ए एस रावत	एम सी पी ओ (एस पी टी आई)	043265-एफ
4.	बचन सिंह	एम सी पी ओ 1	044232-बी
5.	हरनाम सिंह	एम सी पी ओ 1	044498-एच
6.	भगत राम	एम सी पी ओ 1	044686-के
7.	खैराती लाल	एम सी पी ओ	044738-बी

8.	एम एस सूदन	एम सी पी ओ II (क्यू एम आई)	04688-एफ
9.	मदन सिंह	एम सी पी ओ आर (टेक) II	061882-टी
10.	टी आर नान्दियार	एम सी पी ओ आर (टेक) I	063389-टी
11.	दीपक दत्त	एम सी पी ओ आर (टेक) I	045760-ए
12.	पी टी जोसफ	एम सी मेक I	044112-एफ
13.	एन एस जैसवाल	एम सी मेक I	060247-ए
14.	बी एल पप्पचन	एम सी मेक I	065655-टी
15.	एस सी बिस्वास	एम सी एम ई I	061709-जेड
16.	जगमेल सिंह	एम सी ई ए आर I	050119-एच
17.	एम एस रावत	एम सी ई ए आर	050350-एच
18.	एम एल शर्मा	एम सी पी ओ राइटर	061906-वाई
19.	एन जी नायर	एम सी पी ओ कुक (एस) I	062008-बी
20.	अहमद रिवाज	एम सी पी ओ स्टीवर्ड I	062483-एच
21.	विक्टर लोबो	एम सी पी ओ कुक (ओ) I	062930-जेड
22.	धन्ना राम	एम सी पी ओ एम ए I	063245-आर
23.	एम ए जार्ज	एम सी एट आर्म्स II	062341-के
24.	एच सी बन्देल	एम सी एम I	049277-डब्ल्यू
25.	एच एस भेगी	एम सी पी ओ (ए एफ)	044626-जेड
26.	जे सिंह	एम सी पी ओ I ए ओ एफ I	044636-आई

कोशल कुमार माथुर, सयुक्त सचिव

No. 11-E dated 11th August, 1982, The President is pleased to make the following appointments :—

INDIAN NAVY

PERMANENT CADRE

SPECIAL DUTIES LIST

The following Master Chief Petty Officers are granted Honorary Commission on the Special Duties List on 15 Aug. 82 :—

TO BE HONORARY LIEUTENANT (SPECIAL DUTIES)

Sl. No.	Name	Rank	No.
1.	SK BISWAS	MCPOI (HON SLT)	024213-F
2.	G SINGH	MCPOI (HON SLT)	036295-R
3.	CHARAN SINGH	MCPOI (HON SLT)	045363-Z
4.	OM PARKASH SINGH	MCPOI (HON SLT)	061770-N
5.	MG SWAMY	MCPOR (TAC) I (HON SLT)	036352-N
6.	VL KULKARNI	MCMECHI (HON SLT)	036364-Y
7.	R KOLHAPUR	MCMEI (HON SLT)	060259-B
8.	AL YADAV	MCPOWTRI (HON SLT)	061866-F
9.	JN MISRA	MSCPOI (HON SLT)	052252-H
10.	MOHINDER SINGH	MCA (SE) I (HON SLT)	064259-W
11.	BS NEGI	MC-AT-ARMSI (HON SLT)	036287-Y

TO BE HONORARY SUB-LIEUTENANTS (SPECIAL DUTIES)

1.	BD UPRETI	MCPOI	036286-W
2.	SHAYAR SINGH	MCPOI	036403-K
3.	AS RAWAT	MCPOI (SPTI)	043265-F
4.	BACHAN SINGH	MCPOI	044232-B
5.	HARNAM SINGH	MCPOI	044498-H
6.	BHAGAT RAM	MCPOI	044686-K
7.	KHARAITI LAL	MCPOI	044738-B
8.	MS SUDAN	MCPOII (QMT)	046498-F
9.	MADAN SINGH	MCPOR (TAC) II	061882-T
10.	TR NAMBIAR	MCPOR (TAC) I	063389-T
11.	DIPAK DUTTA	MCPOR (TEL) I	045760-A

12. PT JOSEPH	MCMECH I	044112-F
13. NS JASWAL	MCMECH I	060247-A
14. BL PAPPACHAN	MCMECH I	065655-T
15. SC BISWAS	MCME I	061709-Z
16. JAGMAIL SINGH	MCEAR I	050119-H
17. MS RAWAT	MCEAR I	050350 H
18. ML SHARMA	MCPOWTR I	061906-Y
19. NG NAIR	MCPOCK (S) I	062008-B
20. AHMED RIAZ	MCPO STD I	062483-H
21. VICTOR LOBO	MCPO CK(O) I	062930-Z
22. DHANNA RAM	MCPOMA I	063245-R
23. MA GEORGE	MC-AT-ARMS II	062341-K
24. HC CHANDEL	MCAM I	040277-W
25. HS NEGI	MCPO (AF) I	044626-Z
26. J SINGH	MCPO (AOF) I	044636-Y

K K MATHUR, Jt Secy

(वायु शाखा)

सं० 12-ई दिनांक, 29 जुलै (ई), 1982 — वायुसेना बिनियमावली के पैरा 344 के अन्तर्गत निम्नलिखित आनरेरी फ्लाईंग ऑफसरों को 15 अगस्त 1982 से आनरेरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

1. 201358 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) सूरत सिंह यादव	फ्लाइट इजि
2. 44792 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) सरदार सिंह बेदी	वैपन फिट
3. 200473 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) बाल राम बक्शी	एम टी फिट
4. 200072 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) जगदीश चन्द मुजाल	फ्लाइट मिग
5. 203575 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) पुस्तन पुराकल डानिअल जोसफ	ए एफ फिट
6. 203023 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) मथार्ई वेनुपराम्बिल कोशी	एम टी डी
7. 200813 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) जगदीश चन्द निवारी	इजिन फिट
8. 200992 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) ओम प्रकाश शर्मा	ए एफ फिट
9. 204891 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) छिनिकुणा गोपाल रतन नायडू	क्लर्क जी डी
10. 205185 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) सच्चिदानन्द नेथानी	इक्यू असिस्ट
11. 208003 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) सम्पत भागुदाम मोहन	मैड असिस्ट
12. 203246 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) अमर सिंह	वैपन फिट
13. 203757 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) दर्शन सिंह हुन्डल	फिटो
14. 206035 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) राज पाल साहनी	इन्सट फिट
15. 205609 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) तरलोक सिंह रेहम	मैड असिस्ट
16. 300383 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) मुनीरुलामी नायडू अलफोन्स	म्यूजिशियन
17. 300386 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) अमरीक सिंह	इजिन फिट
18. 45002 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) जनार्दन सिंह	ए सी एच जी डी
19. 206083 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) दिवो वर्ता गंगुली	क्लर्क जी डी
20. 100438 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) विजयनाथ अइयर रामाचन्दन	क्लर्क अकाउंट
21. 200245 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) पुलुवजार देवर सुब्रमणियम	इलैक्ट फिट
22. 203814 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) अभूत्य चन्द्र पाल	कैट असिस्ट
23. 204526 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) राम नन्दन सिंह	आई ए एफ पी
24. 101314 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) मेहर सिंह	इलैक्ट फिट
25. 300417 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) पराप्पुल्लु थक्कम्मा मदासिबन पिल्ले	रेडियो फिट
26. 205699 मा वा अ (आनरेरी फ्लाईंग ऑफसर) मदन मोहन मिश्रा	ए एफ एस ओ

No 12-E, dated 29th July, 1982—The undermentioned Honorary Flying Officers are promoted as Honorary Flight Lieutenants with effect from 15th August, 1982 under para 344 of Regulations for the Air Force.

1.	201358	MWO	(HONY FG OFFR)	Surat Singh Yadav	Flt/Eng
2.	44792	MWO	(HONY FG OFFR)	Sardar Singh Bedi	Wpn/Fit
3.	200473	MWO	(HONY FG OFFR)	Bal Ram Bakshi	MT/Fit
4.	200072	MWO	(HONY FG OFFR)	Jagdish Chandra Munjal	Fit/Sig
5.	203575	MWO	(HONY FG OFFR)	Puthen Purakal Daniel Joseph	AF/Fit
6.	203023	MWO	(HONY FG OFFR)	Mathai Valuparambil Koshy	M T D
7.	200813	MWO	(HONY FG OFFR)	Jagdish Chandra Tewari	Eng/Fit
8.	200992	MWO	(HONY FG OFFR)	Om Prakash Sharma	AF/Fit
9.	204891	MWO	(HONY FG OFFR)	Chinikrishna Gopala Rattan Naidu	Clk/GD
10.	205185	MWO	(HONY FG OFFR)	Sachidanand Naithani	Eq/Asst
11.	208003	MWO	(HONY FG OFFR)	Sampat Bhanudas Mohol	Med/Asst
12.	203246	MWO	(HONY FG OFFR)	Amar Singh	Wpn/Fit
13.	203757	MWO	(HONY FG OFFR)	Darshan Singh Hundal	Crypto
14.	206035	MWO	(HONY FG OFFR)	Raj Paul Sahni	Inst/Fit
15.	205609	MWO	(HONY FG OFFR)	Tarlok Singh Rehal	Med/Asst
16.	300382	MWO	(HONY FG OFFR)	Muniswamy Naidu Alphones	Musn
17.	300386	MWO	(HONY FG OFFR)	Amrik Singh	Eng/Fit
18.	45002	MWO	(HONY FG OFFR)	Janardhan Singh	Ach/GD
19.	206083	MWO	(HONY FG OFFR)	Debo Brata Ganguly	Ckl/GD
20.	100438	MWO	(HONY FG OFFR)	Viswanath Iyer Ramachandran	Clk/Accts
21.	200245	MWO	(HONY FG OFFR)	Pooludayar Devar Siva Subramaniam	Elect/Fit
22.	203814	MWO	(HONY FG OFFR)	Anulya Chandra Pal	Cat/Asst
23.	204526	MWO	(HONY FG OFFR)	Ram Nandan Singh	1AF/P
24.	101314	MWO	(HONY FG OFFR)	Mehar Singh	Elect/Fit
25.	300417	MWO	(HONY FG OFFR)	Parappattu Thankamma Sadasivan Pillai	Rdo/Fit
26.	205699	MWO	(HONY FG OFFR)	Madan Mohan Mishra	AFSO

सं० 13ई, दिनांक 29 जुलाई, 1982.— वायुसेना विनियमवली के पैरा 344 के अन्तर्गत निम्नलिखित मास्टर वारंट अफसरों/ वारंट अफसरों को 15 अगस्त 1982 में फ्लाईंग अफसर के रैंक में आनरेरी कमीशन प्रदान किया जाता है:—

1.	42294	मा बा अ प्रीतम सिंह	ए सी एच जी डी
2.	100730	मा बा अ केसवन रावचन	ए सी एच जी डी
3.	42610	मा बा अ ईशवर लाल शाह	ए सी एच जी डी
4.	201710	मा बा अ विश्वनाथ अनन्त संत	ए एफ/फिट
5.	201371	मा बा अ सरम्बिकन वैकटेश्वरा अय्यर बालाकृष्णन	ए एफ/फिट
6.	200762	मा बा अ शंका पिल्ले पुष्पोत्थमन नायर	ए एफ/फिट
7.	200176	मा बा अ मलकियत सिंह	ए एफ/फिट
8.	201368	मा बा अ वसन्त नारायण पुरम्हारे	ए एफ/फिट
9.	20344	मा बा अ पूरन सिंह	ए एफ/फिट
10.	205636	मा बा अ दुमणे वामुदेव मदाशिवराय	ए एफ/फिट
11.	201348	मा बा अ कुशन किशोर कपूर	ए एफ/फिट
12.	201273	मा बा अ रमन लाल शर्मा	ए एफ/फिट
13.	203709	मा बा अ रविन्दा नाथ के	ए एफ/फिट
14.	201224	मा बा अ प्रतोष गुहा	ए एफ/फिट
15.	201354	मा बा अ दर्शन सिंह छिल्लो	ए एफ/फिट
16.	201005	मा बा अ चिराक्कुम्माशा कानन बालाकृष्णन नायर	ए एफ/फिट
17.	200366	मा बा अ सुरज प्रकाश बिग	ए एफ/फिट
18.	200124	मा बा अ दयाल सिंह सन्धू	ए एफ/फिट
19.	202490	मा बा अ रत्नास्वामी सम्पांगी राजू	ए एफ/फिट
20.	202761	मा बा अ सुरिन्दर सिंह मलहोत्रा	ए एफ/फिट
21.	202939	मा बा अ हरबन्स सिंह गिल	ए एफ/फिट

22.	200242 मा वा अ गोपाल नायडू श्रिनिवासन	ए एफ/फिट
23.	202404 मा वा अ चित्तूर श्रिब्राह्म जकारिया	ए एफ एस ओ
24.	201610 मा वा अ बरगीज श्रिब्राह्म	ए एफ एस ओ
25.	204594 मा वा अ श्याम श्रीनिवास जोशी	ए एफ एस ओ
26.	201931 मा वा अ श्याम नारायण सिंह	ए एफ एस ओ
27.	204496 मा वा अ निलकर मुन्दर राव	कैट असिस्ट
28.	206107 मा वा अ मुखतियार सिंह	कैट असिस्ट
29.	205425 मा वा अ मदन लाल शर्मा	क्लर्क अकाउन्ट्स
30.	202465 मा वा अ गुरु मूनि अय्यर नरायणा स्वामी	क्लर्क अकाउन्ट्स
31.	206336 मा वा अ श्रमय नारायण राय	क्लर्क अकाउन्ट्स
32.	202306 मा वा अ मुख दास शाद	क्लर्क अकाउन्ट्स
33.	204617 मा वा अ पुरकायस्था निरमल कुमार दाम	क्लर्क अकाउन्ट्स
34.	204591 मा वा अ सतपाल शर्मा	क्लर्क अकाउन्ट्स
35.	203421 मा वा अ नारायण चेल्लप्पा पनिकर	क्लर्क अकाउन्ट्स
36.	206335 मा वा अ राम बिहारी लाल मकमेना	क्लर्क अकाउन्ट्स
37.	206010 मा वा अ सैनी ब्रिशन दास	क्लर्क जी डी
38.	200974 मा वा अ रजिन्दर सिंह	क्लर्क जी डी
39.	203861 मा वा अ एन्टोनी जोसफ फरनान्डस	क्लर्क जी डी
40.	201353 मा वा अ बकशीश सिंह ठिल्लो	क्लर्क जी डी
41.	200752 मा वा अ शिव स्वरूप सक्सेना	क्लर्क जी डी
42.	202257 मा वा अ परिमल कुमार सन्याल	क्लर्क जी डी
43.	200859 मा वा अ कुलाक्कुन्थ नरायणन नायर	क्लर्क जी डी
44.	200916 मा वा अ अकतार सिंह	क्लर्क जी डी
45.	206631 मा वा अ निरमन नरायण भनौत	क्लर्क जी डी
46.	300088 मा वा अ धर्म देव सिंह	क्लर्क जी डी
47.	204330 मा वा अ मासुम्नी जोर्ज	क्रण्टो
48.	201961 मा वा अ कुरियुम्मूटिल कोशी	क्रण्टो
49.	300451 मा वा अ मनिककुन्थ रमण पिल्ले पुरुषोत्थमन	इलैक्ट फिट
50.	204477 मा वा अ त्रिलोक सिंह खेड़ा	इलैक्ट फिट
51.	203568 मा वा अ फकीर चन्द शर्मा	इलैक्ट फिट
52.	300304 मा वा अ न्यान सिंह	इलैक्ट फिट
53.	200087 मा वा अ कृष्ण लाल	इलैक्ट फिट
54.	203117 मा वा अ सन्डा सिंह	इलैक्ट फिट
55.	201945 मा वा अ धर्म प्रकाश सुद	इलैक्ट फिट
56.	200942 मा वा अ जमधन्त सिंह	इन्जिन फिट
57.	200909 मा वा अ सुरेन्द्र कुमार चौधरी	इन्जिन फिट
58.	201936 मा वा अ मोहिन्दर नाथ वर्मा	इन्जिन फिट
59.	202711 मा वा अ दर्शन लाल तलवार (202711)	इन्जिन फिट
60.	204560 मा वा अ मार्गसिरी गोपाला कृष्णन	इन्जिन फिट
61.	202644 मा वा अ मुजराल पृथ्वीराज	इन्जिन फिट
62.	203899 मा वा अ थोमस वर्धीस	इन्जिन फिट
63.	205713 मा वा अ भजन सिंह श्रीलक्ष	इन्जिन फिट
64.	200297 मा वा अ धर्मेन्द्र सिंह गिल	इन्जिन फिट
65.	206394 मा वा अ दलीप सिंह शरही	इन्जिन फिट
66.	201615 मा वा अ जोगिन्द्र सिंह	इन्जिन फिट
67.	210258 मा वा अ जुगल किशोर बैनर्जी	इक्वु असिस्ट
68.	201733 मा वा अ मुनीश्वर दत्त	इक्वु असिस्ट
69.	202877 मा वा अ हरीनाथ मजूमदार	इक्वु असिस्ट
70.	46261 मा वा अ वडकेडम बरगीज थामस	इक्वु असिस्ट

71.	206057 मा वा अ लाल चन्द शर्मा	इक्यु असिस्ट
72.	202752 मा वा अ चक्रपानी रामचन्द्र नायडू	इक्यु असिस्ट
73.	203377 मा वा अ सुधीर कुमार चौधरी	इक्यु असिस्ट
74.	204274 मा वा अ प्रोकाश चन्द्र चक्रवर्ती	इक्यु असिस्ट
75.	201414 मा वा अ अपूर्व कुमार बनर्जी	पलाइट इन्जि
76.	200576 मा वा अ कप्पाडय पाशे केशवन मेनन	पलाइट इन्जि
77.	200975 मा वा अ दलीप सिंह	पलाइट इन्जि
78.	201823 मा वा अ हरदित सिंह	पलाइट इन्जि
79.	202362 मा वा अ सोम्बरजीत सिंह	जी टी आई
80.	200075 मा वा अ हरनाम सिंह भसीन	जी टी आई
81.	202218 मा वा अ अमरीक सिंह	जी टी आई
82.	202039 मा वा अ शिव जनम सिंह	जी टी आई
83.	300283 मा वा अ बलबीर सिंह	जी टी आई
84.	306469 मा वा अ निलाम्बर भास्कर लहरी	आइ ए एफ पु
85.	204516 मा वा अ पाडिपुरकल चेरियन जॉर्ज	आइ ए एफ पु
86.	206300 मा वा अ रामा स्वामी अरुनाचलम	आइ ए एफ पु
87.	200079 मा वा अ स्वर्ण सिंह	इन्स्ट्रूमेंट फिट
88.	300323 मा वा अ वरुण कान्ता मजूमदार	इन्स्ट्रूमेंट फिट
89.	202014 मा वा अ हरदयाल सिंह	इन्स्ट्रूमेंट फिट
90.	300115 मा वा अ जगदीश प्रसाद	इन्स्ट्रूमेंट फिट
91.	201780 मा वा अ पौल इस्मेनुअल	इन्स्ट्रूमेंट फिट
92.	201735 मा वा अ जगदीश चन्द्र	इन्स्ट्रूमेंट फिट (पी)
93.	201796 मा वा अ मड्डेला लूके देवदानम	इन्स्ट्रूमेंट फिट (पी)
94.	205557 मा वा अ गोपाल दास चावला	मेड असिस्ट
95.	202646 मा वा अ शम्भू नाथ	मेड असिस्ट
96.	208007 मा वा अ अडिगुल्लु वेंकट राज सुब्रमणियम	मेड असिस्ट
97.	208013 मा वा अ लक्ष्मी नारायण घोष	मेड असिस्ट
98.	101575 मा वा अ अतर सिंह आनन्द	मेड असिस्ट
99.	200518 मा वा अ मदन गोपाल चौधरी	मेड असिस्ट
100.	206172 मा वा अ पुन्नुस्वामी दुरै राज	एम टी डी
101.	206223 मा वा अ गोरखनाथ दामोदर भिलाल	एम टी डी
102.	100247 मा वा अ वेंकटरामन नटराजन	एम टी डी
103.	202729 मा वा अ माइकिल डी-सूजा	एम टी डी
104.	300004 मा वा अ कृष्ण कुमार	एम टी डी
105.	206318 मा वा अ पौन्डयथ दामोदरन नायर	एम टी डी
106.	302347 मा वा अ ममगाई जगन्नाथ	एम टी डी
107.	204171 मा वा अ बोनिफेस कुटिना बेनेडिक्ट	एम टी फिट
108.	202521 मा वा अ शिव इन्दर कुमार सूरी	एम टी फिट
109.	200627 मा वा अ रंशन लाल शर्मा	एम टी फिट
110.	204846 मा वा अ गोविन्द देव भट्टाचार्या	एम टी फिट
111.	200622 मा वा अ गुलजारी लाल दत्ता	एम टी फिट
112.	201853 मा वा अ बारलेन्ड मेक्सवेल	म्यु जीशियन
113.	206197 मा वा अ एलफोन्स राड्रीक्स	म्यु जीशियन
114.	205271 मा वा अ अत्तार सिंह दहिया	रडार फिट
115.	210436 मा वा अ गोपालकृष्णन मेनन	रडार फिट
116.	201528 मा वा अ सुभाष चन्द्र	रडार फिट
117.	204067 मा वा अ धल्ला राम अरोरा	रडार फिट
118.	210250 मा वा अ सोहन लाल चावला	रेडियो फिट
119.	202593 मा वा अ साधू प्रसाद	रेडियो फिट

120.	203247	मा वा अ जमवन्त सिंह	रेडियो फिट
121.	202165	मा वा अ राम कृष्ण रति	रेडियो फिट
122.	202643	मा वा अ बुधवन्त रॉय वैद	एस ई डब्ल्यू
123.	204318	मा वा अ पुष्पाग चाको इट्टी	फ्लाइट सिग
124.	202007	मा वा अ गन्टोनी जॉसफ मल्दाना	वेपन फिट
125.	300327	मा वा अ पुरुषोत्तम शंकरराव दुरानी	वेपन फिट
126.	202192	मा वा अ परमानन्द सिंह	वेपन फिट
127.	40169	मा वा अ कृष्ण लाल शर्मा	वेपन फिट
128.	204160	मा वा अ अक्षित लाल नन्दी मजूमदार	वेपन फिट
129.	208572	मा वा अ कुप्पन्डी मन्नाडियार चामियप्पन	वेपन फिट
130.	208750	मा वा अ नारायण शरण दूवे	वेपन फिट
131.	202683	मा वा अ सुरजीत सिंह	वेपन फिट
132.	204849	मा वा अ हेनरी परफरियो फरनाण्डेज	वेपन फिट

No 13—E, dated 29th July, 1982.—The undcmentioned MWO/WOL are granted Honorary Commission in the rank of Flying Officer with effect from 15th August, 1982 under para 344 of Regulations for the Air Force.

1.	42294	MWO	Pritam Singh	Ach/GD
2.	100730	MWO	Kesavna Raghavan	Ach/GD
3.	42610	MWO	Ishawar Lal Shah	Ach/GD
4.	201710	MWO	Vishwanath Anant Sant	Af/Fit
5.	201371	MWO	Srambikkal Venkateswara Iyer Balakrishnan	Af/Fit
6.	200762	MWO	Sankara Pillai Purushothaman Nair	Af/Fit
7.	200176	MWO	Malkiat Singh	Af/Fit
8.	201368	MWO	Vasant Narayan Purandare	Af/Fit
9.	203441	MWO	Puran Singh	Af/Fit
10.	205636	MWO	Vasudeo Sadashio Rao Dhumne	Af/Fit
11.	201348	MWO	Krishan Kishore Kapoor	Af/Fit
12.	201273	MWO	Ratan Lal Sharma	Af/Fit
13.	203709	MWO	Rabindra Nath Dey	Af/Fit
14.	201224	MWO	Pritosh Guha	Af/Fit
15.	201354	MWO	Darshan Singh Dhillon	Af/Fit
16.	201005	MWO	Chirakkuthasha Kannan Balakrishnan Nair	Af/Fit
17.	200366	MWO	Suraj Prakash Vig	Af/Fit
18.	200124	MWO	Dayal Singh Sandhu	Af/Fit
19.	202490	MWO	Rathnaswamy Sampangi Raju	Af/Fit
20.	202761	MWO	Surinder Singh Malhotra	Af/Fit
21.	202938	MWO	Harbans Singh Gill	Af/Fit
22.	200242	MWO	Gopal Naidu Srinivasan	Af/Fit
23.	202204	MWO	Chittur Abraham Zacharia	AFSO
24.	201610	MWO	Varughese Abraham	AFSO
25.	204594	MWO	Shyam Shrinivas Joshi	AFSO
26.	204931	MWO	Shyam Narayan Singh	AFSO
27.	204496	MWO	Nilkar Sunder Rao	Cat/Asst
28.	206107	MWO	Mukhtiar Singh	Cat/Asst
29.	205425	MWO	Madan Lal Sharma	Clk/Accts
30.	202465	MWO	Gurumoorthy Iyer Narayana Swamy	Clk/Accts
31.	206336	MWO	Abhai Narain Rai	Clk/Accts
32.	202306	MWO	Sukh Dass Shad	Clk/Accts
33.	204617	MWO	Purkayastha Nirmal Kumar Das	Clk/Accts
34.	204591	MWO	Satpal Sharma	Clk/Accts
35.	203421	MWO	Narayan Chellappa Panicker	Clk/Accts
36.	206333	MWO	Ram Bihari Lal Saxena	Clk/Accts
37.	206010	MWO	Saini Bishen Das	Clk/GD
38.	200974	MWO	Rajinder Singh	Clk/GD
39.	203861	MWO	Antony Joseph Fernandez	Clk/GD
40.	201353	MWO	Baksh Singh Dhillon	Clk/GD
41.	200752	MWO	Shiv Swarup Saxena	Clk/GD
42.	202257	MWO	Parimal Kumar Sanyal	Clk/GD
43.	200859	MWO	Kulakkunnath Narayanan Nair	Clk/GD
44.	200916	MWO	Avatai Singh	Clk/GD
45.	206631	MWO	Nirmal Narain Bhanot	Clk/GD
46.	300088	MWO	Dharm Deo Singh	Clk/GD
47.	201330	MNO	Mathunny George	Crypto
48.	201961	MWO	Kursummootil Koshy	Crypto

49.	300451	MWO	Manikkunnath Raman Pillai Purushothaman	Elect/Git
50.	204477	MWO	Tirlok Singh Khaira	Elect/Fit
51.	203568	MWO	Faqir Chand Sharma	Elect/Fit
52.	200304	MWO	Gian Singh	Elect/Fit
53.	200087	MWO	Krishan Lal	Elect/Fit
54.	203117	MWO	Jhanda Singh	Elect/Fit
55.	201945	WO	Dharam Parkash Sood	Elect/Fit
56.	200942	MWO	Jaswant Singh	Eng/Fit
57.	200909	MWO	Surendra Kumar Choudhary	Ent/Fit
58.	201996	MWO	Mohinder Nath Verma	Eng/Fit
59.	202711	MWO	Darshan Lal Talwar	Eng/Fit
60.	204560	MWO	Margassery Gopalakrishnan	Eng/Fit
61.	202644	MWO	Mujral Prithvi Raj	Eng/Fit
62.	203899	MWO	Thomas Varghese	Eng/Fit
63.	205713	MWO	Bhajan Singh Aulakh	Eng/Fit
64.	300297	MWO	Raghbir Singh Gill	Eng/Fit
65.	206394	WO	Dalip Singh Arhi	Eng/Fit
66.	201315	MWO	Joginder Singh	Eng/Fit
67.	210258	MWO	Jugal Kishore Banerjee	Eq/Asst
68.	201733	MWO	Munishwar Dutt	Eq/Asst
69.	202877	MWO	Harinath Majumdar	Eq/Asst
70.	46261	MWO	Vadakkedam Varghese Thomas	Eq/Asst
71.	206057	MWO	Lal Chand Sharma	Eq/Asst
72.	202752	MWO	Chakrabani Ramachandra Naidu	Eq/Asst
73.	203377	MWO	Sudhir Kumar Choudhary	Eq/Asst
74.	204274	MWO	Prakash Chandra Chakraborty	Eq/Asst
75.	201414	MWO	Apurba Kumar Banerjee	Flt/Eng
76.	200576	MWO	Kappadath Pazhay Kesavan Menon	Flt/Eng
77.	200975	MWO	Dalip Singh	Flt/Eng
78.	201823	MWO	Hardit Singh	Flt/Eng
79.	202362	MWO	Somberjit Singh	G T I
80.	200075	MWO	Harnam Singh Bhasin	G T I
81.	202218	MWO	Amrik Singh	G T I
82.	202039	MWO	Sheo Janam Singh	G T I
83.	300283	MWO	Balbir Singh	G T I
84.	206469	MWO	Nilambar Bha-shar Lahiry	IAF/P
85.	204516	MWO	Padipurackal Cherian George	IAF/P
86.	206300	MWO	Rama Swamy Arunachalam	IAF/P
87.	200079	MWO	Swaran Singh	Inst/Fit
88.	300323	MWO	Arun Kanta Majumdar	Inst/Fit
89.	202014	MWO	Hardyal Singh	Inst/Fit
90.	300115	MWO	Jagdish Prasad	Inst/Fit
91.	201780	MWO	Paul Emmanuel	Inst/Fit
92.	201735	MWO	Jagdish Chandra	Inst/Fit (Photo)
93.	201796	MWO	Maddela Luke Devada-nam	Inst/Fit (Photo)
94.	205557	MWO	Gopal Das Chawla	Med/Asst
95.	202646	MWO	Shambu Nath	Med/Asst
96.	208007	MWO	Thadigollu Venkat Rao Subramanyam	Med/Asst
97.	208013	MWO	Lakshmi Narayan Ghosh	Med/Asst
98.	101557	MWO	Attar Singh Anand	Med/Asst
99.	200518	MWO	Madan Gopal Choudhary	Mct/Asst
100.	206172	MWO	Ponnuswamy Dorai Raj	M T D
101.	206223	MWO	Gorakhnath Domodar Misal	M T D
102.	100247	MWO	Venkataraman Natarajan	M T D
103.	202729	MWO	Michael D'Souza	M T D
104.	300004	MWO	Krishan Kumar	M T D
105.	206318	MWO	Pondayal Domodaran Nair	M T D
106.	202347	MWO	Mangain Jagannath	M T D
107.	204171	MWO	Boniface Cutinha Benedict	Mt/Fit
108.	202531	MWO	Shiv Inder Kumar Suri	Mt/Fit
109.	200627	MWO	Roshan Lal Sharma	Mr/Fit
110.	204846	MWO	Gobinda Deb Bhattacharyya	Mt/Fit
111.	200622	MWO	Gulzari Lal Datta	Mt/Fit
112.	201853	MWO	Barland Maxwell	Musn
113.	206197	MWO	Alphonsus Rodrigues	Musn
114.	205271	MWO	Attar Singh Dahiya	Rad/Fit
115.	210436	MWO	Gopalakrishnan Menon	Rad/Fit
116.	201528	MWO	Subhash Chandra	Rad/Fit
117.	204067	MWO	Dhalla Ram Arora	Rad/Fit

118.	210250	MWO	Sohan Lal Chawla	Rdo/Fit
119.	202593	MWO	Sadhoo Prasad	Rdo/Fit
120.	203247	MWO	Jaswant Singh	Rdo/Fit
121.	202165	WO	Ram Krishan Rati	Rdo/Fit
122.	202643	MWO	Budhwant Roy Vaid	S E W
123.	204318	MWO	Puliyapara Chacko Itty	Flt/Sig
124.	202007	MWO	Anthony Joseph Saldanha	Wpn/Fit
125.	200327	MWO	Purushottam Shankar as Durani	Wpn/Fit
126.	202192	MWO	Parmanand Singh	Wpn/Fit
127.	40169	MWO	Krishan Lal Sharma	Wpn/Fit
128.	204160	MWO	Asit Lal Nandi Majumdar	Wpn/Fit
129.	208572	MWO	Kuppandi Manna Diar Chamiappan	Wpn/Fit
130.	208750	WO	Narayan Sharan Dubey	Wpn/Fit
131.	202673	WO	Surjit Singh	Wpn/Fit
132.	204849	MWO	Henry Perferio Fernandez	Wpn/Fit

सं० 14-ई, दिनांक 29 जुलाई, 1982.—वायुसेना विनियमावली के पैरा 345 के अन्तर्गत सेवा निवृत्त सूची पर निम्नलिखित मास्टर वारंट अफसरों को 15 अगस्त 1982 से फ्लाईंग अफसर का आनरेरी रैंक प्रदान किया जाता है:—

- | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. सेवानिवृत्त मा वा अ (47346) वैल्लोर जानकीराम कृष्णा मूर्ती | रेडियो फिट |
| 2. सेवानिवृत्त मा वा अ (100434) जार्ज जोसेफ] | एसी एच (जी डी) |
| 3. सेवानिवृत्त मा वा अ (44353) वेलायुधम चैल्लप्पा | एम टी डी |
| 4. सेवानिवृत्त मा वा अ (45495) कुन्जु कुन्जु नारायणन | कार्पोन्टर रिग |

पी०वी० देसाई,
संयुक्त सचिव

No 14-E, dated 29th July, 1982—The undermentioned retired MWOs are granted the Honorary rank of Flying Officer with effect from 15th August, 1982 on the retired list under para 344 of Regulations for the Air Force.

- | | |
|---------------------------------------------------|----------|
| 1. Ex-MWO (47346) Vellore Janakram Krishan Murthy | Rdo/Fit |
| 2. Ex-MWO (100434) George Joseph | Ach/GD |
| 3. Ex-MWO (44353) Velayudham Chellappa | M T D |
| 4. Ex-MWO (45495) Kunju Kunju Narayanan | Carp/Rig |

(P. V. DESAI, Joint Secretary)